

ĴNĀNĀPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ
PĀKRIT GRANTHA NO. 9

MAHĀBANDHO

[MAHĀDHAVALĀ SIDDHĀNTA SHAŚTRA]


Chauttho Pades Bandāhiyāro

PRADESH BANDHĀDHIKĀRA

Vol. VII

WITH

HINDĪ TRĀNSLATION



Editor

Pandit, **PHOOL CHANDRA** Siddhant Shāstry

Published by

BHĀRATĪYA JNĀNĀPĪTHA KĀSHĪ

First Edition }
1100 Copies }

CHAITRA VIR SAMVAT 2484
VIKRAMA SAMVAT 2014
MARCH, 1958

{ Price
{ Rs. 11/-

BHARĀTĪYA-JÑĀNA-PĪTHA Kashi

FOUNDED BY

SETH SHĀNTI PRĀSAD JAIN

IN MEMORY HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ NŪRTI DEVĪ

**BHĀRĀTĪYA JÑĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ
JAIN GRANTHAMĀLĀ**

PRĀKRIT GRANTHA NO. 9

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURĀNIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHIRANSHA, HINDI,
KANNADA TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGE WITH THEIR
TRANSLATION IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS STUDIES OF COMPETENT
SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain M A., D. Litt.
Dr. A. N. Upadhye M. A., D. Litt.

Publisher

Āyodhya Prasad Goyalīya
Secy, BHARATIYA JNANAPITHA
DURGAKUND ROAD, VARANASI

Founded on
Phalguna khrishna 9. }
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved

{ Vikrama Samvat 2000
18 Feb. 1944.

प्राथमिक वक्तव्य

महाबन्धकी इस सातवीं जिल्दके साथ एक महान् साहित्यिक निधिका प्रकाशन सम्पूर्ण हो रहा है। इसके लिये उसके विद्वान् सम्पादक पं० फूलचन्द्र शास्त्री तथा भारतीय ज्ञानपीठके अधिकारियोंको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है।

विद्वान् पाठकोंको ज्ञात होगा कि प्रस्तुत महाबन्ध आचार्य पुष्पदन्त और भूतबलिकी अद्वितीय सूत्र-रचना षट्खण्डागमका ही छटा खण्ड है। इसके पूर्वके पाँच अर्थात् जीवट्टाग, खुहाबन्ध, बंधसामित्त, वेदणा और वग्गणा खण्डोंका सम्पादन व प्रकाशन कार्य भी विदिशा निवासी श्रीमन्त सेठ सितावराय लक्ष्मीचन्द्रजी द्वारा स्थापित जैन-साहित्य उद्धारक ग्रन्थमाला द्वारा सम्पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार पूरा षट्खण्डागम अपनी वीरसेन कृत धवला टीका और आधुनिक हिन्दी अनुवाद सहित १६+७=२३ जिल्दोंमें समाप्त हुआ है जिनकी पृष्ठसंख्या दस हजारसे ऊपर होती है। धवला टीकाकी श्लोक-संख्या परम्परानुसार बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण और महाबन्धकी चालीस हजार श्लोक प्रमाण मानी गई है। यदि अधिक नहीं तो इतना ही हम अनुवादका प्रमाण मान लें तो इस पूरी प्रकाशित रचनाका प्रमाण लगभग सवा दो लाख श्लोक प्रमाण हो जाता है। धवलाका प्रथम भाग सन् १९३६ में प्रकाशित हुआ था और अब सन् १९५८ में उसका अन्तिम सोलहवाँ भाग और महाबन्धका अन्तिम सातवाँ भाग प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार गत अठारह-उन्नीस वर्षोंमें जो यह विपुल साहित्य व्यवस्थित रीतिसे प्रकाशित हो सका इसे इस युगकी विशेष साहित्यिक अभिरुचिका ही प्रभाव कहना चाहिये।

जैन तीर्थङ्करों द्वारा उपदिष्ट आचाराङ्ग आदि द्वादशाङ्ग श्रुतके अन्तर्गत जिस बारहवें अङ्ग दिट्ठिवादका समस्त जैन परम्परानुसार लोप हो गया है, उसके एक अंशका अर्थोद्धार आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान् पुष्पदन्त और भूतबलिने षट्खण्डागम सूत्रोंके रूपमें किया था। इसी महान् घटनाकी स्मृतिमें ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमीकी तिथि आज तक श्रुतपञ्चमी या ऋषिपञ्चमीके नामसे मनाई जाती है। वर्तमान वीर निर्वाण संवत् २४८४ की श्रुतपञ्चमी इस दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है कि इस वर्षमें वही षट्खण्डागम शताब्दियों तक शास्त्रभण्डारमें निरुद्ध रहनेके पश्चात् पुनः प्रकाशमें आया है।

प्राचीन साहित्यके प्रकाशनकी यह सफलता बड़ी सन्तोषजनक है। किन्तु यह समझ बैठना हमारी बड़ी भूल होगी कि इस साहित्यके उद्धारका कार्य परिसमाप्त हो गया। इन परमागम ग्रन्थों और उनकी टीकाओंके सम्पादन-प्रकाशन कार्यको प्राचीन साहित्योद्धार कार्यकी प्रथम सीढ़ी कहना उचित होगा। जैसा कि उक्त ग्रन्थ-भागोंकी प्रस्तावनाओंमें हम बारम्बार कह चुके हैं, इनका पाठ-संशोधन सीधा मूल ताडपत्रीय प्रतियों परसे नहीं हुआ, किन्तु उनपरसे की हुई प्रतिलिपियोंके आधारसे ही विशेषतः हुआ है। जो थोड़ा-बहुत मिलान सीधा ताडपत्रीय प्रतियोंसे दूसरोंके द्वारा कराया जा सका है, उससे सम्पादकोंको पूरा सन्तोष नहीं हुआ। तथापि उस थोड़ेसे मिलानके द्वारा ही यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त उपलब्ध ताडपत्र प्रतियों से मिलान कितना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मूडवित्रीमें षट्खण्डागमकी एक सम्पूर्ण और दो खण्डित ताडपत्रीय प्रतियाँ हैं। इनके पाठोंमें भी परस्पर कहीं-कहीं भेद है, जैसा धवला भाग तीनमें प्रकाशित पाठान्तरोंसे देखा जा सकता

हैं। सत्प्ररूणाके सूत्र ६३ के पाठके सम्बन्धमें वह उतना मतभेद और बखेड़ा कभी न उत्पन्न होता, यदि प्रारम्भसे ही हमें ताड़पत्रीय प्रतियोंके मिलानकी सुविधा प्राप्त हुई होती और वह सब विवाद तभी समाप्त हो सका जब हमारे द्वारा अनुमानित पाठका ताड़पत्रीय प्रतियोंसे पूर्णतः समर्थन हो गया। तात्पर्य यह कि जब तक एक बार इस सम्पूर्ण प्रकाशित पाठका ताड़पत्रीय प्रतियों अथवा उनके चित्रोंसे विधिवत् मिलान कर मूलपाठ अङ्कित न कर लिये जायेगे, तबतक हमारा यह सम्पादन-प्रकाशन कार्य अधूरा ही गिना जायगा और उन मूल प्रतियोंकी आवश्यकता व अपेक्षा बनी ही रहेगी।

पाठ-संशोधन पूर्णतः प्रामाणिक रीतिसे सम्पन्न हो जानेके पश्चात् इन ग्रन्थोंके विशेष अध्ययनकी समस्या सम्मुख उपस्थित होती है। इन ग्रन्थोंका विषय कर्म-सिद्धान्त है जो जैन धर्म और दर्शनका प्राण कहा जा सकता है। यह विषय जितने विस्तार, जितनी सूक्ष्मता, और जितनी परिपूर्णताके साथ इन ग्रन्थोंमें—उनके सूत्रों और टीकाओंमें—वर्णित है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। इसका जो हिन्दी अनुवाद और साथ-साथ थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन व स्पष्टीकरण इस प्रकाशनमें किया जा सका है वह विषय-प्रवेशमात्र ही समझना चाहिये। इस विषयसे हमारा उत्तर कालीन समस्त साहित्य ओत-प्रोत है। दिगम्बर और श्वेताम्बर साहित्यमें समान रूपसे अनेक ग्रन्थोंमें कर्मसिद्धान्तकी नाना शाखाओ और नाना तत्त्वोंका प्रतिपादन पाया जाता है। इस समस्त कर्म सिद्धान्तसम्बन्धी साहित्यका ऐतिहासिक क्रमसे अध्ययन करना आवश्यक है जिससे इसके भिन्न तत्त्वों और नाना मतोंका विकास स्पष्ट समझमें आ सके और उसका सर्वांग—सम्पूर्ण व्याख्यान आधुनिक रीतिसे किया जा सके। भारतीय साहित्यमें कर्मसिद्धान्तकी चर्चा इतनी व्यवस्थित रूपसे अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है।

जिन्होंने अपने विपुल दानो द्वारा हार्दिक उत्साहके साथ इन ग्रन्थोंका सम्पादन-प्रकाशन कराया है, हम भली भाँति जानते हैं, कि वे साहू शान्ति प्रसादजी और उनकी धर्मपत्नी रमा रानी जी, किसी व्यापारिक बुद्धिसे प्रभावित नहीं हुए थे किन्तु शुद्ध धार्मिक और साहित्योद्धारकी भावनासे ही प्रेरित थे। अतएव हम आशा ही नहीं, किन्तु विश्वास भी करते हैं कि वे अपने विशुद्ध और उच्च कार्यके उक्त अवशिष्ट अंशोंपर अवश्य ध्यान देंगे और ऐसी योजना बना देंगे जिससे वह कार्य निर्विलम्ब प्रारम्भ होकर सन्तोष जनक रीतिसे गतिशील हो जावे।

इस साहित्योद्धारकी जो यह एक मंजिल इस ग्रंथके प्रकाशनके साथ समाप्त हो रही है उसके लिए हम मूढाविद्वीकी सिद्धान्त वसदिके भट्टारकजी व अन्य सब अधिकारियों, प्रतिलिपियोंके स्वामियों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं अन्य विद्वानोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस महान् कार्यकी सफलतामें सहयोग प्रदान किया है।

हीरालाल जैन
आ० ने० उपाध्ये
प्रधान सम्पादक

सम्पादकीय

प्रदेशबन्धका मूलप्रकृतिप्रदेशबन्ध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्धके चौबीस अनुयोग द्वारोंमेंसे परिमाण अनुयोगद्वार तकका भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हुए लगभग तीन माह हुए हैं। उसके कुछ ही दिन बाद उसका शेष भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हो रहा है। पूर्व भागके साथ यह भाग भी मुद्रित होने लगा था, इसलिए इसके प्रकाशित होनेमें अधिक समय नहीं लगा है।

पूर्व भागोंके समान इस भागके सम्पादनके समय भी हमारे सामने दो प्रतियाँ रही हैं— एक प्रेस कापी और दूसरी ताम्रपत्र प्रति। मूल ताड़पत्र प्रति तो अन्त तक नहीं प्राप्त हो सकी है। इस भागके सम्पादनमें उक्त दोनों प्रतियोंका समुचित उपयोग हुआ है। दोनों प्रतियोंकी सहायतासे जिन पाठोंका संशोधन करना सम्भव हुआ उनका संशोधन करनेके बाद भी बहुतसे ऐसे पाठ रहे हैं जो चिन्तन द्वारा स्वतन्त्ररूपसे सुझाए गये हैं। इस प्रकार जितने भी पाठ मूलमें सम्मिलित किये गए हैं उन्हें स्वतन्त्ररूपसे [] ब्रकेटके अन्दर दिखलाया गया है और जिन पाठोंका संशोधन नहीं हो सका है उन्हें वैसा ही रहने दिया है। अभी तककी जानकारीके अनुसार यही कहना पड़ता है कि मूडविट्टीमें महाबन्धकी एक ही ताड़पत्र प्रति उपलब्ध है। वह भी अधिक मात्रामें त्रुटित और खलित है। उसमें भी प्रदेशबन्ध पर खलनका सबसे अधिक प्रभाव दिखलाई देता है। इस भागमें ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनका यत्किञ्चित् अंश भी शेष नहीं बचा है। स्वाभित्व आदिके आधारसे उनकी पूर्ति करना भी सम्भव नहीं था, इसलिए उन्हें हमने त्रुटित स्थितिमें ही रहने दिया है।

महाबन्धकी उपलब्ध हुई ताड़पत्र प्रति कितनी पुरानी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके अन्तमें अलग-अलग प्रशस्ति उपलब्ध होती है। उन दोनों प्रशस्तियोंसे इतना बोध अवश्य होता है कि सेनकी पत्नी मल्लिकव्वाने श्री पञ्चमी व्रतके उद्यापनके फलस्वरूप महाबन्धको लिखाकर आचार्य माघनन्दिको भेट किया। इसी आशयकी एक प्रशस्ति प्रदेशबन्धके अन्तमें भी आई है। उसे हम अनुवादके साथ आगे उद्धृत कर रहे हैं। स्थितिबन्ध और प्रदेशबन्धके अन्तमें आई हुई प्रशस्तिमें मेघचन्द्र व्रतपतिका विशेषरूपसे उल्लेख किया है और माघनन्दि व्रतपतिकी उनके पादकमलोंमें आसक्त बतलाया है।

मेरा विचार था कि इन प्रशस्तियोंके आधारसे मैं कुछ लिखूँ। किन्तु वर्तमानमें इस प्रकारका प्रयत्न करना असामयिक होगा, क्योंकि धवला और सम्भवतः जयधवलाके अन्तमें पुस्तक दान करनेवालेकी जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उसके अनुवादके साथ प्रकाशमें आनेके बाद ही इस पर सर्वाङ्गरूपसे विचार होना उचित प्रतीत होता है।

यह हम पिछले भागोंकी प्रस्तावनामें बतला आये हैं कि स्थितिबन्धके मुद्रित होनेके बाद ही हमें ताम्रपत्र प्रति उपलब्ध हो सकी थी। इसलिए अभी तक उस प्रतिसे स्थितिबन्धका मिलान होकर न तो पाठ-भेद लिए जा सके हैं और न शुद्धि-पत्र ही तैयार हो सका है। प्रकृतिबन्धका सम्पादन और अनुवाद तो हमने किया ही नहीं है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हम विचार ही करनेके अधिकारी नहीं हैं। इतना अवश्य ही संकेत कर देना अपना कर्तव्य समझते

हैं कि समस्त महाबन्धका योग्य रीतिसे सम्पादन होकर प्रकाशमें आनेमें जो थोड़ी बहुत न्यूनता रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रसङ्गसे हम यह आशा करें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि समस्त महाबन्धका ताडपत्र प्रतिसे मिलान होनेकी ओर भी भारतीय ज्ञानपीठका ध्यान जायगा। दिगम्बर परम्परामें षट्खण्डागम और कषायप्राभृत मूल श्रुत माने गये हैं, इसलिए इनके प्रत्येक पद और वाक्यकी रक्षा करना दिगम्बर संघका कर्तव्य है।

इस भागके सम्पादनके समय भी हमें श्रीयुक्त पं० रतनचन्द्र मुख्तार और पं० नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुरवालोने सहायता प्रदान की है, इसलिए हम उनके आभारी हैं।

इस भागकी समाप्तिके साथ महाबन्ध समाप्त हो रहा है। अन्य अनेक अङ्कनोंके रहते हुए भी इस कार्यको सम्पन्न करनेके अनुकूल हमारा मनोबल बना रहा यह वीतराग मार्गकी उपासना का ही फल है। वस्तुतः बाह्य साधन सामग्री ऐहिक है। अन्तरङ्गका निर्माण हुए बिना केवल उसकी साधना पारमार्थिक जीवनके निर्माणमें सहायक नहीं हो सकती, यह बात पद-पद पर अनुभवमें आती है। हमें ऐसे गुरुतर कार्यके निर्वाह करनेका सुअवसर मिला और हम उसका समुचित रीतिसे निर्वाह करनेमें सफल हुए, इसके लिए हम अपने भीतर प्रसन्नताका अनुभव करते हैं।

जिन्होंने वीतराग मार्गको जीवनमें उतारकर उसका प्रकाश किया वे महापुरुष सबके द्वारा तो वन्दनीय है ही किन्तु जो उस मार्ग पर यत्किञ्चित् चलनेका प्रयत्न करते हैं और जो ऐसे कार्यमें समुचित साहाय्य-प्रदान करते हैं वे भी अभिनन्दनीय हैं। किमधिकम्।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

अन्तिम प्रशस्ति

श्रीमलधारिमुनीन्द्रपदामलसरसीरुहभृंगनमलिनकित्ते ।
प्रेमं मुनिजनकैरवसोमनेनल्माघनंदियतिपति एसेदं ॥१॥

जितपंचेषु^१ प्रतापानलनमलतरोत्कृष्टचारित्ररारा-
जिततेजं भारतिभासुरकुचकलशालीढभाभारनृत्ना-
यततारोदारहारं^२ समदमनियमालकृतं माघनंदि-
व्रतिनार्थं शारदाभ्रोज्वलविशदयशोवल्लीचक्रवालं ॥२॥

जिनवक्त्रांभोजविनिर्गतहितनुतराद्धान्तकिंजल्कसुस्वा-
दन.....ज-पदनुतभूपेंद्रकोटीरसेना.....
तिनिकायभ्राजितांघ्रिद्वयनखिलजगद्भव्यनीलोत्पलाह्ला-
दनताराधीशने^३ केवलमे भुवनदोल् माघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥३॥

श्री मलधारी मुनीन्द्रके निर्मल चरणरूपी कमलमें भौरैके समान सुशोभित होनेवाले, निर्मल प्रेमी और मुनिजनरूपी कुमुदके लिए चन्द्रमाके समान माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥१॥

जिनहोंने मन्मथको जीत लिया है, जिनकी प्रतापरूपी अग्नि व्याप्त हो रही है, जिनका तेज निर्मलतर उत्कृष्ट चारित्रसे शोभायमान हो रहा है, जो सरस्वतीके प्रकाशमान कुचरूपी कलशमें संलग्न हैं, जो प्रकाशमान हैं, नवीन और दीर्घतर उदार हारस्वरूप हैं, शम, दम और नियमसे अलंकृत हैं तथा जो शरत्कालीन मेघके समान उज्ज्वल और विस्तृत यशःसमूहसे विभूषित हैं ऐसे माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥२॥

जो जिनेन्द्रदेवके मुखरूपी कमलसे निकले हुए हितकारी और मान्य सिद्धान्तरूपी कमल के परागका रसास्वादन करनेमें भौरैके समान हैं, अनेक पृथिवीपति जिनके चरण-कमलोंमें नमस्कार करते हैं, जिनके पदयुगल अनेक सेनापतियोंके मुकुट-समूहसे सुशोभित हो रहे हैं और जो समस्त भव्यरूपी नील कमलोंको आह्लादित करनेके लिए चन्द्रमाके समान हैं ऐसे एकमात्र माघनन्दि व्रतिपति हुए ॥३॥

१. 'नल्कापुनन्वियतिपति नेसेदं' महाबन्ध प्रथक पुस्तक प्रस्तावना पृ० ३६ ।

२. 'जितप्रपंचेषु' म० प्र० पु० प्र० पु० ३६ ।

३. 'यत् सारोदारहारं' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

४. 'नीलोत्पलांगा दवताराधीशने' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

वरराद्धान्तामृतांभोनिधितरलतरंगोत्करच्चालितांतः-
करणं श्रीमेघचन्द्रव्रतिपतिपदपंकेरुहासक्तषट्-
चरणं तीव्रप्रतापोधृतविनतवलोपेतपुष्पेषुभृत्सं-
हरणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥४॥

श्रीपंचमियं नोंतुद्यापनमं माडि बरेसि राद्धान्तमना ।
रूपवती सेनवधू जितकोपं श्रीमाघनंदियतिगित्तल् ॥५॥

भद्रं भूयात्, वर्धतां जिनशासनम् ।

जिनका अन्तःकरण श्रेष्ठ सिद्धान्तरूपी अमृतजलनिधिके तरल तरङ्गकणोंसे प्रक्षालित हुआ है, जो श्री मेघचन्द्र व्रतिपतिके चरणरूपी कमलमें आसक्त भौरेके समान हैं, जो तीव्र प्रतापी हैं, जिन्होंने विशाल बलशाली कामको जीत लिया है और सैद्धान्तिकोंमें अग्रेसर हैं ऐसे माघनन्दि व्रतीन्द्र हुए ॥४॥

सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती सेनकी पत्नीने श्री पञ्चमी व्रतका उद्यापन कर इस ग्रन्थको लिखवा कर जितकोप माघनन्दि यतिको समर्पित किया ॥५॥

मङ्गल हो, जिनशासनकी वृद्धि हो ।

१. 'स्कटच्चालितांतः' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

२. 'करणं श्रीमेघचन्द्रव्रतिपतिपदपंकेरुहासक्तषट्पद ॥
.....स ।

चारणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माघनंदिव्रतीन्द्रम् ॥४॥ म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

३. 'नोंतुद्यापनेयं' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

४. 'जितकोप' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

५. 'श्रीमाघनंदिव्रतिगित्तल्' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४० ।

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
क्षेत्रप्ररूपणा	१-६	स्वामित्वानुगम	१०८-१०९
क्षेत्रप्ररूपणाके दो भेद	१	कालानुगम	११०-१११
उत्कृष्ट क्षेत्रप्ररूपणा	१-४	अन्तरानुगम	११२-१४९
जघन्य क्षेत्रप्ररूपणा	५-६	भागाभागाानुगम	१५०
स्पर्शनप्ररूपणा	७-५८	परिमाणानुगम	१५०-१५२
स्पर्शनप्ररूपणाके दो भेद	७	क्षेत्रानुगम	१५३
उत्कृष्ट स्पर्शनप्ररूपणा	७-४५	स्पर्शानुगम	१५३-१८०
जघन्य स्पर्शनप्ररूपणा	४५-५८	कालानुगम	१८०-१८७
कालप्ररूपणा	५९-६३	अन्तरानुगम	१८८-१९१
कालप्ररूपणाके दो भेद	५९	भावानुगम	१९१
उत्कृष्ट कालप्ररूपणा	५९-६१	अल्पबहुत्वानुगम	१९१-१९७
जघन्य कालप्ररूपणा	६२-६३	पदनिक्षेप	१९७-२२६
अन्तरप्ररूपणा	६३-६४	तीन अनुयोगद्वारोका निर्देश	१९७
अन्तरप्ररूपणाके दो भेद	६३	समुत्कीर्तना	१९७-१९८
उत्कृष्ट अन्तरप्ररूपणा	६३-६४	समुत्कीर्तनाके दो भेद	१९७
जघन्य अन्तरप्ररूपणा	६४	उत्कृष्ट समुत्कीर्तना	१९७-१९८
भावप्ररूपणा	६५	जघन्य समुत्कीर्तना	१९८
भावप्ररूपणाके दो भेद	६५	स्वामित्व	१९८-२२५
उत्कृष्ट भावप्ररूपणा	६५	स्वामित्वके दो भेद	१९८
जघन्य भावप्ररूपणा	६५	उत्कृष्ट स्वामित्व	१९८-२२३
अल्पबहुत्वप्ररूपणा	६५-१०५	जघन्य स्वामित्व	२२३-२२५
अल्पबहुत्वप्ररूपणाके दो भेद	६५	अल्पबहुत्व	२२५-२२६
स्वस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद	६५	अल्पबहुत्वके दो भेद	२२५
उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व	६५-७५	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	२२५-२२६
जघन्य स्वस्थान अल्पबहुत्व	७५-८१	जघन्य अल्पबहुत्व	२२६
परस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद	८१	अजघन्य वृद्धि आदिके विषयमें सूचना	२२६
उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व	८१-९३	वृद्धिबन्ध	२२७-३०१
जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व	९४-१०५	तेरह अनुयोगद्वारोंकी सूचना	२२७
भुजगारबन्ध	१०५-१९७	समुत्कीर्तना	२२७-२२९
अर्थपद	१०५	स्वामित्व	२३०-२३५
तेरह अनुयोगद्वारोंका निर्देश	१०५	काल	२३५-२३६
समुत्कीर्तनानुगम	१०६-१०७		

१ अन्तरकालके अन्तका अंश, भंगविचय पूरा और भागाभागकी अन्तकी एक पंक्तिको छोड़ कर पूरा भागाभाग छुटित है ।

[८]

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अन्तर	२३७-२६७	अल्पबहुत्व	३०३-३०६
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	२६७-२६९	जीवसमुदाहार	३०६-३१६
नाना जीवोंकी अपेक्षा भागाभाग	२६९-२७०	दो अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	३०६
नाना जीवोंकी अपेक्षा परिमाण	२७१-२७९	प्रमाणानुगम	३०६-३०८
नाना जीवोंकी अपेक्षा क्षेत्र	२७९-२८१	प्रमाणानुगमके दो अनुयोगद्वार	३०६
नाना जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन	२८२-२८४	योगस्थानप्ररूपणा	३०६-३०७
नाना जीवोंकी अपेक्षा काल	२८५-२९०	प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा	३०७-३०८
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	२९१-२९४	जीवसमुदाहारमें अल्पबहुत्व	३०८-३१९
नाना जीवोंकी अपेक्षा भाव	२९५	अल्पबहुत्वके तीन अनुयोगद्वार	३०८
नाना जीवोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व	२९५-३०१	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३०८-३०९
अध्यवसानसमुदाहार	३०१-३०६	जघन्य अल्पबहुत्व	३०९-३१०
दो अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	३०१	जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३१०-३१९
परिमाणानुगम	३०१-३०३	अन्तिम मङ्गलाचरण	३१९

सिरि-भगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

महाबंधो

चउत्थो पदेसबंधाहियारो

खेतपरूवणा

१. खेतं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे०
आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियल्ल०-आहार०२-तित्थ० उक्क० अणु० पदे०बं०
केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसाणं कम्मणं उक्क० पदे०बं० केव० ?
लोगस्स असंखे० । अणु० पदे०बं० केव० ? सव्वलोगे । एवं ओघभंगे तिरिक्खोघो
कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-
अचक्खु०-किण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-
अणाहारग ति ।

क्षेत्रप्ररूपणा

१. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका
है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका
उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ?
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तीर्थञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी,
औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी,
श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य,
मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार
संज्ञी जीव और तीन आयु आदि बारह प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध किन्हींका असंज्ञी जीव
आदि तथा किन्हींका संज्ञी जीव करते हैं, इसलिए सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले
जीवोंका क्षेत्र और तीन आयु आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय आदि भी करते हैं पर ऐसे
जीव असंख्यातसे अधिक नहीं होते और इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं
होता, इसलिए इस अपेक्षासे भी उतना ही क्षेत्र कहा है । उक्त बारह प्रकृतियोंके सिवा शेष
प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वलोक है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका

२. सव्वणोरइएसु सव्वपगदीणं उक्क० अणु० पदे०बं० केव० ? लोगररा असंखे० । सेसाणं पि असंखेज्जरासीणं एवं चेव कादव्वं ।

३. एइंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०--सोलसक०--सत्तणोक०--तिरिक्ख०--
एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०--अगु०४-थावर--सुहुभ०--
पज्ज०-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-थिराथिर--सुभासुभ--दूभग--अणादे०--अजस०--णिमि०--
णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० केव० ? सव्वलोगे । मणुसाउ० ओघं । मणुरा०-
मणुसाणु०-उच्च० उक्क० लोग० असंखे० । अणु० केव० ? सव्वलोगे । सेसाणं उक्क०
लोग० संखेज्जदि० । अणु० सव्वलो० । एवं बादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्तगाणं । णवरि
तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० लोग० संखेज्ज० । णवरि मणुसगदि०४ उक्क० अणु०
लोग० असंखे० । सव्वसुहुमेसु सव्वपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । णवरि मणुसाउ०
उक्क० अणु० असंखे० ।

एकेन्द्रियादि अनन्त जीव बन्ध करते हैं और वे वर्तमानमें सर्व लोकमें पाये जाते हैं। यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें बन्धको प्राप्त होनेवाली अपनी-अपनी प्रकृतियोंके अनुसार यह क्षेत्र प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान क्षेत्रके जाननेकी सूचना की है।

२. सब नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। शेष असंख्यात संख्यावाली राशियोंमें इसी प्रकार क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए।

विशेषार्थ—सब नारकी और यहाँ निर्दिष्ट अन्य मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है।

३. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डरस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। मनुष्यायुका भंग ओघके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्च-गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वलोक क्षेत्र है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें त्रस-संयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। उसमें भी इतनी और विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है। सब सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोकप्रमाण क्षेत्र है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है।

४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० सव्वपगदीणं उक्क० लोग० असंखे० । अणु० सव्वलो० । णवरि बादरेसु सुहुमसंजुत्ताणं उक्क० लोग० असंखे० । अणु० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० । बादरपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो । बादरअपज्जत्ताणं एइंदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सव्वलो० । सैसाणं उक्क० अणु० लोग० असंखे० । एवं वाउकाइगस्स वि । णवरि यम्हि

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें पौंच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय वादर एकेन्द्रिय जीवोंके और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र कहा है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। विशेष खुलाशा ओघप्ररूपणाके समय कर आये हैं। एकेन्द्रियोंमें मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अनन्त जीव करते हुए भी वे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रमें ही पाये जाते हैं, इसलिए यह क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है पर इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानस्थित सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह क्षेत्र सब लोक कहा है। उनके सिवा जो शेष प्रकृतियों बचती हैं उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध, जो बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव स्वस्थान स्थित है उन्हींके होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानगत सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है। बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें यह क्षेत्र प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इसे एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे जीव जो मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका बन्ध करते हैं उनका स्वस्थान स्थित क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही पाया जाता है, क्योंकि वायुकायिक जीव इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें उक्त तीन प्रकृतियों और मनुष्यायु इन चार प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। पर त्रससंयुक्त अन्य प्रकृतियोंका बादर वायुकायिक जीव भी बन्ध करते हैं, इसलिए उनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवे भागप्रमाण कहा है। सब सूक्ष्म जीव सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए उनमें मनुष्यायुके सिवा अन्य सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। यहां भी मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

४ पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और बादर अग्निकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि बादरोंमें सूक्ष्मसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इनके बादर पर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इनके बादर अपर्याप्तकोंमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है और शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां लोकके असंख्यातवे भाग-

लोगस्स असंखे० तम्हि लोगरस संखेज्ज० । सव्ववण्णफ्फदि-णियोद० एहंदिभंगो ।
णवरि यम्हि लोगस्स संखेज्ज० तम्हि लोगस्स असंखे० । बादरपत्ते० पुढविभंगोऽ ।

प्रमाण क्षेत्र कहा है वहां लोकके संख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जहां लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहा है वहां लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहना चाहिए। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोमे बादर पृथिवीकायिक जीवोके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि तीनमें और बादर पृथिवीकायिक आदि तीनमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध बादर पर्याप्तक जीव करते है, इसलिए इनमें सामान्यसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहा है, क्योंकि इनके पर्याप्तकोंका क्षेत्र स्वस्थान और समुद्रात दोनो प्रकारसे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इनमें सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सबके सम्भव है और पृथिवीकायिक आदि तीनका सर्व लोक क्षेत्र है, इसलिए इन मार्गणाओंमे सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। मूलमे यह क्षेत्र सामान्यसे छहो मार्गणाओंमें कहा है, इसलिए तीन बादर मार्गणाओंमें अपवाद बतलानेके लिए आगे अलगसे विचार किया है। बात यह है कि बादरोका सर्वलोक क्षेत्र मारणान्तिक और उपपाद पदके समय ही बन सकता है पर ऐसे समयमे इनके त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए तो बादर पृथिवीकायिक आदि तीनमे त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा जैसा कि स्वामित्व अनुयोगद्वारसे ज्ञात होता है बादरोंमे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध बादर पर्याप्तक जीव ही करते हैं और इन तीन मार्गणाओंमें बादर पर्याप्तक जीवोका क्षेत्र किसी भी अद्यस्थामे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही होता है, इसलिए इनमें सूक्ष्मसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्वलोक प्रमाण कहा है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके दोनो पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका निर्देश पहले कर आये हैं वही क्षेत्र यहां बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि तीनमे प्राप्त होता है, इसलिए यह प्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि तीन मार्गणाओंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो सकता है, इसलिए इनमे इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है। पर इनमें त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका प्रदेशबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। वायुकायिक जीव और उनके अवान्तर भेदोंमे पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंके समान ही क्षेत्रप्ररूपणा घटित कर लेनी चाहिए। पर बादर वायुकायिक और उनके अवान्तर भेदोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए बादर पृथिवीकायिक और उनके आवान्तर भेदोंमे जहाँ लोकका असंख्यातवां भागप्रमाण क्षेत्र कहा है वहां पर इनमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र जानना चाहिए। सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंका क्षेत्र एकेन्द्रियोंके समान बन जानेसे उनमें एकेन्द्रियोंके समान क्षेत्र प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और उनके आवान्तर भेदोंमें बादर पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनमें बादर पृथिवीकायिक और उनके

५. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०—वेउव्वियच्च०—
आहार०—र-तित्थ० जह० अजह० के० ? लोगस्स असंखे० । सेसाणं जह०
अजह० के० ? सव्वलो० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०—ओरालि०
मि०—कम्मह०—णवुंस०—कोधादि०—४—मदि-सुद०—असंज०—अचक्खु०—किण्ण-णील—काउ०—
भवसि०—अभवसि०—मिच्छा०—असण्णि०—आहार०—अणाहारग ति ।

६. सेसाणं सव्वणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सव्वपगदीणं जह० अजह० लोगस्स
असंखे० । एइंदिण्णसु सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । एवरि मणुसाउ० जह०
अजह० लोगस्स असंखे० । एवं सव्वसुहुमाणं ।

अवांतर भेदोके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । यहां पूर्वोक्त सब मार्गणाओमे मनुष्यायुके दोनो पदोका बन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र ओघके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए उसका अलगरो निर्देश नही किया है ।

५ जघ-यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघरो तीन आयु, वैक्रियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करने वाले जीवोका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष प्रकृतियोंका जघ-य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भन्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोमें जानना चाहिए ।

विरोपार्थ—तीन आयु आदिका एकेन्द्रिय और धिकलेन्द्रिय जीव बन्ध नहीं करते । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदिमे भी प्रारम्भकी नौ प्रकृतियोंका असंज्ञी और संज्ञी जीव कदाचित् बन्ध करते हैं और अन्तको तीन प्रकृतियोंमें आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थानवाले तथा तीर्थङ्करप्रकृतिका असंयतसम्यग्दृष्टि आदि पाँच गुणस्थानवाले जीव कदाचित् और कोई कोई बन्ध करते हैं । यदि उक्त प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले इन सब जीवोके क्षेत्रका विचार करते हैं तो वह लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहां ओघसे उक्त सब प्रकृतियोंका जघ-य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव योग्य सामाग्रीके सद्भावमें करते हैं और अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य सब जीवोके सम्भव है, इसलिए इनके जघ-य और अजघन्य प्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । यहां मूलमें कही गई सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गणाओमे यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान क्षेत्र प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । मात्र जिन मार्गणाओमे जितनी प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है उसे ध्यानमें रखकर ही ओघप्ररूपणाके अनुसार वहां क्षेत्रप्ररूपणा घटित करनी चाहिए ।

६ शेष सब संख्यात और असंख्यात राशिवाली मार्गणाओमे सब प्रकृतियोंका जघ-य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । एकेन्द्रियोमें सब प्रकृतियोंका जघ-य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यायुका जघ-य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवो

७. पृथ्वी०-आउ०-तेउ०-वाउ० ओघभंगो । तेसिं चैव बादराणं [बादरपज्जत्ताणं] एइंदियसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखे० । अज० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स असंखे० । एवं बादरपृथ्वीअपज्जत्तादि०४ । सव्ववणप्फदि-णियोदाणं सव्वे चैव भंगो सव्वलोगे० । बादरपज्जत्तपत्ते० बादरपृथ्वीभंगो । एवं एदेण बीजेण णेदच्चं ।

एवं खेत्तं समत्तं

का क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अर्थात् एकेन्द्रियोंके समान सब सूक्ष्म जीवोंमें क्षेत्रप्ररूपणा जाननी चाहिए ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि पांचको छोड़कर अन्य जितनी असंख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं और संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण जाननेकी सूचना की है । तथा एकेन्द्रियोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें मनुष्यायुको छोड़कर सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । इनमें मनुष्यायुके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सब सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भी सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रियोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

७. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । उन्हींके बादरों व बादर पर्याप्तकोंमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि चारोंमें जानना चाहिए । सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि चारों मार्गणाओंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदवालोंका क्षेत्र ओघके समान जाननेकी सूचना की है । इन चारोंके बादरोंमें एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है और अजघन्य प्रदेशबन्ध मारणान्तिक और उपपादपदके समय भी सम्भव है, इसलिए इनमें एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । इनमें त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका बन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि चारोंमें भी इसी प्रकार अर्थात् बादर पृथिवीकायिक आदि चारके समान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए । सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवोंमें सब लोक क्षेत्र कहनेका कारण स्पष्ट ही है । तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंका भङ्ग बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है यह भी स्पष्ट है । यहां जिन मार्गणाओंका क्षेत्र नहीं कहा है उसे जाननेके लिए इसी प्रकार इस बीजपदके अनुसार ले जाना चाहिए यह सूचना की है । यहां बादर वायुकायिक व उनके अपर्याप्तकोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं कहा यह विचारणीय है । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि चारका क्षेत्र विलकुल नहीं कहा । शायद इसीके लिए अन्तमें 'एवं एदेण बीजेण' इत्यादि सूचना की है । पहले कह आये हैं कि जघन्य प्रदेशबन्ध वायुकायिक जीव तद्भवस्थके प्रथम समयमें जघन्य योग

फोसणपरूवणा

८. फोसणाणुगमेण दुविधं-जहण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-मणुसग०-चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-तस-बादर-जस०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० पदे०-बंधगेहि केवडियं खेतं फोसिदं ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अणु० सव्वलोगो । शीणगिद्धि०-३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु०-४-णुसं-पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुम-पोचा० उक्क० लोगस्स असंखे० अट्टचोदस० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलोगो । णिहा-पयला-अपच्छाण०-४-छण्णोक०-तिरिक्खाउ०-आदाव० उक्क० लोगस्स असंखे० अट्टचोदस० । अणु० सव्वलो० । पच्चक्खाण०-४-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० छ० । अणु० सव्वलो० । दोआउ०-आहार०-२ उक्क० अणु० खेतभंगो । मणुसाउ० उक्क० अट्टचो० । अणु० सव्वलो० । दोगदि०-दोआणु० उक्क० अणु०

सहितके होता है, किन्तु ऐसे जीव असंख्यात होते हुए भी बहुत कम होते हैं जो लोकके असंख्यातवें भागमें ही पाये जाते हैं अतः लोकका संख्यातवाँ भाग नहीं कहा । पृथिवीकायिक आदि चारों स्थावरोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा । तथा बादर सामान्य व बादर अपर्याप्तमें जो विशेषता थी वह अलगसे खोल दी गयी है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

रपर्शनानुगम

८. स्पर्शनानुगम दो प्रकारका है-जवन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण, सातावेदनाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका-संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकषाय, तिर्यञ्चायु और आतपका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और आहारकद्विक का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने

महाबंधे पदेसबंधाहियारे

छचोदस० । तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-
उप०-थावर-सुहुम-अपज्ज०-पत्ते०-साधा०-अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०
उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलोगो । उज्जो० उक्क० अट्ट-
णव० । अणु० राव्वलो० । इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० अट्ट-वारह० । अणु०
सव्वलो० । वेउत्थि०-वेउत्थि०अंगो० उक्क० अणु० बारह० । तित्थि० उक्क० खेत्तभंगो ।
अणु० अट्टचो० ।

त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादय, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है । चार संज्वलन और पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नौवें गुणस्थानमें होता है । तथा मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि संज्ञी पर्याप्त जीवके होता है । यतः इन सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इन सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । इसी प्रकार नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्करप्रकृतिको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी एकेन्द्रिय आदि जीव करते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा भी सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव करते हैं । असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । तथा परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीन गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं । यतः इन जीवोंके इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानस्वस्थानमें, विहारवत्स्वस्थानके समय और मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । निद्रा, प्रचला और छह नोकषायका उत्कृष्ट

६. गिरएसु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० खेत्तमं० । अणु० छचोदस० ।

प्रदेशबन्ध चारों गतिके पर्याप्तक सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । अप्रत्याख्यानावरण चारका चारों गतिके असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । तिर्यञ्चायुका चारो गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । तथा आतपका तीन गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । यतः इन जीवोंके इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थान-स्वस्थानके समय और विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, अतः इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गतिके संयतासंयत जीव, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, और सुभग आदि तीनका दो गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव तथा अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका दो गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं । यतः इन जीवोंके स्वस्थानस्वस्थानके समय और मारणान्तिक समुद्घातके समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध हो सकता है, अतः इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अप्रशस्तविहायोगति और दुःस्वरका नीचे मारणान्तिक समुद्घात करते समय तथा शेष प्रकृतियोंका ऊपर मारणान्तिक समुद्घात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कराना चाहिए । तथा मूलमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहा है फिर भी वह सम्भव है, इसलिए विशेषार्थमें हमने उसका निर्देश कर दिया है । नरकायु, देवायु और आहारकद्विकके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध क्रमसे नारकियोंमें और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी तिर्यञ्चगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है । स्वस्थानमें तो यह सम्भव है ही, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । देव विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें ऊपर मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय तथा नारकियों और देवोंके तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी खीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी वैक्रियिकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे इसे क्षेत्रके समान कहा है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

• ६. नारकियोंमें छह दर्शनावरण, बाहर कषाय और सात नोकषायोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवों

दोआउ०-मणुसगदिदुर्ग-तिथ्य०-उच्चा० उक्क० अणु० खेत्तभंगो । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्क० अणु० छच्चोदस० । एवं सव्वणेरइयाणं अप्पप्पणो फोसणं पेदव्वं ।

१०. तिरिक्खेसु पंचणा०-थीणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-[हुंड-] वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-^१अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलो० । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० छच्चोदस० । अणु० सव्वलो० । इत्थि० उक्क० दिवड्ढुचोदस० । अणु० सव्वलो० ।

त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्य-गतिद्विक, तीर्थङ्करप्रकृति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकियोंका अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकमें छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पर्याप्त सम्यग्दृष्टि ही करते हैं, इसलिए इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा है । यद्यपि छठेसे लेकर प्रथम नरक तकके सम्यग्दृष्टि नारकी मरकर मनुष्य होते हैं और इनके मारणान्तिक समुद्घातके समय उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, इतना यहाँ स्पष्ट जानना चाहिए । दो आयुका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । मनुष्यगतिद्विक आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव होनेपर भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग-प्रमाण ही रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा भी स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । अब रहे प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव और शेष सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सो मारणान्तिक समुद्घातके समय शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तथा मारणान्तिक समुद्घात और उपपादके समय इन सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । प्रथमादि पृथिवियोंमें यह स्पर्शन इसी प्रकार घटित होनेसे उसे सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सामान्य नारकियोंका जहाँ कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ अपना-अपना स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

१०. तिर्यञ्चोमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहयोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदका

दोआउ० खेत्तभंगो । तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-
छस्संध०-मणुसाणु०-आदा० [तस-] बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० ।
दोगादि-दोआणु० उक्क० अणु० छचोदस० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु०
बारह० । उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचोदस० । अणु० सव्वलो० ।

११. पंचिदि०तिरिक्ख०३ पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, त्रस और बादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादि सबके यथासम्भव बंधनेवाली प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है, इसलिए इस स्पर्शनका यहाँ व आगे हम अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं करेंगे । जहाँ विशेषता होगी उसका खुलासा अवश्य करेंगे । पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय छह दर्शनावरण आदिका तथा नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले तिर्यञ्चोंके स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव होनेसे इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकायु और देवायुका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय नहीं होता इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तिर्यञ्चायुका प्रदेशबन्ध तो मारणान्तिक समुद्रातके समय होता ही नहीं । शेषका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भी होता है फिर भी यह स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए इसका भंग क्षेत्रके समान कहा है । दो गति और दो आनुपूर्वीकी अपेक्षा स्पर्शन तथा वैक्रियिकद्विककी अपेक्षा स्पर्शन जिस प्रकार ओष प्ररूपणके समय घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँपर भी घटित कर लेना चाहिए । जो ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते हैं उनके भी उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

११. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व,

णवुंस०-णीचा-पंचंत० उक्क० अणु० लो० असंखे० सव्वलो० । छदंस०-बारसक०-
हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दु० उक्क० छचोदस० । अणु० लो० असंखे० सव्वलो० ।
इत्थि० उक्क० अणु० दिवड्ढुचोदस० । पुरिस०-दोगदि-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०-
सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० अणु० छचोद० । चदुआउ०-अणुसग०-तिण्णिजादि-
चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संप०-मणुसाणु०-आदा० उक्क० अणु० लो० असं० ।
तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-
सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०
उक्क० अणु० लो० असं० सव्वलो० । वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० उक्क० अणु०
बारह० । पंचिदि०-तस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० बारहचोदस० । उज्जो०-जस० उक्क०
अणु० सत्तचो० । बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० तेरह० ।

अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका औरसर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। ब्रह्म दर्शनावरण, बारह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ब्रह्म बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेदका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेद, दोगति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ब्रह्म बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कर्म बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादरप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—उक्त तीन प्रकारके तिर्यञ्च स्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणांतिक समुद्घात करते समय दोनों अवस्थाओंमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इन दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। ब्रह्म दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ऊपर आनत कल्पतकके देवोंमें

१२. पंचिदि०तिरि०अपञ्ज० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-
सत्तणोक०-तिरिक्ख०-[एइंदि०]-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-
अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-
दोआउ०-[मणुस०-] चदुजा०-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदा०-
दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० अणु० खेत्तभंगो। उज्जो०-जस० उक्क०
अणु० सत्तचो०। बादर० उक्क० खेत्तभंगो। अणु० सत्तचोदस०। एवं सव्वअपञ्जत्तयाणं

मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन जैसा पाँच ज्ञानावरणादिकी अपेक्षा घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। तथा आगे तिर्यञ्जगति आदि प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन कहा है सो वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय स्त्रीवेदके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए यहां स्त्रीवेदके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। ऊपर आनत कल्पतक के देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके पुरुषवेद आदिके दोनों पद सम्भव होनेसे इनकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। चार आयु आदिके दोनों पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि चार आयुओंका बन्ध स्वस्थानमें ही होता है और शेष प्रकृतियोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय होते हुए भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता। वैक्रियिकद्विककी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन ओघप्ररूपणामें घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार यह स्पर्शन पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसप्रकृतिके अनुत्कृष्टपदकी अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके उद्योत और यशःकीर्तिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। बादरप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह भी स्पष्ट है। तथा नीचे छह राजु और ऊपर सात राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके बादर प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है।

१२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तिकोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, सिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका

तसाणं सव्वविगल्लिदियाणं च बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०पञ्जत्तयाणं च ।

१३. मणुस०३ पंचणा०-छदंस०-सादा०-बारसरु०-छण्णोक०-पंचंत० उक्क०
खेत्तभंगो । अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणं-
ताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-थावर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्ते०-साधार-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग०-अणादे०-
अजस०-णिमि०-णीचा० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । उज्जो० उक्क०
अणु० सत्तचो० । बादर०-जस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सत्तचो० । सेसाणं उक्क०
अणु० खेत्तभंगो ।

स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय तथा बादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त और बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ये पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव स्वस्थान और मारणान्तिक समुद्रात दोनों अवस्थाओंमें पाँच ज्ञानावरणादिके दोनो पदोंका बन्ध करते हैं, इसलिए यहां इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्त्रीवेद आदिका यथासम्भव एकेन्द्रिय आदिमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय बन्ध नहीं होता । दूसरे दो आयुओंका तो मारणान्तिक समुद्रातके समय बन्ध होता ही नहीं, इसलिए यहां इन स्त्रीवेद आदिके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । उद्योत और यशःकीर्तिका स्पष्टीकरण पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी प्ररूपणाके समय कर आये है उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए । उद्योतके समान ही बादरका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । बादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । यहांपर अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है ।

१३. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, छह नोकपाय और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्थानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

१४. देवेषु पंचणा०-थीणगि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणताणु०४-णवुंस०-
तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-
उज्जो०-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-अणादे०-जस०-अजस०-
णिमि०-णीचा०-पंचत० उक्क० अणु० अड्ड-णव० । छदस०-बारसक०-छण्णोक० उक्क०
अड्डचो० । अणु० अड्ड-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-
ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-मणुसाणु०-आदाव-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-त्तिथ०
उक्क० अणु० अड्डचो० । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व यथायोग्य गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंके बन जाता है और इन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इन कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । मनुष्यत्रिकमें एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी इन कर्मोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । स्थानगृद्धित्रिक आदि प्रकृतियोंका भी दोनों प्रकारका बन्ध इसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय बन जाता है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोकप्रमाण कहा है । उद्योतकी अपेक्षा दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पहले पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । मात्र वहां यशःकीर्ति प्रकृतिको उद्योतके साथ गिनाकर स्पर्शन कहा है । पर मनुष्यत्रिकमें इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते हैं, इसलिए इनमें इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है । बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भी इतना ही स्पर्शन बनता है, इसलिए यहांपर यशःकीर्तिको बादर प्रकृतिके साथ सम्मिलित कर इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका एक साथ स्पर्शन कहा है । तथा इन दोनों प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । यहां गिनाई गई इन प्रकृतियोंके सिवा अन्य जितनी प्रकृतियाँ बचती हैं उनके दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

१४. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और छह नोकषायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आंगोपांग, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१५. एइंदिएसु पंचणा०-गवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-
तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-यण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अणु०४-थावर-
सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूमग-अणादे०-अजस०-
णिभि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०
ओरा०अंगो०-छस्संघड०-दोविहा०-तस-बादर-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० लोगस्स
संखेज्जदिभागो । अणु० सव्वलोगो । एवं तिरिक्खाउ० । मणुसाउ० उक्क० खेत्त-
भंगो । अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा । मणुसगदिदुग-उच्चा० उक्क०
खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचो० । अणु० सव्वलो० ।
सेसाणं उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन जाता है उनका
उन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन
कहा है और जिनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं
बनता उनका उन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन
कहा है । इन्हीं विशेषताओंको और अपने स्पर्शनको ध्य नमें रखकर देवोंके सब अवान्तर भेदोंमें
स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

१५. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,
सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर,
दुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त,
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र
और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग,
छह संहनन, दो विह्योगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
तिर्यञ्चायुकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें बादर पर्याप्त जीव ही सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते

१६. बादर-पञ्जत्तापञ्जत्ताणं' एङ्दियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सव्वलो० ।
इत्थि०-पुरिस०-तिरिक्खाउ०-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संध०-आदाव-
दोविहा०-तस- [बादर-] सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु० लोगस्स संखेज्जदिभागो ।
अणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० । सव्वसुहुमाणं

हैं पर अन्य एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी ये जीव पाँच ज्ञानावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सब एकेन्द्रियोंके होता है, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्रीवेद आदि छत्रवीसका, मनुष्यगति आदि तीनका, उद्योत आदि दोका और जिन प्रकृतियोंका यहां नाम निर्देश नहीं किया है उनका भी सब एकेन्द्रिय जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा स्त्रीवेद आदि छत्रवीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीव करते हुए भी इनका सब प्रकारका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। इनमें तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्त्रीवेद आदिके समान घटित हो जानेसे यह उनके समान कहा है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यद्यपि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर सब एकेन्द्रिय जीव करते हैं, पर ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण बन जानेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। एक साथ एकन्द्रिय जीव यदि मनुष्यायुका बन्ध करे तो असंख्यात जीव करेंगे और उस समय यदि इनका क्षेत्रस्पर्शन देखा जाय तो वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होगा, इसलिए तो यह उक्त प्रमाण कहा है और इस तरह यदि अतीत कालीन सब स्पर्शनका योग किया जाय तो वह सर्व लोकगत हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यो तो सब एकेन्द्रिय बादर पर्याप्त जीव उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, हाँ जो एकेन्द्रिय ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं उनके भी इन दो कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यहाँ शेष प्रकृतियोंमें आतप प्रकृति वचती है सो उसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

१६. बादर एकेन्द्रिय और उसके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन* सर्व लोकप्रमाण है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तिर्यञ्चायु, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विहायो-गति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायु, मनुष्यगति मनुष्य-गत्यानुपूर्वा और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी

* १ ता०प्रतौ 'बादरपञ्जत्ताणं अपञ्जत्ताणं' इति पाठः ।

सव्वपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । णवरि मणुसाउ० उक्क० अणु० लो० असंखे० सव्वलो० ।

१७. पुढवि०-आउ०-तेउ० एइंदियपगदीणं उक्क० लोगरस असंखे० सव्व-
लोगो । अणु० सव्वलो० । सेसाणं तसपगदीणं आदावं च उक्क० लोगस्स असंखे० ।
अणु० सव्वलो० । दोजाउ० [एइंदिय] ओधं । एवं वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० ।
वादरपुढवि०-आउ०-तेउ० पञ्जत्तयाणं एइंदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सव्वलो० । तस-
संजुत्ताणं आदावं च उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० । एवं वाउकाइयाणं पि । णवरि
यमिह लोगस्स असंखे० तमिह लोगस्स संखेज्जदिभागो कादव्वो ।

विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्या-
तवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—वादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रियजाति संयुक्त
प्रकृतियोंका दो प्रकारका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके
दोनों पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । इनमें स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट व अनु-
त्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें समुद्रात करनेवाले जीवोंके नहीं होता । आतपका होकर भी वह
वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमें समुद्रात करनेवाले जीवोंके ही होता है और तिर्यञ्चायुका मारणान्तिक
समुद्रातके समय बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन कर्मोंके दोनों पदवालोंका लोकके संख्यातवे
भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा मनुष्यायु और मनुष्यगति आदि तीनका वायुकायिक जीव
बन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ मनुष्यायु आदि चार कर्मोंके दोनों पदवालोंका लोकके असंख्यातवे
भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । सब सूक्ष्म जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें मनु-
ष्यायुके विना सब प्रकृतियोंके दोनों पदवालोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनमें
मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन तो लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है पर
अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण वन जानेसे यह वर्तमानकी अपेक्षा लोकके अमंख्यातवे भागप्रमाण
और अतीतकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण कहा है ।

१७ पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । शेष त्रसप्रकृतियोंका और आतपका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असं-
ख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व-
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंकी अपेक्षा स्पर्शन सामान्य एकेन्द्रियोंके समान
है । इसी प्रकार वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवोंमें जानना
चाहिए । वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर अग्निकायिक पर्याप्त
जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व
लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका और आतपका उत्कृष्ट और
अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँपर लोकके
असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँपर लोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन
करना चाहिए ।

१ आ०प्रतौ 'लोगस्स असंखे० । अणु०' इति पाठः । २ 'तेउ० ओध पदं । वादरपुढवि०' इति पाठः ।

१८. वणफ्फदि-णियोदेसु एइंदियभंगो । णवरि यम्हि लोगस्स संखेज्जदिभागो तम्हि लोगस्स असंखेज्जदिभागो कादव्वो । बादरवणफ्फदि-बादरणियोदाणं पज्जत्तापज्जत्ताणं एइंदियपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० खेत्तभंगो । उज्जो०-जस० उक्क० अणु० सत्तचो० सव्ववादरणं च । बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० जसगित्तिभंगो । बादरवणफ्फदिपत्ते० बादरपुढवि०भंगो ।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक आदि तीनमें भी बादर पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । साथ ही यह बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन भी कहा है । इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है । इनमें आतपसहित शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । यद्यपि आतपका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है पर ऐसे जीव बादर पृथिवीकायिक पर्याप्तकोमें ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे भी उक्त स्पर्शनके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पृथिवीकायिक आदि सब करते हैं, इसलिए इनके इस पदवालोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । दो आयुओंकी अपेक्षा जो पररूपणा एकेन्द्रियोंमें कर आये हैं वह यहाँ भी बन जाती है, इसलिए इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । बादर पृथिवीकायिक आदि तीनमें सब पररूपणा पृथिवीकायिक आदि तीनके समान घटित हां जाती है, इसलिए इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि तीनोंमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंके दोनों पद मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा त्रससंयुक्त और आतपका बन्ध करनेवाले उक्त जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक स्पर्शन किसी भी अवस्थामें सम्भव नहीं है, इसलिए यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । वायुकायिक और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंमें सब स्पर्शन पृथिवीकायिक और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंके समान बन जानेसे इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए यह कहा है । मात्र उनसे इनमें जितनी विशेषता है उसका अलगसे उल्लेख किया है ।

१९ वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ पर लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण करना चाहिए । बादर वनस्पतिकायिक और बादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब बादरोंमें उद्योत और यशःकीर्तिका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन यशःकीर्तिके समान है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है ।

१६. पंचिदि०-तस०-२-पंचमण०-पंचवचि० पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादा०-
चदुसंज०-[जस०-] पंचंत० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टचो० सव्वलोगो वा । थोण-
गिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ०-
णीचा० उक्क० अणु० अट्टचो० सव्वलो० । णिद्दा-पयला-अपच्चक्खाण०४-छण्णोक्क०
उक्क० अट्टचोद्दस० । अणु० अट्टचोद्दस० सव्वलो० । पच्चक्खाण०४ उक्क० छच्चोद्दस०
अणु० अट्टचोद्दस० सव्वलो० । इत्थिवे०-चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० अणु० अट्ट-बारह० ।
पुरिस०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ट-

विशेषार्थ—वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है । मात्र एकेन्द्रियोंमें वायुकायिक जीव भी आ जाते हैं, जो कि इनसे अलग कायवाले हैं इसलिए एकेन्द्रियोंमें जहां लोकके संख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां इन जीवोंमें लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन जाननेकी सूचना की है । वादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव होनेसे इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । ये जीव त्रस प्रकृतियोंका बन्ध करते समय एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात नहीं करते, इसलिए इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अब रही उद्योत, यशःकीर्ति और वादर ये तीन प्रकृतियां सो इनके दोनों प्रकारके स्पर्शनका पहले अनेक बार खुलासा कर आये है उरी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । इनमेंसे उद्योत और यशःकीर्ति इन दो प्रकृतियोंका अन्य सब वादरोंमें यह स्पर्शन घटित हो जाता है, इसलिए उसे अन्तमें इनके समान जाननेकी सूचना की है । वादर प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंका भङ्ग वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है ।

१६. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्त्यानगुद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अन-ता-नुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और नाचगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्याना-वरणचतुष्क और छह नोकषायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, पञ्चेदियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रामासृपाटिकासंहनन और त्रसका

१ ता० आ० प्रत्योः 'उक्क० अट्टचोद्दस सव्वलो०' इति पाठः ।

घारह० । दोआउ०-तिणिजादि-आहारदुर्गं उक० अणु० खेत्तभंगो । दोआउ०-आदाव०
 उक० अणु० अडुचोदस० । दोगदि-दोआणु० उक० अणु० छचोदस० । तिरिक्ख०-
 एइदि०-ओगलि०-तेजा०-क०-हुँड०-वण्ण०-तिरिक्खाणु०-अणु०-उप०-थावर-पत्ते०—
 अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि० उक० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अणु०
 अडु० सव्वलो० । मणुस०-मणुसाणु०-तित्थं० उक० खेत्तभंगो । अणु० अडुचो० । एवं
 उच्चा० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० [उक०] अणु० बारह० । समचदु०-दोविहा०-
 सुभग-दोसर-आदे० उ० छचो० । अणु० अडु-वारह० । उज्जो०-वादर० उक० अडु-
 णवचोदस० । अणु० अडु-तेरह० । णवरि वादर० उक० खेत्तभंगो । [सुहुम०-अपज्ज०-
 साधार० पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो ।] एवं चक्खु०-सणि ति । कायजोगि० ओघं ।

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्विका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्विका, अगुरुलघु, उपघान, स्थावर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्विका और तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार उच्चगोत्रके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक शरीर आज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । समचतुरस्र-संस्थान, दो विहायोगति, सुभग, दो म्वर और आदेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान है । इसी प्रकार वक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । तथा काययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

१ ता० प्रतौ 'मणुस० मणुपु (?) तिस्थ०' आ० प्रतौ 'मणुस० मणुपज० तिस्थ०' इति पाठः ।

२ ता० प्रतौ आ० उ० (दे) छचो०' आ० प्रतौ 'आदे० छचो०' इति पाठः ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय आदि मार्गणाओंमें पाँच ज्ञानावणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन किया है। इनका क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा विहारवत्स्वस्थान और मारणान्तिकके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्थानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोंके दोनो पदोंका स्पर्शन ज्ञानावणादिके अनुत्कृष्ट पदके समान घटित हो जानेसे वह भी त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक प्रमाण कहा है। निद्रा आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। निद्रादिकके अनुत्कृष्टके समान प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और तिर्यञ्जगति आदि इक्कीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाले जीवोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे वहाँ इस स्पर्शनका हम अलगासे स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। अच्युत कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीव भी प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और सासादनसम्यग्दृष्टियोंके मार्गान्तिक समुद्घातके समय भी स्त्रीवेद आदि दस प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पुरुषवेदका अनिवृत्तिकरणमें और पञ्चेन्द्रियजाति आदि पच्चीस नाम प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला दो गतिका जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है, इसलिए इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है सो यह स्त्रीवेद आदिका स्पर्शन घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। दो आयु आदि सात प्रकृतियोंके दोनो पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्जायु, मनुष्यायु और आतपके दोनो पदोंका बन्ध देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी दो गति और दो आनुपूर्विके दोनो पद सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी तिर्यञ्जगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यगतिद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्वामित्वको देखते हुए लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा देवोंके स्वस्थात्तविहारके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। उच्चगोत्रके दोनों पदवालोंका स्पर्शन मनुष्यगति आदिके समान ही बन जानेसे वह उस प्रकार कहा है। नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी वैक्रियकद्विकके दोनो पद सम्भव हैं, इसलिए इस अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिका देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय और अप्रशस्त विहायोगति तथा दुःस्वरका नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय और सासादन जीवोंके

२०. ओरालि० पंचणाणावरणदंडओ ओघं । थीणगिद्वि०३-असादा०-मिच्छ०-
अणंताणु०४-णबुंस० उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । णिदा-
पयला-अपच्चक्खाण०४-छण्णोक्क० उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । एवं पच्चक्खाण०४-
[समचदु०-सुभग-दोसर-आदे०] । इत्थि० उक्क० दिवडुचोदस० । अणु० सव्वलो० ।
पुरिस०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-
आदाव०-दोविहा०-तस-वादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु०
उक्क० अणु० छच्चो० । तिरिक्ख०-एइदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण० ४-तिरि-

मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव होनेसे इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और देवोंके एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रान करते समय उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिये इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और वैक्रियिककाययोगी जीवोंके मारणान्तिक समुद्रातके समय इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी सम्भव है, इसलिये इस अपेक्षासे त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । वादर-प्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन उद्योतके अनुत्कृष्टके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । सूक्ष्म आदिका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है यह भी स्पष्ट है । चक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमे उक्त प्रकारसे स्पर्शन घटित हो जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा काययोग एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव होनेसे इसमें ओघपरूपणा अत्रिकल घटित हो जाती है, अतः ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०. औदारिककाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । स्थान-गुद्वित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धाचतुष्क और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, दो स्वर और आदेशकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, तिर्यञ्चायु, मनुष्य-गति, चार जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-

कलाणु०-अणु०४-थावर-सुहुम-पञ्जापञ्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभगं
अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा० उक्क० लोगस्स असंखे० सच्चलो० । अणु० सच्चलो० ।
[वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० वारहचोदस० ।] तिण्णिआउ० तिरिक्खोदं ।
आहारदुगं तित्थ० खेत्तभंगो । उज्जो० उक्क० सत्तचोदस० । अणु० सच्चलो० । जस०
पुरिस०भंगो ।

गत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनात्रेय, अयशःकीर्ति, निर्माण और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीन आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है। आहारकद्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यशःकीर्तिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिके दोनो पदवालोंका स्पर्शन ओषके समान यहाँ घटित हो जानेसे वह ओषके समान कहा है। स्थानगुद्धि तीन आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्धातके समय भी उसका बन्ध करते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा औदारिककाययोगका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होनेसे इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। ऊपर आनतकल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी निद्रा आदि बारह प्रकृतियोंका और चार प्रत्याख्यानावरणका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनो पदोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा एकेन्द्रियादि सब जीव इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं, अतः इसके इस पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन कहा हो वह इसी प्रकार जानना चाहिए। यहाँ पुरुषवेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके स्वामित्वको देखते हुए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह क्षेत्रके समान कहा है। दो गति और दो आनुपूर्वीके दोनो पदवालोंका त्रसनालीके छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शनका पहले अनेक बार स्पष्टीकरण कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। और इसे दृढ़ कर देनेपर वैक्रियिकद्रिककी अपेक्षा दोनो पदवालोंका स्पर्शन हो जाता है। स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी तिर्यञ्चगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तीन आयुका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान और आहारकद्रिक व तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे

२१. ओरालियमि० पंचणा०-थोणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-
णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिणिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-
थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-
णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लोगस्स असंखे० । अणु० सच्चलो० । सेसाणं उक्क०
अणु० खेत्तभंगो ।

२२. वेउन्विषका० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०
४-णवुंस०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-तेरह० । छदंस०-बारसक०-छण्णोक०
उक्क० अट्टचो० । अणु० अट्ट-तेरह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिंदि०-पंचसंठा०-ओरालि०
अंगो०-छस्संव०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु० अट्ट-बारह० ।
णवरि पुरिस० उक्क० अट्ट० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थि०-उच्चा०

चौदह भागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदकी अपेक्षा जो स्पर्शन कहा है उसी प्रकार यशःकीर्तिकी अपेक्षा भी स्पर्शन बन जाता है, इसलिए इसका भङ्ग पुरुषवेदके समान कहा है ।

२१. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके एक समय पूर्व करते हैं, इसलिए इनके इस पदवालोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा औदारिकमिश्रकाययोगीका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन होनेसे इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवालोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तो शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके एक समय पूर्व संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है और इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवाले जीवोंका जिसका जो क्षेत्र कह आये है वह यहां स्पर्शन घटित हो जानेसे वह भी क्षेत्रके समान कहा है ।

२२. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और छह नोकषायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

उक्क० अणु० अट्टचोदस० । तिरिक्ख०—तिणिसरीर—हुंड०—वण्ण०४—तिरिक्खाणु०—
अगु०४—उज्जो०—वादर—पज्जत्त—पत्ते०—थिरादितिणियु०—दूमग—अणादे०—णिमि० उक्क०
अट्ट—णव० । अणु० अट्ट—तेरह० । एइंदि०—थावर० उक्क० अणु० अट्ट—णव० ।

२३. वेउव्वियमि०—आहार०—आहारमि०—अवगदवे०—मणपज्ज०—संजद—सामाह०—
छेदो०—परिहार०—सुहुमसंप० उक्क० अणु० खेत्तभंगो ।

२४. कम्मइ० पंचणाणा०—थीणगिद्धि०३—दोवेद०—मिच्छ०—अणंताणु०४—
णवुंस०—णीचा०—पंचंत० उक्क० वारह० । णवरि मिच्छ०पगदीणं उक्क० एक्कारह० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, तीन शरीर, हुण्डमंथान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-
गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोगमे विहारवत्त्वस्थानकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन है । एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्घात करनेपर त्रसनाली के कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है । तथा नारकियोंका तिर्यञ्चों और मनुष्योंमे व देवोंका तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेपर मिलाकर त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो स्पर्शन कहा है वह पूर्वोक्त स्पर्शनको देखकर अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार घटित कर लेना चाहिए । अन्य विशेषता न होनेसे यहाँ हमने उसे अलग-अलग घटित करके नहीं बतलाया है ।

२३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्म-साम्परायसंयत जीवोंमें अपना अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओमे अपना-अपना स्पर्शन लोकके असंख्यातत्रे भागप्रमाण ही है, इसलिए यहाँ अपनी अपनी प्रकृतियोंके दोनों पदवालोका स्पर्शन उक्तप्रमाण प्राप्त होनेसे क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भी इतना ही है ।

२४. कर्मणकाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम

अणु० सव्वलो० । छद्दंस०—बारसक०—सत्तणोक०—उच्चा० उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । इत्थि०—चदुसंठा०—पंचसंध०—अप्पसत्थ०—दुस्सर० उक्क० बारह० । अणु० सव्वलो० । दोगदि—पंचजादि—तिण्णिंसीरीर—हुंड०—ओरालि०अंगो०—असंप०—वण्ण०४—दोआणु०—[अणु०—उप०—] तस—थवरादिसत्त—अथिरादिपंच—णिमि० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । देवगदिपंचग० उक्क० अणु० खेत्तभंगो । समचदु०—पसत्थ०—सुभग—सुस्सर—आदे० उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । पर०—उस्सा०—पज्ज०—थिर—सुभ—जस० उक्क० छच्चोद० । अणु० सव्वलो० । एवं आदाउज्जो० ।

ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण बारह कपाय, सात नोकपाय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायांगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, त्रस और स्थावर आदि सात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तर्सी प्रकार आतप और उद्योतके दोनो पदवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह कर्मण काययोगके उक्त प्रमाण स्पर्शनको देखकर घटित कर लेना चाहिए । शेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है—चारों गतिके कर्मणकाययोगी संज्ञी जीव पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं । यतः इन जीवोंका स्पर्शन नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुल कुछकम बारह राजुप्रमाण प्राप्त होता है, अतः यहाँ यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र जो मिथ्यादृष्टि जीव स्थानगुह्यत्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं उनका ऊपर कुछ कम पाच राजुप्रमाण ही स्पर्शन बन सकता है, क्योंकि न तो ऐसे जीव आनतादिकमें उत्पन्न होते हैं और न आनतादिकसे आकर मनुष्यगतिमें ही उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । छह दर्शनावरण आदिका सम्यग्दृष्टि कर्मणकाययोगी ही उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और ऐसे जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण होता है,

२५. इत्थिवेदेसु पंचणा०-थीणगिद्वि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणताणु०४-
णपुंस०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट० सव्वलो० । णिदा-पयला-अपच्चक्खाण०४-
छण्णोक्क० उक्क० अट्ट० । अणु० अट्ट० सव्वलो० । चदुदंसणा०-चदुसंज० उक्क०
खेत्तभंगो । अणु० अट्टचो० सव्वलो० । पच्चक्खाण०४ उक्क० छचो० । अणु० अट्ट०
सव्वलो० । इत्थि०-दोआउ०-चदुसंठा०-पंचसंध०-आदाउच्चा० उक्क० अणु० अट्ट० ।
पुरिस-मणुस०-ओरालि०अंगो०-असंप०-मणुसाणु० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टचो० ।
दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० खेत्तभंगो । दोगदि-दोआणु० उक्क०

अतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । स्त्रीवेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धवाले जीवोका त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन अपने-अपने स्वामित्वको जानकर पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोके समान ही घटित कर लेना चाहिए । दो गाँत आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका जो क्षेत्र कहा है वही यहाँ पर स्पर्शन प्राप्त है, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्यग्दृष्टि जीव ही करते हैं, इसलिए इनके दोनों पदवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि इन जीवोका लोकके असंख्यातवे भागसे अधिक स्पर्शन नही प्राप्त होता । सुभगादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव ऊपर त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार परवात आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने स्वामित्वके अनुसार त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण घटित कर लेना चाहिए ।

२५. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और छह नोकषायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, दो आयु, चार संस्थान, पाँच संहनन, आतप और उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तसृपाटिका संहनन, और मनुष्यगत्यानुपूर्विका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके दोनों पदवालोका स्पर्शन

१ ता० प्रतौ 'मिच्छ० मिच्छ० (?) अणताणु० णपु ०' इति पाठः । २ आ० प्रतौ 'अट्ट० । इत्थि०' इति पाठः । ३ आ० प्रतौ 'आदाउजो० उक्क०' इति पाठः ।

अणु० छत्रो० । तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु-
अगु०-उप०-थावर-पत्ते०-अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि० उक्क० लोगस्स
असंखे० सव्वलो० । अणु० अट्ट० सव्वलो० । पंचिंदि०-तस० उक्क० खेत्तभंगो' ।
अणु० अट्ट-वारह० । [वेउव्वि०-वेउवि०-अगो० उ० अणु० बारहचोइस० ।] समचदु०-
दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० छ० । अणु० अट्टचो० । पर०-उस्सा०-पज्ज०-
थिर-सुभ० उक्क० अणु० अट्टचो० सव्वलो० । उज्जो० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । बादर०
उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० अणु० लोगस्स
असंखे० सव्वलो० । जस० उक्क० ओघं । अणु० अट्ट-णवचोइस० । एवं पुरिसवेदे
वि । णवरि तित्थ० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टचो० ।

क्षेत्रके समान है । दो गति और दो आनुपूर्विका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय-जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयश.कीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय-जाति और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदियोंमें जहाँ त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन

• १ ता० प्रतौ 'उ० उ० खेत्तभंगो' इति पाठः ।

२६. गुरुसंगे० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अर्णनाणु०४-

कहा है वहाँ देवोंके स्वस्थान विहारकी मुख्यतासे जानना चाहिए। अन्य स्पर्शन ईर्सासे गर्भित हो जाता है। जहाँ सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कराकर यह प्राप्त किया गया है। कहीं उपपादपदकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन प्राप्त हो सकता है सां विचार कर लगा लेना चाहिए। जहाँ पूर्वोक्त दोनों प्रकारका स्पर्शन कहा है वहाँ इन दोनों विवक्षाओंको ध्यानमें रखकर वह ले आना चाहिए। त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन देवोंमें और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करानेसे प्राप्त होता है सो स्वामित्वको देखकर जहाँ जो सम्भव हो वहाँ वह घटित कर लेना चाहिए। पुरुषवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहनेका कारण यह है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तो अनिवृत्तिकरणमें होता है तथा मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले संज्ञी मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य गतिके जीव करते हैं। दो आयु आदि आठ प्रकृतियोंके दोनों पदवालोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह पहले अनेक बार स्पष्ट कर आये हैं। तिर्यञ्चगति आदि इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले दो गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वस्थानमें और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय इन दोनों अवस्थाओंमें करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी मनुष्यगतिके ही समान है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है। तथा इन दोनों प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और नारकियों व देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय वैक्रियकन्द्रिकके दोनों पद सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी मनुष्य और तिर्यञ्च समचतुरस्रसंस्थान आदिका और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। सूक्ष्म आदि तीन प्रकृतियोंका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्योके स्वस्थानमें व एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदवालोका लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्रीवेदियोंमें शेष जिस स्पर्शनका यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया है उसका पहले अनेकबार स्पष्टीकरण कर आये हैं, इसलिए उसे वहाँसे जान लेना चाहिए। यशःकीर्तिके उत्कृष्ट पदवालोंका स्पर्शन ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा देवियोंके विहारके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। पुरुषवेदी जीवोंमें यह स्पर्शन अविकल घटित हो जाता है इसलिए उनमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र देवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भी बन्ध होता है, इसलिए पुरुषवेदियोंमें इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे इसकी अलगसे सूचना की है।

२६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तिर्यञ्चगति संयुक्त प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट

तिरिक्खगदिसंजुत्ताणं [णीचा०-पंचंत०] उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । णिदा-पयला-अट्टक०-सत्तणोक०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० छ० । अणु० सव्वलो० । चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । [दोआउ०] वेउव्वियल्लक्कं आहारदुगं ओघं । [तिरिक्खाउ०-मणुसाउ०-सुहम-अपज्ज०-साधा० तिरिक्खोघं ।] मणुस०-चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-आदाव०-जस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । [पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो०] उज्जो० उक्क० सत्तचो० । अणु० सव्वलो० । [तित्थ० खेत्तभंगो] क्रोधादि० ४ ओघं ।

प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, सात नोकपाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहा-योगाति, सुभग, दोस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार दर्शनावरण, चार संवलन और पुरुष-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आगु, वैक्रियिकपट्टक और आहारकट्टिकका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रा-प्राप्तपाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञो जीव स्वस्थानमें तो करते ही हैं पर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उनके वह सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सब जीवोंके सम्भव है, अतः यह स्पर्शन सर्व लोक-प्रमाण कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार जानना चाहिए । निद्रादिकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके स्वामी अलग-अलग जीव बतलाये हैं । उनका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे यहाँ वह उक्त प्रमाण कहा है । चार दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संयत जीवोंमें अलग-

२७. मदि-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-
णीचा०-पंचंत० उक्क० अट्ट० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-चदुसंठा०-
पंचसंध० उक्क० अट्ट-चारह० । अणु० सव्वलो० । दोआउ० खेत्तभंगो । तिरिक्ख-
मणुसाउ०-णिरय०-णिरयाणु०-[आदाव] ओवं । तिरिक्खगदिदंडओ ओघं । मणुसगदि-
चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-तस-वादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु०
सव्वलो० । देवगदि-समचदु०-देवाणुपु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० उक्क०
पंचचो० । अणु० सव्वलो० । णवरि देवगदि-देवाणु० अणु० पंचचो० । अप्पसन्थ०-

अलग गुणस्थानोंमें होता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। दो आयु, वैक्रियकपट्टक और आहारकट्टिकके दोनों पदवालोंका जो स्पर्शन ओघमें कहा है वह यहां अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। तिर्यञ्चायु आदिका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह पहले अनेक बार लिख आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए। परघात आदिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जैसा सामान्य तिर्यञ्चोंमें घटित करके बतलाया है उसीप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। ऊपर एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण होता है, इसलिए यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। क्रोधादि चार कपायवालोमे ओघ स्वामित्वसे बहुत ही कम अन्तर है। जो अन्तर है उससे स्पर्शनमें फरक नहीं पड़ता, इसलिए इनमें ओघके समान स्पर्शनके जाननेकी सूचना की है।

२७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तर्गयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और आतपका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगति, चार जाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस और वादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि देवगति

१. ता० प्रतौ 'तिरिक्ख मणुसाउ० ओघं । णिरय० णिरयाणु०' आ० प्रतौ 'तिरिक्ख मणुसाउ० णिरयाणु०' इति पाठः ।

अपसन्ध०—दुस्सर० उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । वेउच्चि०-वेउच्चि०अंगो०
 उक्क० अणु० एकारह० । पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ० ओघं । उज्जो-जस० उक्क०
 अट्ट-णव० । अणु० सव्वलो० । [उच्चा० उक्क० अट्टचो० । अणु० सव्वलो० ।] एवं
 अव्वभ०-मिच्छादिट्ठि ति ।

और देवगत्यानुपूर्विका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाज्ञका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका भङ्ग ओघके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय तथा एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तथा एकेन्द्रियादि सब जीव इनका बन्ध करते हैं, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वलोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवोंमें स्वस्थानविहारके समय और तिर्यञ्चों व मनुष्योंमें नीचे छह व ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह राजु क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवालोंका त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकायु और देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार शेष दो आयु, नरकगति और तिर्यञ्चगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वामित्वकी अपेक्षा ओघसे यहां कोई अन्तर नहीं आता, इसलिए ओघप्ररूपणा बन जाती है। मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह पहले अनेक बार उल्लेख कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। ऊपर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी देवगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके इस पदवाले जीवोंका त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। एकेन्द्रियादिसे लेकर नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके व चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके व नारकियों और देवोंके देवगतिद्विकका बन्ध नहीं होता, इसलिए देवगतिद्विकका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भी त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके भी अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नीचे

२८. विभंगे० पंचणा०—णवदंस०—दोवेद०—मिच्छ०—सोलसक०—सत्तणो०—
 प०—उस्सा०—पज्जत्त०—थिर-सुभ-णीचा०—पंचंत० उक्क० अणु० अट्टुचो० सच्चलो० ।
 इत्थि०—पुरिस०—चदुसंठा०—पंचसंघ० उक्क० अणु० अट्टु-वारह० । दोआउ०—तिण्णिजादि०
 उक्क० अणु० खेत्तभंगो । दोआउ०—आदाव०—उच्चा० उक्क० अणु० अट्टुचो० । गिरयगदि-
 दुगं ओघं । तिरिक्खगदिदंडओ उक्क० ओघो । अणु० अट्टुचो० सच्चलो० । मणुसगदि-
 दुगं उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टु० । देवगदिदुगं उक्क० अणु० पंचचो० । पंचिदि०—
 ओरालि०—अंगो०—असंपत्त०—तस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टु—वारह० ।

नागक्रियोंमें और ऊपर सहस्रार स्वर्गतकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके वैक्रि-
 यिकद्विकका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका स्पर्शन त्रसनाली
 का कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । परघात आदि प्रकृतियोंकी अपेक्षा जो
 स्पर्शन ओघमें कह आये है वह यहाँ बन जाता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है । देवोंमें
 विहारवत्त्वरथानके समय और देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी
 उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका
 त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमें
 विहारादिके समय भी उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवालोंका
 स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेश-
 बन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है । यह प्ररूपणा अभ्यय और
 मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इनमें मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके
 समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है ।

२८ विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह-
 कपाय, सात नोकपाय, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका
 उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-
 प्रमाण और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान और पाँच
 मंहनन का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और
 कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और तीन जातिका
 उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, आतप
 और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ
 बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगतिद्विकका भङ्ग ओघके समान है ।
 तिर्यङ्गगति दण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । तथा इनका
 अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और
 सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका
 स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम
 आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-
 बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
 है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और त्रसका
 उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१. ता० प्रती 'आउ [दा] व०' आ० प्रती 'आउव' इति पाठः ।

२. आ० प्रती 'तस० खेत्तभंगो ।' इति पाठः ।

वेडव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० एक्कारहचोदस० । समचदु०-
 प्रसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० पंचचो० । अणु० अट्ट-वारह० । उज्जो०-जस०
 उक्क० अट्ट-गंवचो० । अणु० अट्ट-तेरह० । अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० छच्चोद० ।
 अणु० अट्ट-वारह० । बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ट-तेरहचो० । सुहुम-
 अपज्ज०-साधार० उक्क० अणु० लो० असंसे० सच्चलो० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रशस्त विहायांगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इसका अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातरे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय तथा नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी स्त्रीवेद आदिके दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकायु, देवायु और तीन जातिका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य ही करते हैं । तथा दो आयुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता और तीन जातियोंका केवल विकलेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी बन्ध हो सकता है, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातरे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । इन प्रकृतियोंके विषयमें यह अर्थपद आगे व पीछे सर्वत्र लगाकर वहाँ वहाँका स्पर्शन जान लेना चाहिए । दो आयु आदि चार प्रकृतियोंका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विकका जो ओघमें स्पर्शन बतलाया

है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है। तिर्यञ्जगतिदण्डके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका ओघसे लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन बतला आये है। वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। तथा देवोंके विहारवत्स्वस्थान और एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी तिर्यञ्ज और मनुष्य करते हैं। तथा इनके मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी यह सम्भव है। पर इस प्रकारके जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे देवोंके विहारवत्स्वस्थानकी मुख्यता है, इसलिए इनके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देव और नारकी मारणान्तिक समुद्घातके समय यद्यपि इन दो प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं पर इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, अतः विहारवत्स्वस्थानसे प्राप्त होनेवाला स्पर्शन ही यहाँ मुख्यरूपसे विवक्षित किया गया है। ऊपर सहस्रार कल्पतकके देवोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगतिद्विकके दोनों पद सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यद्यपि मत्यज्ञान, श्र ताज्ञान और विभङ्गज्ञान नीचे प्रवेयकतक सम्भव हैं, इसलिए यह प्रश्न हो सकता है कि देवगतिद्विकका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम पाँच राजुके स्थानमे कुछ कम छह राजु होना चाहिए। पर इसका समाधान यह है कि सहस्रार कल्पके ऊपर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्ज ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उक्त स्पर्शनमें विशेष अन्तर नहीं पड़ता। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी तिर्यञ्ज और मनुष्य करते हैं। तथा द्वीन्द्रियादिकमें यथायोग्य मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक न होनेके कारण इस प्ररूपणाको क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। तथा इनका देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और यथायोग्य नीचे व ऊपर छह छह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नारकियोंमें और ऊपरके सहस्रार कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी वैक्रियिकद्विकके दोनों पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए इन दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवगतिद्विककी अपेक्षा जो शंका-समाधान किया गया है वह यहाँ भी जान लेना चाहिए। सहस्रारकल्पतकके देवोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय समचतुरस्रसंस्थान आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है सो इसका खुलासा पञ्चेन्द्रियजातिका स्पर्शन बतलाते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और नीचे छह व ऊपर सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उक्त दो प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ व

२६. आभिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-
जस०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टुचो० । णिदा-पयला-
असादा०-अपंचक्खाण०४-छण्णोक०-मणुसाउ०-मणुसगदिपंचग० उक्क० अणु०
अट्टुचो० । पचक्खाण०४ उक्क० छच्चो० । अणु० अट्टुचो० । देवाउ०-आहारदुगं
खेत्तभंगो । देवग०४ उक्क०^१ अणु० छच्चो० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-
वण्ण०४-अणु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-
णिमि० उक्क० छच्चो० । अणु० अट्टुचो० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खड्ग०-

कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नारकियोमे मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और नीचे छह राजु और ऊपर छह राजु इस प्रकार कुछ कम बारह राजुके भीतर यथायोग्य पदके रहते हुए भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । बादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है सो इसका स्पष्टीकरण उद्योतके अनुत्कृष्टके समान कर लेना चाहिए । सूक्ष्मादिका स्वस्थानमें और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी दो प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

२६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातवेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकपाय, मनुष्यायु और मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि

उवसम० । णवरि खड्ग० देवगदि०४ खेत्तभंगो ।

३०. संजदासंजदेसु देवाउ०-तित्थ० खेत्तभंगो । सेसाणं उक्क० अणु० छच्चो० ।

३१. असंजदेसु मदि०भंगो । णवरि छदंस०-वारसक०-सत्तर्णाक० उक्क० अट्टच्चो० । अणु० सव्वलो० । वेउव्वियल्लक-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुरसर-आदे० ओघभंगो । अचक्खु० ओघं ।

और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षाधिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यथायोग्य दसवे, नौवें और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य करते हैं । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा देवोंके विहारवत्स्वरथानके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट या दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय संयतासंयत जीवोंके प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र यहाँ संयतासंयत ऐसा नहीं करना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है । यहाँ अवधिदर्शनी आदिमें इसी प्रकार जाननेकी सूचना कर जो क्षाधिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें विशेषता कही है उसका कारण यह है कि क्षाधिकसम्यग्दर्शन मनुष्य ही उत्पन्न करते हैं, अतः ऐसे मनुष्य और ये यदि भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं तो वहाँ उत्पन्न हुए क्षाधिकसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य देवगतिचतुष्कका बन्ध करते हैं । ऐसे जीवोंका यदि देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन लिया जाता है तो वह भी लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः क्षाधिकसम्यग्दृष्टियोंमें देवगतिचतुष्कका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

३०. संयतासंयतोंमें देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंके देवायुके सिवा सब प्रकृतियोंका देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा देवायुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता और तीर्थङ्कर प्रकृतिका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध होकर भी मनुष्य ही इसका बन्ध करते हैं, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है ।

३१. असंयतोंमें मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंमें सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकपट्क, समर्चतुरस्रसंस्थान,

३२. तिणिले० पंचणा०—थीणगिद्वि०३—दोवेद०—मिच्छ०—अणंताणु०४—
णवुंस०—तिरिक्ख०—एइंदियसंजुत्ताणं णीचा०—पंचंतरा० उक्क० लोग० असंखे०
सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । छदंस०—बारसक०—सत्तणोक०—तिरिक्खाउ०—
मणुस०—चदुजादि०—समचदु०—ओरालि०—अंगो—असंपत्त०—मणुसाणु०—आदाव—पसत्थ०—
[तस०—बादर—] सुभग—सुस्सर—आदे०—उच्चा० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० ।
इत्थि०—चदुसंठा०—पंचसंघ—अप्पसत्थ०—दुस्सर० उक्क० छच्चत्तारि—वेच्चोइस० । अणु०
सव्वलो० । दोआउ० खेत्तभंगो । मणुसाउ० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोगस्स असंखे०
सव्वलो० । णिरयगदिदुगं वेउच्चि०—वेउच्चि०—अंगो० उक्क० अणु० छच्चत्तारि—वे

प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयका भङ्ग ओघके समान है । अचनुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—असंयतोंमें एकेन्द्रियोंसे लेकर चतुर्थगुणस्थान तकके जीव गर्भित हो जाते हैं; इसलिए जिन प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है और जिनका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ मत्स्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग बन जाता है । मात्र जिन प्रकृतियोंके स्पर्शनमें विशेषता है उनका अलगसे निर्देश किया है । यथा—असंयतोंमें छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध असंतसम्यग्दृष्टि जीव करते हैं और इनका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंका उक्त पदकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा । तथा इनका एकेन्द्रिय जीवोंके भी बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार वैक्रियिकपट्टक आदिका अपनी-अपनी विशेषता जानकर ओघके समान यहाँ स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

३२. तीन लेश्याओमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्वित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद और तिर्यञ्चगति आदि एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियों तथा नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकषायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, चार सस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगतिद्विक, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया

चोदस०^१ । देवगतिद्विगं तित्थ० खेत्तभंगो । पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ० ओघं ।
उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचो० । अणु० अब्वलो० ।

३३. तेउए पंचणा०-थीणगि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णचुंस०-
तिरिक्ख०-एइंदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । छदंस०-

देवगतिद्विक तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका भङ्ग ओघके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तीन लेश्यावाले संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव स्वस्थानमें और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । यहाँ छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते समय लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही स्पर्शन देखा जाता है । कारणका विचार अलग-अलग स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । कृष्णादि लेश्याओंका स्पर्शन क्रमसे त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण उपलब्ध होता है । मारणान्तिक समुद्घातके समय इतने क्षेत्रका स्पर्शन करते समय इनमें खीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका उक्त पदकी अपेक्षा उक्त-प्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार नरकगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके दोनों पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । दो आयुओंका दोनों पदोंकी अपेक्षा और मनुष्यायुका उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका स्वस्थानमें ही बन्ध होता है और नरकायु व देवायुका चतुरिन्द्रिय तकके जीव बन्ध नहीं करते । मनुष्यायुका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है । यहाँ देवगतिद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि देवगति द्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भवनत्रिकमें यदि मारणान्तिक समुद्घातके समय भी करें तो यह स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । तथा इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक तो मनुष्य करते हैं । दूसरे नरकमें यद्यपि इसका बन्ध होता है और मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इसका बन्ध सम्भव है फिर भी ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता । यहाँ परघात आदिके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके समान बन जानेसे वह ओघके समान कहा है । यहाँ ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

३३. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-
बन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और पाँच

१ ता० प्रतौ 'वेउ० अंगो०... 'छत्तारि-बेचो०' इति पाठः ।

अपचक्रखाण०४-छण्णोक० उक्क० [अट्ट । अणुक्क०] अट्ट-णव० । पचक्रखाण०४ उक्क०
दिवड्डुचो० । अणु० अट्ट-णव० । चदुसंज० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ट-णव० ।
इत्थि०-पुरिस०-चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर०-[उच्चा०] उक्क०
अणु० अट्टुचो० । एवं मणुसगदिदुगं । दोआउ० उक्क० अणु० अट्टुचो० । देवाउ०-
आहारदुगं उक्क० अणु० खेत्तभंगो । देवगदि०४ उक्क० अणु० दिवड्डुचो० । पंचिदि०-
समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभगादितिण्णि० उक्क० दिवड्डुचो० । अणु० अट्टुचो० ।
तित्थि० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टुचो० । एवं पम्पाए । णवरि सगफोसणं णादूण
णेदव्वं । एवं सुक्काए वि । णवरि पंचणाणावरणादिपढमदंडओ उक्क० खेत्तभंगो ।
अणु० छच्चोद० । सेसाणं अप्पणो फोसणं णेदव्वं । भवसि० ओघो ।

अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और
कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्याना-
वरणचतुष्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़
बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।
तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ
बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार संस्थान, औदारिकशरीर
आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुःस्वर और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । इसी प्रकार मनुष्यगतिद्विककी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । दो आयुका उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-
वाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस और सुभग आदि तीनका उत्कृष्ट
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना स्पर्शन जानकर ले जाना चाहिए । तथा इसी प्रकार शुक्ल-
लेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथमदण्डकका
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध
करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया

३४. सासणे० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-सोलसक०^१-अट्टणोक०-
तिरिक्ख०-चदुसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूमग-दुस्सर-अणादे०-
णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-वारह० । णवरि दोवेद० संठाणं संघडणं अप्पसत्थ०
उक्क० अणु० अट्ट० एकारह० । दोआउ० मणुसगदिदुगं उच्चा० उक्क० अणु० अट्टचो० ।
देवाउ० खेत्तभंगो । देवगदि०४ दोपदा पंचचो० । पंचिदियादिअट्टावीसं० उ०

है । शेष प्रकृतियोंका अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए । तथा भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंका देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है । जिनका देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा जिनका मनुष्य और तिर्यञ्च या केवल मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं उनका उस पदकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । यहां चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवायुका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता और आहारकद्विकका अप्रमत्तादि जीव बन्ध करते हैं, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका भी उक्त पदकी अपेक्षा क्षेत्रके समान स्पर्शन कहा है । पीतलेश्यामें यह जो स्पर्शन कहा है वह पद्मलेश्यामें भी बन जाता है । मात्र यहाँ कुछ कम डेढ़ राजुके स्थानमें कुछ कम पाँच राजु स्पर्शन कहना चाहिए । तथा त्रसनालीका कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहना चाहिए । शुक्ललेश्यामें भी इसी प्रकार अपना स्पर्शन जान कर घटित कर लेना चाहिए । मात्र इसमें पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओघके समान होनेसे इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । भव्योंमें ओघके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

३४ सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, सोलह कपाय, तिर्यञ्चगति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि दो वेद, संस्थान, संहनन, और अप्रशस्त विहायोगतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगति चतुष्कके दो पदवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने

पंचचो० । अणु० अट्ट-बारह० । गवरि पंचिदि०-[समचट्टु०-] पसत्थ०-तस-सुभग-
सुस्सर-आदे०.[उ०] पंचचो० । अणु० अट्ट-एकारह० ।

३५. सम्मामि० पंचणाणावरणादिध्रुवियाणं पढमदंडओ दोवेद०-चउणो-
कपाय० उक्क० अणु० अट्टचो० । देवगदि०४ खेत्तभंगो । पंचिदियादिअट्टावीसं
उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्टचो० ।

त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वका स्वस्थानविहारकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। यहाँ प्रथम दण्डककी अपेक्षा दोनों पदोंका यह स्पर्शन बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र दो वेद, चार संस्थान, पाँच संहनन और अप्रशस्त विहायोगातिका बन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय भी दो आयु आदिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं जो कि देवोमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इन प्रकृतियोंका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोके स्वस्थानमें तथा एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ व कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। मात्र पञ्चेन्द्रियजाति आदि निर्दिष्ट कुछ प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है।

३५ सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका तथा दो वेदनीय और चार नोकपायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगति-चतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—यहाँ देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पद

३६. सण्णि० पंचिदियमंगो । असण्णीसु^१ पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छं-
सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खगदि-एइंदि०संजुत्ताणं यावणीचा०-पंचंत० उक्क० लोगस्स
असंखे० सव्वलो० । [अणु० सव्वलो० ।] सेसाणं उक्क० अणु० खेत्तमंगो । णवरि
उज्जो०-जस० उक्क० सत्तचो० । अणु० सव्वलो० ।

३७. आहार० ओघं । अणाहारगेषु पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छं-
अणंताणु०४-णवुंस०-पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ-णीचा०-पंचंत० उ० वारह० ।

और पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अनुत्कृष्ट पद सम्भव है, इसलिए इनका उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ प्रथम दण्टककी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बाहर कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगतिपञ्चक, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय। तथा इनमें दो वेदनीय और चार नोकपाय भी सम्मिलित कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके भी सम्भव है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि प्रकृतियोंके हैं—पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आद्य और निर्माण।

३६. संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति और एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियोंसे लेकर नीचगोत्र और और पाँच अन्तरायतककी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इनकी विशेषता है कि उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—स्पर्शन स्वरूपणामें जो पञ्चेन्द्रियोंमें स्पर्शन कह आये हैं वह संज्ञियोंमें अधिकल बन जाता है, इसलिए संज्ञियोंमें पञ्चेन्द्रिय जीव ही पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं और उनका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका एकेन्द्रियादि सब जीव बन्ध करते हैं, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके सिवा शेष जितनी प्रकृतियों हैं इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है ऐसा कहनेका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकृतिका दोनों पदोंकी अपेक्षा जो क्षेत्र यतलाया है वह यहाँ स्पर्शन जानना चाहिए। मात्र उद्योत व यशःकीर्तिके स्पर्शनमें क्षेत्रसे विशेषता है, इसलिए इसका उल्लेख अलगसे किया है।

३७. आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। अनाहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका

१. ता० प्रती 'सण्णि [यास.....य मंग। अ] सण्णीसु' इति पाठः ।

२. आ० प्रती 'पंचंत० वारह०' इति पाठः ।

अणु० सव्वलोगो । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक०-[उच्चा०] । उक्क० छच्चो० । अणु०^१
सव्वलो० । .सेसाणं उ० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । णवरि इत्थि०-चदुसंठा०-
पंचसंव०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० एकारह० । अणु० सव्वलो० । उज्जो०-जस०
उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । देवगदिपंच० उक्क० अणु० खेत्तभंगो ।

३८. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० दोआउ०-आहार०२ जह०

कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशास्त विहायगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी जीव करते हैं, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ! इस स्पर्शनमें हमें कार्मणकाययोगी जीवोंमें कहे गये स्पर्शनसे दो विशेषताएँ दिखलाई दे रहीं हैं—एक तो वहाँ 'णवरि' कहकर मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो यहाँ नहीं कहा है । दूसरे वहाँ परघात, पर्याप्त, स्थिर और शुभ इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भाग प्रमाण कहा है जो यहाँ त्रसनाली का कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । इन दो विशेषताओंका क्या कारण हो सकता है वही यहाँ देखना है । यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है कि कार्मणकाययोगमे स्पर्शन कहते समय मिथ्यात्व आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका ऊपर कुछ कम पाँच राजु स्पर्शन विवक्षित रहता है और यहाँ वह कुछ कम छह राजु विवक्षित कर लिया गया है । तथा स्वामित्व प्ररूपणामें परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीन गतिका संज्ञी जीव करता है इस अभिप्रायको ध्यानमें रखकर कार्मणकाययोगमें इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है यह कहा है और यहाँपर इनके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी चारों गतिका जीव होता है ऐसा मानकर स्पर्शन कहा है । इन पाँच ज्ञानावरणादिका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । शेष स्पर्शनका स्पष्टीकरण जैसे कार्मणकाययोगके समय किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । तथा समचतुरस्र संस्थान आदिके सम्बन्धमें जो विशेषता कही है उसे भी जान लेनी चाहिए ।

३८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दो

१. ता० प्रती 'सत्तणोक० उ० छच्चो० अणु०' आ० प्रती 'सत्तणोक० अणु०' इति पाठः ।

२. आ० प्रती 'सेसाणं खेत्तभंगो' इति पाठः ।

अजह० केवडियं खेत्तं फोसिदं ? खेत्तभंगो । मणुसाउ० जह० लोगस्स असंखे०
 सव्वलो० । अजह० अट्टुचो० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु० जह० खेत्तभंगो ।
 अजह० छ्चोद० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० जह० खेत्तभंगो । अजह०
 बारह० । तित्थ० जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्टुचो० । सेसाणं सव्वपगदीणं जह०
 अजह० सव्वलो० । एवं ओघभंगो कायजोगि-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-
 असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-आहारग ति णेद्व्वं । णवरि णवुंस० तित्थ०
 खेत्तभंगो । मदि-सुद० वेउव्वियल्ल० जह० खेत्तभंगो । अजह० पगदिभंगो । एवं
 अब्भवसि०-मिच्छा० ।

आयु और आहारक द्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्विका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि और आहारक जीवोंमें ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें वैक्रियिकपट्टकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग प्रकृतिबन्धके समान है । इसी प्रकार अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकायु और देवायुका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । तथा आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत आदि जीव करते हैं, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण बन जानेसे यह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंके भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध क्रमसे असंज्ञी जीव और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ मनुष्य योग्य सामग्रीके सद्भावमें करते हैं । यतः इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध क्रमसे नरकमें और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे

३६. णेरइएसु दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ०-उच्चा० जह० अजह० खेतभंगो । सेसाणं जह० खेतभंगो । अजह० छच्चोद० । एवं सन्वणेरइमाणं अप्पप्पणो फोसणं णेद्व्वं ।

४०. तिरिक्खेसु ओघं । पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिणिसरीर-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूमग-अणादे०-अजस०-णिमि०णोचा०-पंचंत० जह० खेतभंगो । अजह० लोग० असंखे०

चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । वैक्रियिकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी देवगतिद्विकके समान है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव और नारकी जीव करते हैं पर ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इसका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इस ओघप्ररूपणके समान काययोगी आदि अन्य मार्गणाओंमें भी स्पर्शन बन जाता है, इसलिए इनमें ओघके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है । मात्र देव नपुंसक नहीं होते, इसलिए नपुंसकवेदी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे उसकी सूचना अलगसे की है । तथा मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें वैक्रियिकपट्टकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवालोंका स्पर्शन भी ओघके समान नहीं बनता, इसलिए उसे प्रकृतिबन्धके समान जाननेकी सूचना की है । तथा अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भी मत्यज्ञानीके समान ही स्पर्शन प्राप्त होता है, इसलिए इनमें भी मत्यज्ञानियोंके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है ।

३६. नारकियोंमें दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां दो आयु आदिके दोनों पदोंकी अपेक्षा और शेष प्रकृतियोंके जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहने का कारण स्पष्ट है । तथा शेष प्रकृतियोंका अजघन्य पद मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम बरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार प्रथमादि सब नरकोंमें अपना अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर लेना चाहिए ।

४०. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रितजाति, तीन शरीर, हुंडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

सन्त्रलो० । इत्थि० जह० खेत्तं । अजह० दिवड्डुचो० । पुरिस०-दोगदि-सम०-दोआणु०-
दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० ज० खेत्तं । अज० छच्चो० । चदुआउ०-मणुस०-
तिण्णिजादिणाम-चदुसं०-ओरा०अंगो०-छरसंध०-मणुसाणु०-आदाव० ज० अज०
खेत्तभंगो । पंचिं०-वेउ०-वेउ०अंगो०-तस० ज० खेत्तभंगो । अज० बारह० । उज्जो०-
जस० जह० खेत्तभं० । अजह० सत्तचो० । वादर० जह० खेत्तभंगो । अजह० तेरह० ।

तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेद, दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व ओघके समान है । तथा इन प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका ओघसे जो स्पर्शन कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यायुका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो ओघसे त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है सो यहाँ यह स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण ही जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चनिकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व यथायोग्य असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके होता है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण, होता है । यतः इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंमें क्षेत्र भी इतना ही होता है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहा सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंके स्पर्शनका स्पष्टीकरण सो वह इस प्रकार है—इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है । इनके इन दोनों अवस्थाओंमें पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले उक्त तिर्यञ्चोंका लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । इनके देवियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय स्त्रीवेदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । ऊपर कुछ कम छह राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय यथायोग्य पुरुषवेद आदि प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ।

४१. पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-
सोलसक०-सत्तणोक्क०-तिरिक्ख०-एइदि०-तिणिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-
अगु०४-थावर-सुहुम - पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते० - साधार०-थिराथिर - सुभासुभ-दूमग-
अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स असंखे०
सव्वलो० । उज्जो०-बादर-जस० जह० खेत्तभंगो । अज० सत्तचो० । सेसाणं
सव्वपगदीणं जह० अजह० खेत्तभंगो । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं सव्वविगल्लिदियाणं
बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वादरवणप्फदिपत्तेय०पज्जत्तयाणं च ।

चार आयु आदिका बन्ध करनेवाले उक्त तिर्यञ्च लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन करते है, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्घातके समय ऊपर कुछ कम छह और नीचे कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन कर सकते हैं, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय उद्योत और यशःकीर्तिका बन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । नीचे कुछ कम छह राजु और ऊपर कुछ कम सात राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय बादर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, अतः इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

४१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामी बतलाया है उसे देखते हुए इस अपेक्षासे स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्घात आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । उद्योत आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंके सिवा जो स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग और छह संहनन आदि प्रकृतियों शेष रहती हैं इनका

४२. मणुस०३ पढमदंडओ पंचिदियतिरिक्खभंगो । सेसाणं पि पंचिदिय-
तिरिक्खभंगो । णवरि केसिं चि वि रज्जू णत्थि । णवरि उज्जो०-बादर०-जसगि०
अजह० सत्तचोह० ।

४३. देवेषु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-
तिरिक्ख०-एइदि०-तिणिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-बादर-
पज्जत्त-पत्ते०-थिरादितिणियुग०-दूभग-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचत० जह० खेत्त-
भंगो । अजह० अट्ट-णव० । सेसाणं जह० खेत्तभंगो० । अजह० अट्ट० । दोआउ०
जह० अजह० अट्टचो० । एवं सच्चदेवाणं अप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

बन्ध यथासम्भव स्वस्थानमें और नारकियों व देवोंके सिवा शेष त्रसोंमें मारणान्तिक समुद्धात
आदि के समय ही सम्भव है । यतः इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पर्शन लोकके असंख्यातवें
भागसे अधिक नहीं होता, अतः इन प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
भी क्षेत्रके समान कहा है ।

४२. मनुष्यत्रिकमें प्रथम दण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका
भङ्ग भी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्हीं भी प्रकृतियोंका स्पर्शन
रज्जुओंमें नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका अजघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है ।

विशेषार्थ—लब्धपर्याप्तक मनुष्य देवों और नारकियोंमें जाते नहीं और गर्भज मनुष्य
संख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्योंमें स्त्रीवेद, पुरुषवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, दो शरीर,
समचतुरस्रसंस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगति, आतप, सुभग,
दो स्वर, त्रस, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
राजुओंमें प्राप्त न होनेसे उसका निषेध किया है । मात्र उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका अजघन्य
प्रदेशबन्ध करनेवाले उक्त मनुष्योंका स्पर्शन राजुओंमें प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसका अलगसे
विधान किया है । शेष कथन सुगम है ।

४३. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात
नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी,
अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय, निर्माण,
नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयुओं का अजघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले
जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
सब देवोंका अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें दो आयुओंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध भवके
प्रथम समयमें अपनी-अपनी योग्य सामग्रीके सद्भावमें होता है, इसलिए इनका उक्त पदकी
अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध विहारवत्स्वस्थान और
एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य

४४. एइंदि०-पुठवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद-सव्वबादराणं च सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । णवरि बादरएइंदिय-पज्जत्तापज्ज० जह० लोगस्स संखेज्ज० । अजह० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स संखेज्ज० । मणुसाउ० सव्वाणं जह० ओघं । अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । मणुसगदि-तिगं च जह० अजह० लोगस्स असंखे० । एवं बादरवाऊणं बादरवाउ०अपज्जत्तायाणं च । णवरि मणुसगदिचदुक्कं वज्ज । एवं बादरपुठविकाइगादीणं एइंदियसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखे० । अजह० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० खेत्तभंगो । सव्वबादराणं उज्जो०-बादर०-जस० जह० खेत्तभंगो । अजह० सत्तचो० । सव्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । णवरि मणुसाउ० जह० अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो० ।

प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौबटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात आदिके समय सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका तथा दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष देवोंमें इसीप्रकार अपना-अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । विशेषता न होनेसे उसका अलग-अलग निर्देश नहीं किया है ।

४४. एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और सब बादर जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त व अयर्थाप्त जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यायुका सब जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगतित्रिकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार बादर वायुकायिक और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए । इसीप्रकार बादर पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सब बादर जीवोंमें उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

४५. पंचिदि०-तस०२ सव्वपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह० पगदिफोसणं कादव्वं ।

४६. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोको - तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरा०सरीर^१-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० अट्ट० । अजह० लोगस्स असंखे० अट्टचो० सव्वलोगो वा । इत्थि०-पुरिस०- [पंचिदि०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-खस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० जह० अट्ट० । अजह० अट्ट-बारह० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहार०२ जह० अज० खेत्तभंगो । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थि०-उच्चा० जह० अजह०

विशेषार्थ—यहाँ एकेद्रियादि उक्त मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व और अपना-अपना स्पर्शन आदि जानकर सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन मूलमें कहे अनुसार घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ उसका अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

४५. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिबन्धके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—चार आयुओंका बन्ध मारणान्तिक समुद्रात आदिके समय सम्भव नहीं और शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध भवके प्रथम समयमें अपनी-अपनी योग्य सामाग्रीके सद्भावमें होता है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा सब प्रकृतियोंका प्रकृतिबन्धके समय जो स्पर्शन प्राप्त होता है वह यहाँ उनका अजघन्य प्रदेशबन्धकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए उसे प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान जाननेकी सूचना की है ।

४६. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिक-शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर अङ्गीपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारहबटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका

अद्भुतो० । दोगदि-दोआणु० जह० खेत्तभंगो । अजह० छच्चो० । वेउव्वि०-वेउव्वि०-
अंगो० जह० खेत्तभंगो । अजह० बारह० । तेजा०-क० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स
असंखे० अद्भु० सव्वलो० । उज्जो०-बादर०-जस० जह० अद्भु । अजह० अद्भु-तेरह० ।
सुहुम-अपज्ज०साधार० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो० ।

स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्विका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर अङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तैजसशरीर और कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उक्त योगोमें पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध देवोंमें विहारवत्त्व-स्थानके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा स्वस्थान, विहारवत्त्वस्थान और मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनका लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । विहारवत्त्व-स्थानके समय स्त्रीवेद आदिका भी जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । आगे जिन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा विहारवत्त्वस्थानके समय तो इन स्त्रीवेद आदिका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है ही* । साथ ही [नारकियों और देवोंके तिर्यञ्चो और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । दो आयु आदिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय भी तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु आदि प्रकृतियोंके दोनो पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका क्रमसे नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीवोंके अजघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । वैक्रियिकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें

४७. वचि०-असच्च०वचि० पंचणाणावरणादिपढमदंडओ मणजोगिभंगो ।
णवरि तेजा०-क० सह तेण जहणं खेत्तभंगो । अजह० अट्ट० सव्वलो० । विदिय-
दंडओ मणजोगिभंगो । जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्ट-बारह० । तदियदंडओ चउत्थ-
दंडओ मणजोगिभंगो । जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्टचो० । [पंचम-छट्टदंडओ
मणजोगिभंगो] । उज्जो०-बादर-जस० जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्ट-तेरह० । सुहुम-
अपज्ज०-साधार० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स असखे० सव्वलो० । तित्थ०

भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोंमें और नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तैजसशरीर और कार्मण शरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा स्वस्थान, विहारवत्त्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय उद्योत आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय और नारकियोंमें व एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । सूक्ष्म आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके समय ही सम्भव है, इसलिए ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है ।

४७. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकको तैजस-शरीर और कार्मणशरीरके साथ कहना चाहिए, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । द्वितीय दण्डक भी मनोयोगी जीवोंके समान लेना चाहिए । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तृतीय दण्डक और चतुर्थदण्डकका भङ्ग [मनोयोगी जीवोंके समान है । मात्र जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चम दण्डक और षष्ठ दण्डक मनोयोगी जीवोंके समान है । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

जहं० अजहं० अट्टचो० ।

४८. ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारग ति ओधं । वेउ-
व्वियका० सव्वपगदीणं० जहं० खेत्तभंगो । अजहं० अप्पप्पणो पगदिफोसणं
पोदव्वं । दोआउ० जहं० अजहं० अट्टचो० । वेउव्वि०मि०-आहार०-आहारमि०-
अवगद०-मणपज्ज०-संजद-सामाई०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० खेत्तभंगो । इत्थि०-पुरिस०
जहं० खेत्तभंगो । अजहं० अप्पप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं ।

४९. विभंगे पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणो०-
तिरिक्ख०-एइंदि०-तिण्णिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-पज्जत्त-
पत्ते०-थिरादिदोयुग०-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जहं० अट्ट० ।
अजहं० अट्ट० सव्वलो० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिंदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-

तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—इन दोनों योगोंमें पाँच ज्ञानावरणादि जिन प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व द्वीन्द्रिय जीवोंके होता है उन सब प्रकृतियोंका जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष स्पर्शन मनोयोगी जीवोंके समान ही है ।

४८. औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ओधके समान भङ्ग है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान ले जाना चाहिए । दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानो, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धि संयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें जघन्यका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओंमें जहाँ जिसके समान स्पर्शन कहा है उसे देख कर वह घटित कर लेना चाहिए ।

४९. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क; तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि दो युगल, दुर्भंग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर

छहसंघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० जह० अट्ट० । अजह० अट्ट-वारह० ।
दोआउ०-तिण्णिजादि० जह० अज० खेत्तभंगो । दोआउ०-मणुस०-मणुसमणु०-आदाव-
उच्चागोद० जह० अज० अट्टचो० । णिरय०-णिरयाणु० जह० खेत्तभंगो । अजह०
ल्लचोद० । देवगदि-देवाणु० जह० खेत्तभंगो । अजह० पंचचो० । वेउच्चि०-वेउच्चि०-
अंगो० जह० खेत्तभंगो । अजह० एक्कारह० । उज्जो०-बादर-जस० जह० अट्ट० ।
अजह० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपञ्ज०-साधार० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स
असंखे० सव्वलो० ।

५०. आभिणि०-सुद०-ओधि० मणुसाउ०^१ जह० अजह० अट्टचो० । सेसाणं

आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, तस, सुभग, दो स्वर और आदेयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और तीन जातिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति और नरक-गत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति और देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सूद्धम, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—मनोयोगी जीवोंमें पहले स्पर्शनका स्पष्टीकरण कर आये है । उसीके प्रकाशमें यहाँ भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । मन्त्र देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका बन्ध करनेवाले जीव यहाँ ऊपर पाँच राजुके भीतर स्पर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ देवगतिद्विकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है और वैक्रियिकद्विकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

५०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका

जह०^१ खेत्तभंगो । अजह० अप्पप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं । एवं ओधिदं०-सम्मा०-
खइग०-वेदग० ।

५१. संजदासंजदेसु असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० अजह०
छच्चो० । देवाउ०-तित्थ० ज० अजह० खेत्तभंगो । सेसाणं जह० खेत्तभंगो । अजह०
छच्चो० ।

५२. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । किण्ण०-णील०-काउ० तिरिक्खोघं । णवरि
वेउच्चियल्लक्कं तित्थ० जह० खेत्तभंगो । अजह० पगदिफोसणं कादव्वं । तेउ-पम्म-
सुक्काए सच्चपगदीणं आउगवज्जाणं च खेत्तभंगो । अजह० अप्पप्पणो पगदिफोसणं
कादव्वं । दोआउ० जह० अजह० अडु० सुक्काए छच्चो० ।

स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियों का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें विहारवत्त्वस्थानके समय भी मनुष्यायुका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

५१. संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्तिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—असातावेदनीय आदिका देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । इसी प्रकार देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनका जघन्य प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनका जघन्य पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका दोनों पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है ।

५२. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कपोतलेश्यामें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकषट्क और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । पीतलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्यामें आयुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने पीत और पद्मलेश्यामें त्रसनालीका कुछ कम

५३. उवसम० देवगदिपंचगं आहारदुगं जह० अजह० खेत्तभंगो । सेसाणं जह खेत्तभंगो । अजह० अट्ट० । सासणे सच्चपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह० अप्पणो पगदिफोसणं कादच्चं । दोआउ० देवभंगो । सम्मामि० देवगदि०४ जह० अजह० खेत्तभंगो । सेसाणं जह० अजह० अट्टचो० ।

५४. सण्णीसु सच्चपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह० अप्पणो पगदिफोसणं कादच्चं । असण्णीसु सच्चपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह पगदिफोसणं णेदच्चं ।

एवं फोसणं समत्तं ।

आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका तथा शुक्ललेण्यामे त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र अपने-अपने स्पर्शनको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । जहो जो विशेषता कही है उसे स्वामित्व देखकर जान लेनी चाहिए ।

५३. उपशमसम्यक्त्वमें देवगतिपञ्चक और आहारकद्विकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सासादनसम्यक्त्वमे सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगति चतुष्कका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वमें देवगति चतुष्कका प्रदेशबन्ध भी मनुष्य ही करते हैं, इसलिए देवगतिपञ्चक और आहारकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका यही कारण है । शेष स्पर्शन स्पष्ट ही है ।

५४ संज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए । असंज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—संज्ञी और असंज्ञी इन दोनों मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामित्व बतलाया है उसे देखते हुए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन उनके प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रकृतिबन्ध जघन्य या अजघन्य प्रदेशबन्धको छोड़कर नहीं हो सकता । उसमें भी जघन्य प्रदेशबन्ध नियत सामग्रीके सद्भावमें ही होता है, अन्यत्र तो अजघन्य प्रदेशबन्ध अधिक सम्भव होनेसे दोनोंका स्पर्शन एक समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

कालपरूवणा

५५. कालं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघे०आदे० । ओघे० पंचणा०—चदुदंस०—सादा०—चदुसंज०—पुरिस०—आहारदुग—जस०—तित्थ०—उच्चा०—पंचंत० उक्कस्सपदेसबंधकालो केव०? जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अणु० पदे० बं० केव० ? सव्वद्धा । सेसाणं सव्वपगदीणं उक्क० पदे० बं० केव० ? जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० सव्वद्धा । तिण्णिआउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० पदे० बं० ज० ए०, उक्क० पलि० असंखे० । एवं ओघभंगो पंचिदि०—त्तस०२—पंचमण०—पंचवचि०—कायजोगि—ओरालि०—इत्थि०—पुरिस०—णवुंस०—कोधादि०४—आभिणि०—सुद०—ओधि०—चक्खु०—अचक्खु०—ओधिदं०—भवसि०—सम्मा०—खइग०—उवसम०—सण्णिआहारग ति । णवरि विसेसो जाणिय वत्तव्वं । तेसिं ओघभंगो चेव । णवरि इत्थि०—पुरिस० चदुदंस०—चदुसंज०—पुरिस०—आहारदुग—जस०—तित्थ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जस० । अणु० सव्वद्धा । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० सव्वद्धा । एवं णवुंस०—कोधादि०३ ।

कालपरूवणा

५५ काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, आहारकद्विक, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है । शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, भ्रूय, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस मार्णणामें जो विशेषता हो उसे जानकर कहना चाहिए । यद्यपि उनमें ओघके समान ही भङ्ग है फिर भी स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, आहारकद्विक, यशःकीर्ति और तीर्थङ्करप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी और क्रोधादि तीन कषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए ।

५६. गिरएसु सव्वाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अणु० सव्वद्धा । तिरिक्खाउ० उक्क० णाणावरणभंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । मणुसाउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

*विशेषार्थ—*ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध श्रेणिप्रतिपन्न जीव अपनी-अपनी योग्य सामग्रीके सद्भावमें करते हैं और श्रेणि आरोहणका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इन पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव करते हैं। यद्यपि आहारकद्विक और तीर्थङ्करका एकेन्द्रियादि जीवोंके बन्ध नहीं होता फिर भी इनका भी बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं, अतः इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। तीन आयुओंको छोड़कर अब रहीं शेष प्रकृतियाँ सो उनका कम-से-कम एक समय तक और अधिक-से-अधिक असंख्यात समय तक उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है इसलिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र तीन आयुओंका निरन्तर सर्वदा बन्ध सम्भव नहीं है। हाँ इनका एक जीवकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और शेष प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सर्वदा सम्भव होनेसे वह सर्वदा कहा है। यह ओघप्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय आदि मार्गणाओंमें बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र तीनों वेदधाले और क्रोधादि तीन कषायवाले जीवोंमें सूक्ष्मसाम्परायणगुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व बदल जाता है, इसलिए इनमें इन दस प्रकृतियोंको शेष प्रकृतियोंके साथ गिना है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

५६. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल ज्ञानावरणके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सब पृथिवियोंमें जानना जाहिए।

*विशेषार्थ—*नारकी असंख्यात होते हैं। उनमें यह सम्भव है कि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समय तक हो और द्वितीयादि समयोंमें उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला एक भी जीव न हो। तथा यह भी सम्भव है कि लगातार नाना जीव सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते रहें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं, इसलिए यहाँ मनुष्यायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट

५७. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्मणं उक्कं जहं एगं, उक्कं आवलिं असंखे० । अणु० सव्वद्वा । चटुण्णमाउगाणं ओघं । एवं सव्वणं अणंतरासीणं । एसिं असंखेज्जरासी तेसिं णिरयभंगो । एसिं संखेज्जरासी तेसिं आहारसरीरभंगो । णवरि एहंदिएसु सव्वविगप्पा सत्तणं कं उक्कं अणु० सव्वद्वा । दोआउ० ओघं । एवं वणप्फदि—णिगोद—सव्वसुहुमाणं बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्फदि—पत्ते०अपज्जत्तयाणं च । पुढवि०-आउ०-तेउ०वाउ० तेसीए बादरा तिरिक्खओघं^१ । तेसिं बादरपज्जत्तगाणं पंचिंदियतिरिक्खंअपज्जत्तभंगो ।

काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इनसे मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । अब रहा अनुत्कृष्टका विचार सो तिर्यञ्चायुका बन्ध एक साथ और लगातार असंख्यात जीव कर सकते हैं और एक जीवकी अपेक्षा इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले नाना जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि असंख्यात अन्तर्मुहूर्तके कालका योग पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है । तथा मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसलिए इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इन दो प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । सातों पृथिवियोंमें इसी प्रकार काल बन जानेसे उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

५७. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब अनन्त राशियोंमें जानना चाहिए । जिन मार्गणाओकी असंख्यात राशि है उनमें नारकियोंके समान भङ्ग है । तथा जिन मार्गणाओकी संख्यात राशि है उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंके सब भेदोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है । दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार वनस्पति, निगोद और सब सूक्ष्म जीवोंमें तथा बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वायुकायिक अपर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और उनके बादरोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । तथा उनके बादर पर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धके जो जीव स्वामी बतलाये हैं वे कमसे कम एक समय तक उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करें यह भी सम्भव है और लगातार अनेक जीव क्रमसे यदि उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं । इसके बाद नियमसे अन्तर काल आ जाता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । चार आयुओंका उत्कृष्ट

१. ता० आ० प्रत्योः 'बादरा ओघं' इति पाठः ।

५८. जहणए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० दोआउ० जह० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अजह० जह० एग०, उक० पलिदो० असंखे० । मणुसाउ० जह० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अजह० जह० अंतो०, उक० पलिदो० असंखे० । गिरयगदि-गिरयाणु० जह० जह० एग०, उक० आवलि० असंखे० । अजह० सव्वद्धा । देवगदि०४-आहार०२-तित्थ० जह० जह० एग०, उक० संखेजस० । अजह० सव्वद्धा । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असणिण-आहार०-अणाहारग ति । णवरि मदि-सुद०-अभवसि०-मिच्छा०-असणिण० देवगदि०४ गिरयगदिभंगो ।

और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो काल ओघसे घटित करके बतला आये हैं वह तिर्यञ्चोंमें भी बन जाता है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। आगे अनन्त संख्यावाली अन्य जितनी मार्गणाएँ हैं, जिनमें ओघ प्ररूपणा नहीं बनती, उनमें तिर्यञ्चोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र एकेन्द्रियोंमें और उनके सब भेदोंमें सात कर्मोंके दोनों पदवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए उनमें इनका काल सर्वदा कहा है। वनस्पति आदि आगे और जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी एकेन्द्रियोंके समान काल बन जाता है, इसलिए एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। तथा असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओं और बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त आदि चारोंमें नारकियोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। यहां यद्यपि पृथिवीकायिक आदिमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है पर उसका अभिप्राय पूर्वाक्त ही है। शेष कथन सुगम है।

५८ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे दो आयुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्विका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। देवगतिचतुष्क, आहारकट्टिक और तीर्थङ्करका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें देवगतिचतुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान है।

५६. सेसाणं उक्कस्सभंगो । णवरि परिमाणे यम्हि असंखेज्जा रासी तम्हि आवलि० असंखेज्जदिभागो । यम्हि संखेज्जरासी तम्हि संखेज्जसमयं । यम्हि अणंतरासी तम्हि सव्वद्दा । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्तेयपज्जत्तयाणं च उक्कस्स-भंगो । सेसा विगप्पा सव्वद्दा ।

एवं कालं समत्तं ।

अंतरपरूवणा

६०. अंतरं दुविधं-जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपदीणं उक्कस्सपदेसबंधतरं केवचिरं०? जह० एण०, उक्क० सेठीएअसंखे० । अणु० पगदिअंतरं कादव्वं । एस भंगो याव अणाहारग ति । णवरि सव्वएइंदियाणं मणुसाउ० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० णत्थि अंतरं । एवं वणप्फदि-णियोदाणं

विशेषार्थ—नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके मध्यमें भी हो सकता है, इसलिए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह एक समय कहा है । पर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध त्रिभागके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष काल जैसा उत्कृष्टके समय घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार अपने-अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । मत्स्यज्ञानी आदि चार मार्गणाओंमें देवगतिचतुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले लगातार असंख्यात जीव सम्भव हैं, इसलिए इनमें इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण नरकगतिके समान बन जाता है ।

५६. शेष मार्गणाओंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिनमें परिमाण असंख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है और जिनका परिमाण संख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा जिनका परिमाण अनन्त है उनमें सर्वदा काल है । बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । शेष विकल्पोंमें सर्वदा काल है ।

विशेषार्थ—यहाँ स्वाभित्व को देखकर मूलमें कहे अनुसार काल घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूवणा

६० अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना अन्तर है? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान करना चाहिए । यह भङ्ग अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका

सव्यसुहृमाणं । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादराणं पत्तेग० ओधं ।
तेसिं च बादरअपज्ज०-पत्तेगअपज्ज० एइंदियभंगो ।

६१. जहण्णए पगदं । दुयि०-ओधे० आदे० । ओधे० तिण्णिआउ०-वेउत्तिय-
छक्क-आहारदुग-तित्थ० जह अजह० उक्कस्सभंगो । सेसाणं जह० अजह० णत्थि
अंतरं । एवं ओधभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-
णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-
मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग त्ति । सेसाणं अप्पण्णो उक्कस्संतरं कादव्वं ।

एवं अंतरं समत्तं ।

अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार वनस्पतिकायिक, निगोद और सब सूक्ष्म जीवोंमें जानना चाहिए । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बादर तथा प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इनके बादर अपर्याप्तक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध जिस योगसे होता है वह एक समयके अन्तर से भी हो सकता है और सब योगस्थानोंके क्रमसे हो जाने पर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर जिस प्रकृतिबन्ध का जो अन्तर है उतना है यह स्पष्ट ही है । इस प्रकार यह अन्तर कथन अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । किन्तु एकेन्द्रियादि कुल मार्गणाओमें फरक है जो अलगसे कहा है ।

६१ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर उत्कृष्टके समान है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर काल नहीं है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें अपने-अपने उत्कृष्टके समान अन्तर करना चाहिए ।

विशेषार्थ—तीन आयु आदिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य असंख्यात और संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्टके समान भङ्ग बन जाता है । पर शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध अनन्त जीव करते हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंका अन्तर काल नहीं बननेसे उसका निषेध किया है । यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाए गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । इनके सिवा शेष जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें अपने-अपने उत्कृष्टके समान प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उसे उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

भावपरूवणा

६२. भावं दुविधं—जहण्यं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं उक्कस्साणुक्करसपदेसबंधग ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

६३. जहण्यं पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे०—सव्वपगदीणं जह० अजह० पदेसबंधग ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं । एवं भावो समत्तो ।

अप्पाबहुगपरूवणा

६४. अप्पाबहुगं दुविधं—सत्थाणप्पाबहुगं चैव परत्थाणप्पाबहुगं चैव । सत्थाण-प्पाबहुगं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा केवलणाणावरणीयस्स यं पदेसग्गं । मणपज्ज० उक्क० पदे० अणंतगुणं । ओधिणाणा० उक्क० पदे० विसे० । सुद० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० ।

६५. सव्वत्थोवा पयला० उक्क० पदे० । णिहाए' उक्क० पदे० विसे० ।

भावप्ररूपणा

६२. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रवेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कौन भाव है ? औद्यिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

६३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कौन भाव है ? औद्यिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्वप्ररूपणा

६४. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थानअल्पबहुत्व और परस्थानअल्पबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे केवलज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे अवधिज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

६५. प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष

पयलापयला उक्क० पदे० विसे० । णिहाणिहाए' उक्क० पदे० विसे० । थीणगिद्धि० उक्क० पदे० विसे० । केवलदं० उक्क० पदे० विसे० । ओधिदं० उक्क० पदे० अणंतगुणं । अचक्खुदं० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उक्क० पदे० विसे० ।

६६. सच्चत्थोवा असाद० उक्क० पदे० । साद० उक्क० पदे० विसे० ।

६७. सच्चत्थोवा अपच्चक्खाणमाणे उक्क० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । पच्चक्खाणमाणे उक्क० पदे० विसे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । अणंताणु०माणे० उक्क० पदे० विसे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । मिच्छ० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० अणंतगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे० विसे० । रदि०-अरदि उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० संखेज्जगुणं० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० संखेज्जगु० ।

अधिक है। उससे प्रचलाप्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे स्त्यानगुद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।

६६. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।

६७. अप्रत्याख्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे अप्रत्याख्यानावरणक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणलोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी मानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे स्त्रीवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे मान-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक

६८. चतुर्णां आउगाणं उक्स्सपदेसग्गं सरिसं० ।

६९. सव्वत्थोवा गिरयगदि-देवगदि० उक्क० पदे० । मणुस० उक्क० पदे०
विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा' चतुर्णां जादिणामाणं उक्क०
पदे० । एइंदि० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । वेउव्वि०
उक्क० पदे० विसे० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । तेजा० उक्क० पदे० विसे० ।
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । आहार०-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । आहार०-
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । आहार-तेजा०-क० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्वि०-
तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्वि०-कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्विय०-
तेजा०-क० उक्क० पदे० विसे० । ओरालि०-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय-
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय०-तेजा०-क० उक्क० पदे० विसे० । तेजा०-
कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा चदुसंठा० उक्क० पदे० । समचदु०
उक्क० पदे० विसे० । हुंड० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा आहारंगो० उक्क० पदे० ।
वेउअंगो० उक्क० पदे० विसे० । ओराअंगो० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा

है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है ।

६८. चार आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्परमें समान है ।

६९. नरकगति-देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । चार जातियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारक-तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारक-कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारक-तैजस-कर्मण शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक-तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक-कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक-तैजस-कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिक-तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिक-कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिक-तैजस-कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजस-कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । चार संस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे समचतुरस्रसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हुण्डसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आहारकशरीर आज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । पाँच संहननका उत्कृष्ट

१ ता० प्रतौ 'गिरयग० । देवगदि० उ० प० मणुस० उ० प० मणुस० उ० प० (?) विसे० । सव्वत्थोवा' इति पाठः ।

पंचसंध० उक्क० पदे० । असंप० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा णील० उक्क० पदे० ।
 क्किण्ण० उक्क० पदे० विसे० । रुहिर० उक्क० पदे० विसे० । हालिह् उक्क० पदे०
 विसे० । सुक्किलणामा० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा दुगंधणामाए उक्क० पदे० ।
 सुगंधणामाए उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा कडुक० उक्क० पदे० । तित्थणामा०
 उक्क० पदे० विसे० । कसिय० उक्क० पदे० विसे० । अंबिल० उक्क० पदे० विसे० ।
 मधुर० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा मउग-लहुगणामाए उक्क० पदे० । कड-
 गरुगणामाए उक्क० पदे० विसे० । सीद-लुक्खणा० उक्क० पदे० विसे० । णिद्ध-उसुणणा०
 उक्क० पदे० विसे० । यथा गदी तथा आणुपुव्वी । सव्वत्थोवा परघादुस्सा० उक्क०
 पदे० । अगुरुगलहुग-उवघाद० उक्क० पदे० विसे० । आदाउज्जो० उक्क० पदे०
 सरिसं । दोविहा० उक्क० पदे० सरिसं । सव्वत्थोवा तस-पज्जत्त० उक्क० पदे० ।
 थावर०-अपज्ज० उक्क० पदे० विसे० । वादर-सुहुम-पत्ते०-साधार० उक्क० पदे०
 सरिसं । सव्वत्थोवा थिर-सुभ-सुभग-आदे० उक्क० पदे० । अधिर-असुभ-दुभग-अणादे०
 उक्क० पदे० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पदे० सरिसं । सव्वत्थोवा अजस० उक्क०

प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे असम्प्राप्तासुपाटिका संहननका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । नील नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे कृष्णनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रुधिरवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हरिद्रवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शुक्लवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । दुर्गन्धनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे सुगन्धनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । कटुकरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तित्तरस नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कपायरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आम्लरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मधुरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । मृदु-लघुस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे कर्कश-गुरुस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शीत-रूक्षस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्निग्ध-उष्णस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । जिस प्रकार गतियोंका अल्पबहुत्व है उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व है । परघात और उच्छ्वासका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । अगुरुलघु और उपघातका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आतप और उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है । दो विहायोगतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है । त्रस और पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । स्थावर और अपर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है । स्थिर, शुभ, सुभग, और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । सुस्वर

१. ता० आ० प्रत्योः 'सव्वत्थोवा णिमि० उक्क०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'विसे० विसे० (?) । सव्वत्थोवा' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'उक्क० [विसे०] । कसिय०' इति पाठः । ४. ता० प्रतौ 'कडुगुरुग० णामाए उक्क० (उक्क० विसे०) । सीदलुक्खणा०' इति पाठः । ५. ता० प्रतौ 'णिग्ध (ङ) उसुणा णा०' आ० प्रतौ णीदउसुणणा०' इति पाठः ।

पदे० । जस० उक्क० पदे० संखेज्जगु० ।

७०. सव्वत्थोवा णीचा० उक्क० पदे० । उच्चा० उक्क० पदे० विसे० ।

७१. सव्वत्थोवा दाणंत० उक्क० पदे० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० ।

७२. णिरएसु पंचणा०—णवदंस०—पंचंत० ओघं । सव्वत्थोवा अपच्चक्खाण-
माणे उक्क० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे०
उक्क० पदे० विसे० । एवं पच्चक्खाण०४—अणंताणु०४ । मिच्छ०^१ उक्क० पदे० विसे० ।
भय० उक्क० पदे० अणंतगु० । दुगुं० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे०
विसे० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे० ।
पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माणसज०^२ उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उ० पदे०
विसे० । मायाए उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० प० विसे० ।

७३. दोगदी तुल्ला । सव्वत्थोवा ओरा० उक्क० प० । तेजाक० उक्क० पदे०

और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्परमें समान है । अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है ।

७०. नीच गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

७१. दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

७२. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आगे प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्त्रीवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुष-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मान संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभ संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

७३. दो गतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्परमें तुल्य है । औदारिक शरीरका उत्कृष्ट

१. ता० प्रतौ 'एवं पच्चक्खाण०४ अणंताणु०४ मिच्छ०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'उक्क० [विसे०] । माणसज०' इति पाठः ।

विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । संठाण-संघडण-वण्ण०४-दोआणु०^१-दोविहा०-
थिरादिछयुग० तुल्ला । दोआउ०-दोगोदाणं उक्क० पदे० विसे० । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

७४. तिरिक्खेसु सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । णामाणं ओघभंगो । णवरि
सव्वत्थोवा जस० उक्क० । अज० उक्क० विसे० । एवं सव्वपंचिंदियतिरिक्खाणं ।
पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तगेसु सत्तणं क० गिरयभंगो । णवरि मोहे० अण्णदरवेदे उ०
प० विसे० । सव्वत्थोवा मणुसग० । तिरि० उ० विसे० । एवं णामाणं ओघं ।
णवरि सव्वत्थोवा जस० । अज० उ० विसे० । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं सव्वएइंदि०
पंचकायाणं । मणुसाणं ओघं ।

७५. देवेसु सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि-
पाओग्गाओ णादव्वाओ । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति गिरयभंगो । आणद याव
उवरिमगेवज्जा त्ति गिरयभंगो । णामाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओघं । सरीरं णारग-

प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । छह संस्थान, छह संहनन, वर्णचतुष्क,
दो आनुपूर्वा, दो विहायोगति और स्थिर आदि छह युगलका अलग अलग उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
परस्परमें तुल्य है । दो आयु और दो गोत्रोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार
सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।

७४. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका
भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है ।
उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें
जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी
विशेषता है कि मोहनीयकर्ममें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । मनुष्यगतिका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इस
प्रकार नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी
प्रकार सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें
ओघके समान भङ्ग है ।

७५. देवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका
भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिमें बन्धको प्राप्त होने योग्य प्रकृतियों
जाननी चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।
आनत कल्पसे लेकर उपरिम प्रैवेयकतकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । नामकर्मकी
प्रकृतियोंमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शरीरका भङ्ग

१. ता० प्रतौ 'वण्ण० दोआणु०' इति पाठः । २. आ० प्रतौ 'एवं सत्तसु पुढवीसु । तिरिक्खेसु
सत्तणं कम्माणं गिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'उवरिम
केवेज्जात्ति' इति पाठः ।

भंगो । सेसाणं तुल्ला । अणुदिस याव सव्वडु ति णेरइगभंगो । णवरि णामाणं वण्ण-
गंध-रस-फासाणं ओघं । सेसाणं तुल्ला ।

७६. पंधिदि०-तस०-२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-चक्खु०-
अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ओघभंगो । ओरालि०मि० सत्तण्णं कम्माणं
णिरयभंगो । णामाणं ओघं । णवरि सव्वत्थोवा जस० उक्क० पदे० । अजस० उक्क०
पदे० विसे० । वेउच्चि०-वेउच्चि०मि० देवोघं ।

७७. आहार-आहारमि० पंचणा०-छदंसणा०-दोवेद०-पंचंत० ओघं । सव्व-
त्थोवा दुगुं० उक्क० पदे० । भय० उक्क० पदे० विसे०^१ । हस्स-सोगे उक्क० पदे०
विसे० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज०
उक्क० पदे० विसे० । क्रोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उक्क० पदे० विसे० ।
लोभसंज० उ० पदे० विसे० । वण्ण-गंध-रस-फासाणं तुल्ला० । कम्मइग० सत्तण्णं क०
णिरयभंगो । णामाणं ओघभंगो ।

७८. इत्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु छण्णं कम्माणं णिरयभंगो । मोहो ओघो ।

नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र तुल्य है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र ओघके समान है । तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र तुल्य है ।

७६ पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वैक्रियिककाययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है ।

७७. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, दो वेदनीय और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । जुगु'साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे गति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे माया-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्परमें तुल्य है । कर्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

७८. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें छह कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके

१. ता० प्रतौ 'भय० [उ०] विसे०' इति पाठः ।

याव इत्थि० । णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । कोध-
संज० उक्क० पदे० विसे० । मायासं०—लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क०
पदे० संखेज्जगु० । णामाणं ओधं ।

७६. अवगदवेदेसु पंचणा०—पंचंत० ओधं । सव्वत्थोवा केवलदं० उक्क० पदे० ।
ओधिदं० उक्क० पदे० अणंतगु० । अचक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खु० उक्क०
पदे० विसे० । सव्वत्थोवा कोधसंज० उक्क० पदे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० ।
मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज०^१ उक्क० पदे० संखेज्जगु० ।

८०. कोधकसाईसु ओधं । णवरि मोहे जाव इत्थि० । णवुंस० उक्क०^२ पदे०
विसे० । माणसं० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । कोधसंज० उ० पदे० विसे० । मायासंज०
उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० ।

८१. माणकसाईसु ओधं । णवरि मोहे याव इत्थि० । णवुंस० उक्क० पदे०
विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० ।

समान है। मोहनीय कर्मका भङ्ग स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक ओघके समान है। स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

७६. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है। केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है।

८०. क्रोधकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्ममें स्त्रीवेदका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिये। स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।

८१. मानकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय-कर्ममें स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिए। आगे स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।

१. ता० प्रती 'मायसंज० उ० विसे । * मायसंज० उ० विसे० * [चिचान्तर्गतपाठः पुनरुक्तः]
लोभसंज०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'मोहे जोग [याव] इत्थि० णवुंस० उक्क०' इति पाठः ।

मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उ० पदे० विसे० ।

८२. मायाए ओघो । णवरि मोहे याव इत्थि० । णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । क्रोधसंज० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । मायाए उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभक० ओघं ।

८३. मदि^१ सुद-विभंग०-अभव०-मिच्छा०-असण्णि० तिरिक्खोघं । णवरि अण्णदरवेदे० विसे० ।

८४. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तणं क० ओघभंगो । सव्वोत्था मणुसग० उक्क० पदे० । देवग० उक्क० पदे० विसे० । एवं आपु० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्वि० उक्क० प० विसे० । तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० प० विसे० । सव्वत्थोवा आहारंगो० उक्क० पदे० । ओरा० अंगो० उक्क० पदे० विसे० । वेउ० अंगो० उक्क० पदे० विसे० । वण्ण-गंध-रस-

उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

८२. मायाकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मोहनीय-कर्ममें स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिए । आगे स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मानसज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । लोभकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

८३. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

८४. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व-ज्ञान लेना चाहिए । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वर्ण,

१. आ० प्रतौ 'विसे० । मदि' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'वेउ० अंगो०-उक्क० विसे० । वेउ० अंगो० उक्क० [?] वण्ण' इति पाठः ।

फासाणं ओघो । सेसाणं सरिसं पदेसर्गं । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-उवसम० । मणपज्ज० सत्तणं क० ओघं । णामाणं आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । संजदासंजदं० आहारकायजोगिभंगो सुहुमसंप० चोदसणं ओघं ।

८५. असंजद०-तिणिले० सत्तणं कम्मणं णिरयभंगो । णामाणं तिरिक्खोघं । तेउ-पम्माणं सत्तणं क० देवभंगो । णामाणं ओघं । णवरि तेऊए सव्वत्थोवा अप्पसत्थ-विहायगदि-दुस्सर उक्कस्सं० । पसत्थविहायगदि-सुस्सर० उक्कस्स० पदे० विसेसाहियं । पम्माए सव्वत्थोवा दोगदि० । देवगदि० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० । सव्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । ओरालि० उक्क० पदे० विसे० । वेउव्वि० उक्क० पदे० विसे० । तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा पंचसंठा० उक्क० पदे० । समचहु० उक्क० प० विसे० । अंगोवं० सरिरभंगो । सव्वत्थोवा अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० उक्क० पदे० । तप्पडिपक्खाणं उक्क० पदे० विसे० । सुक्काए ओघं । णवरि सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क० पदे० । देवग० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० ।

गन्ध, रस और स्पर्शा भङ्ग ओघके समान है । शोष प्रकृतियोंका समान प्रदेशाग्र है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोंके समान है । इसी प्रकार संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपरथापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें चौदह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

८६. असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पीतलेश्यामें अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे प्रशस्त विहायोगति और सुस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । पद्मलेश्यामें दो गतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अघ्निक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । पाँच संस्थानोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे समचतुरस्रसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आज्ञोपाङ्गोंका भङ्ग शरीरोंके समान है । अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे उनकी प्रतिपन्न प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शुक्ललेश्यामें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

१. ता० प्रतौ 'ओघं' इति पाठः । २. 'परिहार० संजदासंजद०' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'अप्पसत्थवि [हा] यगदि' इति पाठः ।

८६. वेदगसं० सव्वट्टु० भंगो । णवरि सव्वत्थोवा मणुसगदि० उक्कस्सओ पदे-
सचंधो । देवगदि० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० ।

८७. सासणसम्मादिट्ठीसु सत्तण्णं कम्माणं मदि० भंगो । णवरि मिच्छं-
णवुंसं वज्ज । णामाणं सव्वत्थोवा तिरिक्खग०-मणुसग० उ० पदे० । देवगदि०
उक्क० पदे० विसे० । वण्ण०४ ओघं । सेसं सरिसं ।

८८. सम्मामि० सत्तण्णं क० सव्वट्टु० भंगो । सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क० पदे० ।
[देवगदि० उक्क० विसे०] । एवं आणु० । वण्ण०४ ओघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सं समत्तं ।

८९. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणावरणीयाणं [दंस-
णावरणीयाणं] यथा उक्कस्सं सत्थाणअप्पाबहुगं तथा जहण्णं पि कादव्वं । सादासादाणं
दोण्णं पि जहण्णयं पदेसगं तुल्लं ।

९०. सव्वत्थोवा अपच्चक्खणमाणे जह० पदे० । कोघे० जह० पदे०
विसे० । माया० जह० पदे० विसे० । लोभ० जह० पदे० विसे० । एवं पच्च-

८६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष
अधिक है । इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए ।

८७. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी
विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेद इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व जानना
चाहिए । नामकर्ममें तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे
देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वर्णचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । शेष
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व समान है ।

८८. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान है । मनुष्य-
गतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
इसी प्रकार दो आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए । वर्णचतुष्कका
भङ्ग ओघके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

८९. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीयका जिस प्रकार उत्कृष्ट रवस्थान अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार
जघन्य भी करना चाहिए । सातावेदनीय और असातावेदनीय दोनोंका ही जघन्य प्रदेशाग्र
तुल्य है ।

९०. अप्रत्याख्यानावरणमानका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्याना-
वरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य

१. ता० प्रती 'एवं' । आणु० वण्णः०४ ओघं' इति पाठः । २. ता० प्रती 'माणो ज० पदे० ।
[कोघे०] ज० प० विसे० । माया०' आ० प्रती '—माणे जह० पदे० । माया०' इति पाठः ।

कृत्वाण०४ । एवं चैव अणंताणु०४ । मिच्छ जह० पदे० विसे० । दुगुं० जह० पदे० अणंतगु० । भय० जह० प० विसे० । हस्स-सोगे जह० पदे० विसे० । रदि-अरदि० जह० पदे० विसे० । अण्णदरवेदे जह० पदे० विसे० । माणसंज० जह० पदे० विसे० । कोधसंज० जह० पदे० विसे० । मायासंज० जह० पदे० विसे० । लोभसंज० जह० पदे० विसे० ।

६१. सव्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसाऊणं जह० पदे० । णिरय-देवाऊणं जह० पदे० असंखेज्जगु० ।

६२. सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० । मणुस० जह० पदे० विसे० । देव-गदि० जह० पदे० असंखेज्जगु० । णिरय० जह० पदे० असं०गु० । सव्वत्थोवा चटुण्णं जादीणं जह० पदे० । एइंदि० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा ओरा० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । वेउच्चि० जह० पदे० असं०गु० । आहार० जह० पदे० असं०गु० । छण्णं संठाणाणं जह० पदे० तुल्लं । सव्वत्थोवा ओरा०अंगो० जह० पदे० । वेउच्चि०अंगो० जह० पदे० असं०गु० । आहार०अंगो० जह० पदे० असं०गु० । छण्णं संघडणाणं जह० पदे० तुल्लं । वण्ण-

प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । अनन्तानुबन्धी लोभके जघन्य प्रदेशात्रसे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे रति-अरतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका, जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

६१. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है ।

६२. तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । चार जातियोंका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे एकैन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । औदारिक शरीरका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । छह संस्थानोंका जघन्य प्रदेशात्र तुल्य है । औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशात्र सबसे स्तोक है । उससे वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । छह संहननका जघन्य प्रदेशात्र परस्परमें तुल्य है । वर्ण, गन्ध,

गंध-रस-फासाणं पंचअंतराङ्गणं च उक्कस्सभंगो । यथा गदी तथा आणुपुब्बी । सव्व-
त्थोवा तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेगाणं जह० पदे० । थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारणं० जह०
पदे० विसे० । सेसाणं पगदीणं जहण्णयं पदेसग्गं तुल्लं० । णीचुच्चागोद० जह०
पदे० तुल्लं० ।

६३. णिरयेसु सत्तणं क० ओघभंगो । सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० ।
मणुस० जह० पदे० विसे० । एवं आणु० । वण्ण०४ उक्कस्सभंगो । सेसाणं णामाणं
जहण्णयं पदेसग्गं तुल्लं० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए सव्वत्थोवा
तिरिक्ख० । मणुस० जह० पदे० असंगु० । एवं आणु०-दोगोद० ।

६४. तिरिक्खेसु ओघभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं पंचिदियतिरिक्ख-
पज्जत्त-पंचिदियजोणिणीसु । [णवरि जोणिणीसु] सव्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० ।
मणुस० जह० पदे० विसे० । णिरय-देवगदि० जह० पदे० असंगु० । सव्वत्थोवा
चदुण्णं जादीणं [जह० पदे०] एइदि० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा ओरालि०
जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । वेउव्वि०
जह० पदे० असंगु० । सव्वत्थो० ओरालि०अंगो० जह० पदे० । वेउ०अंगो० जह०

रस, स्पर्श और पाँच अन्तरायोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । जिस प्रकार चार गतियोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार चार आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाग्र तुल्य है । तथा नीचगोत्र और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशाग्र परस्परमे तुल्य है ।

६३. नारकियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार दोनों आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । वर्णचतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । नामकर्मकी शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाग्र तुल्य है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवों पृथिवीमें तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वी और दोनों गोत्रोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

६४. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति और देवगति जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । चार जातियोंका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक

१. आ० प्रतौ 'सव्वद्धा तिरिक्ख' इति पाठः । २. आ० प्रतौ 'पदे० । सव्वथोवा जह०'
इति पाठः । •

पदे० असं०गु० । सेसाणं ओघभंगो । पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज० सव्वपगदीणं ओघं । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वएइंदिय-विगलंदिय-पंचकायाणं च ।

६५. मणुसेसु ओघभंगो । देवाणं णिरयभंगो । एवं भवण-वाणवेंतर-जोदिसिय० । सोधम्मीसाण याव सहस्सार त्ति एवं चेव । णवरि दोगदि० सरिसं पदेसग्गं । एवं सव्वदेवाणं ।

६६. पंचिदि०-तस०२-काययोगि०-ओरा०-ओरा०मिस्स०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-छल्लेस्सा०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-सण्णि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग त्ति ओघभंगो । णवरि मदि-सुद०-अब्भव०-मिच्छा०-असण्णि० वेउन्विद्यच्छक्कं पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभंगो ।

६७. पंचमण०-तिण्णवचि० सत्तणं क० णिरयभंगो । सव्वत्थोवा तिरिक्ख०-मणुस० जह० पदे० । देवग० जह० पदे० विसे० । णिरयगं० जह० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा वेउ० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । आहार० जह० पदे० विसे० । ओरा० जह० पदे० विसे० । एवं अंगो० ।

है । उससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रि तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए ।

६५. मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार भवनवासी,व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो गतियोंका सदृश प्रदेशाग्र करना चाहिए । इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए ।

६६. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, औदारिककाययोगी औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चक्षु-दर्शनी, अचक्षुदर्शनी, छह लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें वैक्रियिकपदकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंके समान है ।

६७. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगनिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । वैक्रियिक-शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी

सेसाणं ओघो । दोवचिजोगीसु एवं चैव । णवरि बीइंदिया सामि० । वेउ०-वेउ०मि०-
देवोर्घ ।

६८. आहार०-आहार०मि० पंचणा०-छदंस०-पंचंत० ओघं । सव्वथोवा
साद० जह० पदे० । असाद० जह० पदे० विसे० । सव्वथोवा दुगुं० जह० पदे० ।
भय० जह० पदे० विसे० । हस्स० जह० पदे० विसे० । रदि० जह० पदे० विसे० ।
पुरिस० जह० पदे० विसे० । सोग० जह० पदे० विसे० । अरदि० जह० पदे०
विसे० । माणसंज जह० प० विसे० । क्रोधसंज० जह० पदे० विसे० । मायासंज०
जह० प० विसे० । लोभसंज० जह० पदे० विसे० । वण्ण०४ ओघभंगो । सव्वथोवा
थिर-सुभ-जस० जह० पदे० । अथिर-असुभ-अजस० जह० पदे० विसे० । एवं मण-
पञ्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजसंदाजद० ।

६९. इत्थिवे० पंचिंदियतिरिक्खजोणिभिंभंगो । पुरिसवेदे पंचिंदियतिरिक्ख-
भंगो । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० उक्कस्सभंगो । सव्वथोवा माणसंज जह०

प्रकार अङ्गोपाङ्गोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । दो वचनयोगी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि द्वीन्द्रिय जीव स्वामी है । वैक्रियिककाययोगी और धैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है ।

६८. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है । सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे अरतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे क्रोध-संज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । वर्णचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामाधिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिए ।

६९. स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंके समान भङ्ग है । पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । अपगतधेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग उक्कष्टके समान है । मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक

१. ता० प्रतौ 'से [साणं ओघो] । दोवचिजोगीसु' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'सामि० (?) वेउ०' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'ज० प० ।...[अथिरअसुभअ] जस०' इति पाठः ।

पदे० । क्रोधसंज० जह० पदे० विसे० । मायासंज० जह० पदे० विसे० । लोभ-
संज० जह० पदे० विसे० ।

१०१. विभंगे सत्तणं कम्माणं ओघभंगो । सव्वथोवा तिरिक्ख० जह० पदे० ।
मणुस० जह० पदे० विसे० । णिरयगदि-देवगदि० जह० पदे० विसे० । सव्वथोवा
ओरालि० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० ।
वेउ० जह० पदे० विसे० । एवं [वेउ०] अंगोवंग० । आणुपु० गदिभंगो । एवं सेसाणं
ओघभंगो ।

१०२. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तणं कम्माणं ओघभंगो । सव्वथोवा
मणुसग० जह० पदे० । देवगदि० जह० पदे० विसे० । एवं आणु० । वण्ण०४
ओघभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खड्ग०-वेदग०-उवसम० । सासणे सव्वथोवा
तिरिक्ख० जह० पदे० । मणुस० जह० पदे० विसे० । देवगदि० जह० असं०गु० ।
एवं आणु० । सव्वथोवा ओरा० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म०
जह० पदे० विसे० । वेउ० जह० पदे० असं०गु० । सम्मामि० सत्तणं कम्माणं

है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१०१. विभङ्गज्ञानमें सात कर्मका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र
सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकति और
देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक
है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी
प्रकार दो आङ्गोपाङ्गोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आनुपूर्वियोंका भङ्ग चारों
गतियोंके समान है । इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

१०२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मका भङ्ग ओघके
समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।
वर्णचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि,
वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें
तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष
अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार तीन आनुपूर्वियोंके
जघन्य प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक
है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है ।

१. ता० प्रतौ 'कम्म० [जह० पदे० विसे०] । ...[वेउव्वि०] उ० ज०' आ० प्रतौ कम्म० जह०
पदे० विसे० । उ० जह० इति पाठ० ।

गिरयभंगो । सव्वत्थोवा मणुस० जह० पदे० । देवग० जह० पदे० विसे० ।

एवं सत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं ।

१०३. परत्थाणप्पाबहुगं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्क पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणमाणे उक्क० पदेसग्गं । कोघे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे० विसे० । एवं पच्चक्खाण०४-अणंताणु०४ । मिच्छ० उक्क० पदे० विसे० । केवलणा० उक्क० पदे० विसे० । पयला० उक्क० पदे० विसे० । णिहा० उक्क० पदे० विसे० । पयलापयला० उक्क० पदे० विसे० । णिहाणिहा० उक्क० पदे० विसे० । थीणगिद्धि० उक्क० पदे० विसे० । केवलदं० उ० पदे० विसे० । आहार० उक्क० पदे० अणंतगु० । वेउ० उक्क० पदे० विसे० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । तेजा० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । गिरयग० उक्क० संखेज्जगु० । [देवग० उक्क० विसे०] । मणुस० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । अज० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० संगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोग० उक्क० पदे० विसे० ।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

१०३. परस्थान अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए । आगे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाप्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्रानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्त्यानगृद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१. ता—प्रतौ 'पच्चक्खाण०४ । अणंताणु०४ मिच्छ० उ०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'विसे० । पयला०' इति पाठः ।

रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उक्क० पदे० संखे० गु० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्ज० उक्क० पदे० विसे० । ओधिणा० उक्क० पदे० विसे० । सुदणा० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । ओधिदं० उक्क० पदे० विसे० । अचक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उ० विसे० । पुरिसं०^१ उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उ० पदे० विसे० । अण्णदरे आउगे उक्क० पदे० विसे० । णीचा० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । असादा० उ० पदे० विसे० । जस०-उच्चा० उक्क० पदे० विसे० । सादा० उ० पदे० विसे० ।

१०४. आदेसेण णेरइएसु सच्चत्थोवा अपच्चक्खणमाणे उक्क० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उ० प० विसे० । लोभ० उ० प० विसे० । एवं मूलोपं याव केवलदंसणावरणीयस्स उक्कस्सपदेसग्गं । ओरा० उक्क० पदे० अणंतगु० । तेजा०

है । उससे रति-अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्त्रीवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभ-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१०४. आदेशसे नारकियोंमें अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इस प्रकार केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोपके समान भङ्ग है । आगे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र

१. आ० प्रलौ 'अचक्खु० चक्खु० उक्क० पदे० विसे० । पुरिसं०' इति पाठः ।

उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्खेसुग०-मणुसग० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । जस०-अजस० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे० विसे० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माण-संज० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उक्क० पदे० विसे० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्जं० उक्क० पदे० विसे० । ओधिणा० उक्क० पदे० विसे० । सुद० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० । ओधिदं० उक्क० पदे० विसे० । अचक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे आउगे० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । अण्णदरे गोदे० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे वेदणीए० उक्क० पदे० विसे० । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

१०५. तिरिक्खेसु मूलोघं याव केवलदंसणावरणीयस्स उक्क० पदे० विसे० ।

अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्जगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।

१०५. तिर्यञ्चोमें केवलदर्शनावरणिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके

१. आ० प्रती 'परिभोगत० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्जं०' इति पाठः । २. ता० प्रती 'अचक्खु० उ० विसे० । अचक्खु० उ० विसे० (?) चक्खुदं०' इति पाठः ।

वेउ० उक्क० पदे० अणंतगु० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । तेजा० उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । गिरयगदि-देवग० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । मणुस० उक्क० पदे० विसे० । जस० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । अजस० उक्क० पदे० विसे० । सेसाणं पगदीणं गिरयभंगो । एवं पंचिदि०-तिरिक्ख०३ । पंचिदि०तिरिक्खअपज्जत्त० गिरयभंगो याव कम्मइयसरीर त्ति । मणुस० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । जस० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । अजस० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० संखेज्जगु० । भय० उक्क० विसे० । हस्स-सोगे० उक्क० पदे० वि० । रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदर-वेदे० उक्क० पदे० विसे० । सेसाणं पगदीणं गिरयभंगो । एवं सच्चअपज्जत्तयाणं तसाणं थावराणं च सच्चएइंदिय-विगलंदिय-पंचकायाणं । णवरि मणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०- उच्चा० चत्तारि एदाणि तेउ०-वाऊणं वज्ज ।

१०६. मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालि० मूलोघं । देवेसु गिरयभंगो याव कम्मइयसरीर त्ति । तदो मणुस० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । जस०-अजस० दो वि तुल्ला उक्क०

प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । आगे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति और देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें कर्मणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक नारकियोंके समान भङ्ग है । आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र इन चार प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व करना चाहिए ।

१०६. मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । देवोंमें कर्मणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भङ्ग है । उसके आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशः-कीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र दोनोंका परस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष अधिक है ।

पदे० विसे० । दुर्गु० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । सेसाणं णिरयभंगो । एवं भवण०-
वाण०-जोदिसि० सोधम्मिसाणेसु । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो । एवं
चेव आणद याव णवगेवज्जा त्ति । णवरि विसेसो त्तिरिक्खगदिचदुण्णं क० ।

१०७. अणुदिस याव सव्वट्ठ त्ति सव्वथोवा अपच्चक्खाणमाणे० उक्क० पदे० ।
कोधे० उक्क० पदे० विसे० । माया० उक्क० पदे० विसे० । लोभे० उक्क० पदे०
विसे० । एवं पच्चक्खाण०४ । केवलणा० उक्क० प० विसे० । पयला० उ० प० विसे० ।
णिद्दा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० अणंतगु० ।
तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प० संखेज्जगु० ।
जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुर्गु० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । भय० उक्क० पदे०
विसे० । हस्स-सोगे० उक्क० पदे० विसे० । रदि-अरदि० उ० पदे० विसे० । पुरिस०
उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । क्रोधसंज० उक्क०
पदे० विसे० । मायासं० उक्क० पदे० विसे० । लोभसं० उ० प० विसे० ।
दाणंत० उ० प० विसे० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प०
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ०

उससे जुगुसाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।
इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए ।
सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे
लेकर नौ प्रवैयकतकके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति-
चतुष्कको छोड़कर अल्पबहुत्व करना चाहिए ।

१०७. अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट
प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण
लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अल्पबहुत्व
जानना चाहिए । आगे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औद्गारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कामण-
शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है ।
उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुसाका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र

प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुद० उ० प० विसे० । आभिणि० उ० प० विसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अचक्खु० उ० प० विसे० । चक्खुदं० उ० प० विसे० । मणुसाउ० उ० पदे० संखेज्जगु० । उच्चा० उ० पदे० विसे० । सादासाद० उ० पदे० विसे० ।

१०८. ओरालियमि० ओधं याव केवलदंसणावरणीय त्ति उ० प० विसे० । दो आउ० अणंतगु० । वेउच्चि० उ० प० असंगु० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजाक० उ० प० विसे० । क० उ० पदे० विसे० । देवगदि० उ० संखेज्जगु० । मणुस० उ० प० विसे० । जस० उ० प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । भय० उ० प० विसे० । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।

१०९. वेउच्चियका० देवोघं । एवं वेउच्चियमिस्सगे वि । णवरि आउ० णत्थि । आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । पयला० उ० प० विसे० । णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । वेउच्चि० उ० प० अणंतगु० ।

विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे सातावेदनीय और असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१०८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक ओघके समान भङ्ग है । आगे दो आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

१०९. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोत्र है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१. आ० प्रतौ 'मणुसाणु० उ०' इति पाठः । २. आ० प्रतौ 'तेजाक० उ० प० विसे० । देवगदि०' इति पाठः ।

तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० पदे० विसे० । देवग० उ० प० संखेज्जगु० ।
जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । सेसाणं यथा अणुदिस-
देवाणं । णवरि यम्हि मणुसाउ० तम्हि देवाउ० भणिदव्वं

११०. कम्मइयकायजोगीसु याव केवलदंसणावरणीयं ताव मूलोघो । वेउ० उ०
पदे० अणंतगु० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ०
प० विसे० । देवगदि० उ० प० संखेज्जगु० । मणुस उ० प० विसे० । जस० उ०
प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प०
संखेज्जगु० । सेसाणं यथा पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु तथा णेदव्वं ।

१११. इत्थि-पुरिस-णवुंसगेसु मूलोघं याव इत्थि-णवुंस० उ० प० विसे० ।
माणसंज० उ० प० विसे० । कोधसंज० उ० प० विसे० । मायासंज० उ० प०
विसे० । लोभसं० उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० विसे० । लाभंत० उ० प०
विसे० । भोगंत० उ० प० विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० प०
विसे० । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुद० उ० प०

उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग जिस प्रकार अनुदिशके देवोंके बतलाया है उस प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँपर मनुष्यायु कही है वहाँपर देवायु कहनी चाहिए ।

११०. कार्मणकाययोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । आगे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । शेष प्रकृतियोंका जिस प्रकार पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व कहा है उस प्रकार यहाँ जानना चाहिए ।

१११. स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले और नपुंसकवेदवाले जीवोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक मूलोघके समान भङ्ग है । आगे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट

विसे० । आभिणि० उ० प० विसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अचक्खु० उ० प० विसे० । चक्खुदं०-पुरिस० उ० प० विसे० । अण्णदरे आउगे० उ० प० विसे० । अण्णदरगोदे जस० उ० प० विसे० । अण्णदरवेदणीए उ० प० विसे० ।

११२. अवगदवेदेसु सन्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । केवलदं० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उ० प० अणंतगु० । सेसाणं यथासंखं उक्क० पदे० विसे० । कोधसं० उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुद० उ० प० विसे० । आभिणि० उ० प० विसे० । माणसं० उ० प० विसे० । ओधिदं० उ० प० विसे० । अचक्खुदं० उ० प० विसे० । चक्खुदं० उ० प० विसे० । मायासं० उ० प० विसे० । लोभसं० उ० प० संखेज्जगु० । जस०-उच्चा० उक्क० प० विसे० । सादा० उ० प० विसे० ।

११३. कोधकसाईसु मूलोघं याव इत्थि० उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० विसे० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प० विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० प० विसे० । मणपज्ज० उ० प० विसे० । ओधिणा०

प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे चक्षुदर्शनावरण और पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर गोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।

११२. अपगतवेदवाले जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। शेष अन्तरायकी प्रकृतियोंका क्रमसे उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। आगे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।

११३. क्रोधकपायवाले जीवोंमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है। आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष

उ० प० वि० । सुद० उ० वि० । आभिणि० उ० वि० । माणसं० उ० वि० ।
 क्रोधसं० उ० वि० । मायसं० उ० वि० । लोभसं० उ० वि० । ओधिदं० उ० वि० ।
 अचक्खुदं० उ० वि० । चक्खुदं० उ० वि० । पुरि० उ० वि० । अण्णदरआउ०
 उ० वि० । अण्णदरे गोदे जस० उ० वि० । अण्णदरे वेदणी० उ० वि० । माण-
 कसाईसु क्रोधकसाइभंगो याव आभिणि० उ० वि० । क्रोधसंज० उ० वि० । ओधिदं०
 उ० वि० । अचक्खु० उ० वि० । चक्खु० उ० वि० । माणसंज० उ० विसे० । माय-
 संज० उ० विसे० । लोभसंज० उ० वि० । पुरि० उ० वि० । णवरि क्रोधकसाइभंगो ।
 मायकसाइ० माणकसाइभंगो याव माणसंजल० उ० वि० । पुरि० उ० वि० ।
 मायसंजल० उ० वि० । लोभमं० उ० वि० । अण्णदरे आउगे उ० विसे० । णवरि
 क्रोधकसाइभंगो । लोभे मूलोघं ।

११४. मदि-सुद-विभंग० पंचि०तिरि०पज्जत्तभंगो याव अण्णदरवेदणी० उ०

अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञाना-
 वरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
 विशेष अधिक है । उससे मान संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोध-
 संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष
 अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अर्वाधदर्शनावरणका
 उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक
 है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
 प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
 अन्यतर गोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका
 उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । मानकषायवाले जीवोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट
 प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक क्रोध कषायवाले जीवोंके समान भङ्ग
 है । आगे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका
 उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक
 है । उससे चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका
 उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक
 है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
 प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इतनी विशेषता है कि क्रोधकषायवाले जीवोंके समान
 भङ्ग है । मायाकषायवाले जीवोंमें मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है
 इस स्थानके प्राप्त होने तक मानकषायवाले जीवोंके समान भङ्ग है । आगे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
 प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
 लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष
 अधिक है । इतनी विशेषता है कि आगे क्रोधकषायवाले जीवोंके समान भङ्ग है । लोभकषाय-
 वाले जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है ।

११४. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
 विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

वि० । आभिणि-सुद-ओधि० अणुत्तरविमाणवासियदेवभंगो याव केवलदंसणावरणीयं
त्ति । तदो आहार० उ० अणंतगु० । ओरा० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प०
विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प०
संखेज्जगु० । देवगदि० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प०
संखेज्जगु० । भय० उ० प० विसे० । हस्स-सोगे० उ० प० विसे० । रदि-अरदि०
उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० संखेज्जगु० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत०
उ० प० विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत उ० प० विसे० । उवरि
ओधं । णवरि णिरयाउगं तिरिक्खाउगं णीचा० णत्थि ।

११५. मणपज्ज० सव्वत्थोधा केवलणा० उ० प० । पयला० उ० प०
विसे० । णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । आहार० उ० प०
अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । देवगदि० उ० प०
संखेज्जगु० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । उवरि ओधि-
णाणिभंगो । णवरि मणुसाउ० णत्थि । एवं संजदा० । सामाई०-छेदो० मणपज्जव-

आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक अनुत्तरविमानवासी देवोंके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आगेका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ नरकायु, तिर्यञ्चायु और नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता।

११५. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे आगे अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु नहीं है। इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए। सामायिकसंयत और

भंगो याव रदि-अरदि० उ० प० विसे० । दाणंत० उ० प० विसे० । उवरिं माणकसाई-
भंगो याव माणसंज० उ० प० विसे० । पुरिस० उ० प० विसे० । मायासंज० उ०
प० विसे० । देवाउ० उ० प० विसे० । उच्चा०-जस० उ० प० विसे० । लोभसं०
उ० प० विसे० । अण्णदरवेदणी० उ० प० विसे० ।

११६. परिहारे० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । पयला० उ० प० विसे० ।
णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं उ० प० विसे० । आहार० उ० प० अणंतगु० ।
वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । उवरि
आहारकायजोगिभंगो ।

११७. सुहुमसंप० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे० । केवलदं उ० प०
विसे० । दाणंत० उ० प० अणंतगु० । लाभंत० उ० प० विसे० । भोगंत० उ० प०
विसे० । परिभोगंत० उ० प० विसे० । विरियंत० उ० प० विसे० । मणपज्जव०
उ० प० विसे० । ओधिणा० उ० प० विसे० । सुद० उ० प० विसे० । आभिणि०
उ० प० विसे० । ओधिदं उ० प० विसे० । अचक्खु० उ० प० विसे० । चक्खु० उ०

छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस
स्थानके प्राप्त होनेतक मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आगे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है
इस स्थानके प्राप्त होनेतक मानकपायवाले जीवोंके समान भङ्ग है । आगे पुरुषवेदका उत्कृष्ट
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे देवायुका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे उच्चगोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

११६. परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है ।
उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष
अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आहारकशरीरका
उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र
विशेष अधिक है । उसके आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

११७. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है ।
उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट
प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगा-
न्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष
अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञाना-
वरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष
अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनि-
बोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे

१. ता० प्रती 'मणपज्जवमगो । याव' इति पाठः । २. ता० प्रती 'भंगो । याव' इति पाठः ।

प० विसे० । जस०-उच्चा० उ० प० संखेज्जगु० । सादा० उक्क० प० विसे० ।

११८. संजदासंजदेसु सव्वत्थोवा पच्चक्खाणमाणे० उ० पदे० । कोधे० उ० प० विसे० । माया० उ० प० विसे० । लोभे० उ० प० विसे० । केवलणा० उ० प० विसे० । पयला० उ० प० विसे० । णिहा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प० अणंतगु० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो ।

११९. असंजदेसु पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । चक्खुदं-अचक्खुदं० ओघो । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेऊए ओघं याव केवलदंसणावरणीयं^१ त्ति । तदो आहार० उ० प० अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प० संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । जस०-अजस० उ० प० विसे० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो । णवरि तिरिक्खाउ०-मणुसाउ० अत्थि^२ ।

चक्षुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

११८. संयतासंयत जीवोंमें प्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट. प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

११९. असंयत जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनवाले और अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें असंयतके समान भङ्ग है । पीतलेश्यावाले जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक ओघके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आगे आहारक-काययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु हैं । अर्थात् आहारक काययोगमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका बन्ध नहीं था किन्तु पीतलेश्यामें इन दोनों आयुओंका बन्ध होता है ।

१ ता०आ०प्रत्योः 'केवलणाणावरणीय' इति पाठः । २ ता०आ०प्रत्योः 'णवरि णिर्याउ तिरिक्खाउ० णत्थि' इति पाठः ।

१२०. पम्माए तेउ०भंगो । णवरि आहारसरीरादो ओरा० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसगदि० दो वि सरिसा संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । एवं सुक्काए याव कम्मइगसरीर ति । तदो मणुसग० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । उवरि ओघो ।

१२१. सासणे ओघं याव केवलदंस० । णवरि मिच्छ० णत्थि । तदो ओरा० उ० प० अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसग० उ० प० संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । उवरि मदि०भंगो । णवरि णवुंस० णत्थि ।

१२२. सम्मामि० वेदगभंगो । णवरि आउ० आहार० णत्थि । मिच्छा०-असण्णि० मदि०भंगो । सण्णि०-आहार० मूलोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उक्कस्सपरत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं ।

१२०. पद्मलेश्यामे पीतलेश्याके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीरसे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगति इन दोनोंका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र आपसमें समान होकर संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । शुक्ललेश्यामे कार्मणशरीरका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक इसीप्रकार जानना चाहिए । उससे आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आगे ओघके समान भङ्ग है ।

१२१. सासादनसम्यक्त्वमें केवलदर्शनावरणका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वप्रकृति नहीं है । आगे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद नहीं है ।

१२२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयु और आहारकशरीर नहीं है । मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । संज्ञी और आहारक जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

१२३. जहण्णाए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा अपच्चं-
 कखाणमाणे जहण्णयं पदेसग्गं । क्रोध० ज० प० विसे० । माया ज० प्र० विसे० ।
 लोभे० जह० प० विसे० । एवं पच्चकखाण०४-अणंताणु०४ । मिच्छं० ज० प०
 विसे० । केवलणा० ज० प० विसे० । पयला० ज० प० विसे० । णिदा० ज० प०
 विसे० । पयलापयला० जह० प० विसे० । णिदाणिदा० ज० प० विसे० । थीणगि० ज०
 प० विसे० । केवलदं० ज० प० विसे० । ओरा० ज० प० अणंतणु० । तेजा० ज० प०
 विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । तिरिक्ख० ज० प० संखेज्जगु० । जस-अजस० ज०
 प० विसे० । मणुस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । भय० ज० प०
 विसे० । हस्स-सोग० ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । अण्णदरवेद०
 ज० प० विसे० । माणसंज० ज० प० विसे० । क्रोधसं० ज० प० विसे० । मायासं०
 ज० प० विसे० । लोभसं० ज० प० विसे० । दाणंत० ज० प० विसे० । लाभंत० ज०
 प० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । परिभोगंत० ज० प० विसे० । विरियंत० ज०

१२३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश । ओघसे अप्रत्या-
 ख्यानावरण मानका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य
 प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक
 है । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । इसी प्रकार
 प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी मुख्यतासे अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।
 आगे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र
 विशेष अधिक है । उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका
 जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे प्रचलाप्रचलाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
 उससे निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे स्त्यानगृद्धिका जघन्य प्रदेशाग्र
 विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
 औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष
 अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका
 जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष
 अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य
 प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और
 शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष
 अधिक है । उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका
 जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
 उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य
 प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे
 लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष

पं० विसे० । मणपज्ज० ज० प० विसे० । ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज० प० विसे० । आभिणि० ज० प० विसे० । ओधिदं० ज० प० विसे० । अचक्खुदं० ज० प० वि० । चक्खुदं० ज० प० विसे० । अण्णदरगोदे ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । वेउन्वि० ज० प० असंखेज्जगु० । देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असंखेज्जगु० । गिरयगदि० ज० प० असंखेज्जगु० । गिरय-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । आहार० जह० पदे० असंखेज्जगुणं ।

१२४. आदेसेण गिरयगदीए णोरइएसु मूलोघं याव अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । तदो तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असंखेज्जगु० । एवं छसु पुढवीसु । सत्तमाए मूलोघो याव कम्मइ० ज० प० विसे० । तदो तिरिक्ख० ज० प० संखेज्जगु० । जस-अजस० ज० प० विसे० । उवरि ओघो । णवरि याव चक्खुदं० ज० प० विसे० । णीचा० ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । मगुसग० ज० प० असंखेज्जगु० । तिरिक्खाउ० ज० प० संखेज्जगु० । उच्चा ज० प० विसे० ।

१२५. तिरिक्खेसु मूलोघो । णवरि आहार० णत्थि । एवं पंचिदियतिरिक्ख० ।

अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिक शरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारक शरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है ।

१२४. आदेशसे नरकगतिकी अपेक्षा नारकियोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार प्रारम्भकी ब्रह्म पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सातवींमें कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । आगे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यह अल्पबहुत्व चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान जानना चाहिए । उससे आगे नीच गोत्रका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

१२५. तिर्यञ्चोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर नहीं

पंचिदियतिरिक्खपज्ज० मूलोघं^१ याव देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । गिरयग० ज० प० असं०गु० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मूलोघं याव वेउ० ज० प० असं०गु० । तदो गिरयग०-देवग० ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । सव्वअपज्जत्तयाणं च सव्वएइंदिय-विगल्लिदिय-पंचकायाणं गिरयभंगो । णवरि तेउ-वाउणं मणुसगदिचदुकं वज्ज ।

१२६. मणुसेसु ओघो याव तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असं०गु० । तदो आहार० ज० प० असं०गु० । गिरयगदि० ज० प० संखेज्जगु० । गिरय-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । मणुसपज्जत्तेसु एसेव भंगो याव देवगदि० ज० प० । तदो आहार० ज० प० असं०गु० । गिरय० जह० प० संखेज्जगु० । अण्णदरे आउ० ज० पदे० संखेज्जगु० । मणुसिणीसु एसेव भंगो याव सादासादादीणं^३ ज० प० विसे० । तदो वेउ० ज० प० असंखेज्जगु० । आहार० ज० प० विसे० । देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । गिरयगदि० ज० प० विसे० । अण्णदरे आउगे० ज० प० संखेज्जगु० ।

है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है। उससे आगे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है। उससे आगे नरकगति और देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगति चतुष्कको छोड़कर अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

१२६. मनुष्योंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। मनुष्यपर्याप्तकोंमें देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र सम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक यही भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। मनुष्यनियोंमें सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक यही भङ्ग है। उससे आगे वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है।

१. ता० प्रतौ 'एव' पंचिदिय-तिरिक्ख-पंचि० तिरिक्ख-पज्ज० मूलोघं इति पाठः। २. ता० प्रतौ 'गिरय० ज० संखेज्जगु० । म [णु] सिणीसु' इति पाठः। ३. ता० प्रतौ 'याव स [सा] दास [सा] दादीणं' इति पाठः।

१२७. देवेषु भवण०-वाण०-जोदिसि० पढमपुढविभंगो । सोधम्मीसाणादिं याव सहस्सार ति णेरइगभंगो याव कम्मइगसरीर ति । तदो तिरिक्ख-मणुसगदि० जह० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । सेसाणं णिरयभंगो । आणद याव उवरिमगेवज्जा ति एसेव भंगो । णवरि तिरिक्खाउचदुक्कं णत्थि ।

१२८. अणुदिस याव सव्वडु ति सव्वत्थोवा अपच्चक्खाणमाणे ज० पदे० । कोधे० ज० प० विसे० । माया० ज० प० विसे० । लोभे० ज० प० विसे० । एवं पच्चक्खाण०४ । केवलणा० ज० प० वि० । पयला० ज० प० विसे० । णिहा० ज० प० विसे० । केवलदं० ज० प० विसे० । ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । भय० ज० प० विसे० । हस्स-सोगे० ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । पुरिस० ज० प० विसे० । सेसाणं णेरइगभंगो ।

१२९. पंचिदिएसु मूलोघो । पंचिदियपज्जत्तगेषु वि मूलोघो याव सादा-सादा ति । तदो वेउ० ज० प० असंगु० । देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । णिरय-

१२७. सामान्य देव, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है। सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें कार्मणशरीरसम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक नारकियोंके समान भङ्ग है। उससे आगे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। आनत कल्पसे लेकर उपरिम-ग्रैवेयक तकके देवोंमें यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ तिर्यञ्चगतिचतुष्क नहीं है।

१२८. अनुदिशिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए। उससे आगे केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है। उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।* उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रति और अरतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। आगे शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है।

१२९. पञ्चेन्द्रियोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें भी सातावेदनीय और असातावेदनीयकी अपेक्षा अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है। उससे आगे

गदि० ज० प० असंखेज्जगु० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । आहार० ज० प० असं०गु० ।

१३०. तस-तसपज्जत्तयाणं मूलोघो । पंचमण०-तिण्णिवचि० मूलोघं याव केवल दंसणावरणीयं त्ति । तदो वेउ० ज० प० अणंतगु० । आहार० ज० प० विसे० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० पदे० विसे० । ओरालि० ज० प० विसे० । तिरिक्ख०- [मणुस०] ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । देवग० ज० प० विसे० । णिरय० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । भय० ज० प० विसे० । हस्स-सोगे० ज० प० विसे० । रदि-अरदि० ज० प० विसे० । अण्णदरवेद० ज० प० विसे० । माणसं० ज० प० विसे० । क्रोधसं० ज० प० विसे० । मायासं० ज० प० विसे० । लोभसं० ज० प० विसे० । दाणंत० ज० प० विसे० । लाभंत० ज० प० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । परिभोगंत० ज० प० विसे० । विरियंत० ज० प० विसे० । मणपज्ज० ज० प० विसे० । ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज० प० विसे० । आभिणि० ज० प० विसे० । ओधिदं० ज० प० विसे० ।

वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है ।

१३०. त्रस और त्रस पर्याप्तकोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयकी अपेक्षा अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशः-कीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्य और शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रति और अरतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य-प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।

१. ता०आ०प्रत्योः 'केवलणाणावरणीय त्ति' इति पाठः ।

अधक्खुदं० ज० प० वि० । चक्खुदं० ज० प० विसे० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरगोदं० ज० प० विसे० । अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० ।

१३१. वच्चि०-असच्चमोसवच्चिजोगीसु ओघो याव चक्खुदं० ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरे गोदे० ज० प० विसे० । अण्णदरे वेदणी० ज० प० विसे० । वेउव्वि० ज० प० [असंखेज्जगु० । देवगादि० ज० प०] असंखेज्जगु० । गिरयगदि० ज० प० संखेज्जगुणं । गिरय-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगुणं । आहार० ज० प० असं०गु० । एवं ओरालि० । कायजोगि० ओघं ।

१३२. ओरालियमिस्से मूलोघो याव अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । तदो वेउ० ज० प० असं०गु० । देवगदि ज० प० संखेज्जगु० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असं०गु० । वेउव्वियकायजो० सोधम्मभंगो याव चक्खुदं० ज० प० विसे० । तदो तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरे गोदं० ज० प० विसे० । अण्णदर-वेदणी० ज० प० विसे० । वेउव्वियमिस्स० एवं चेव । आउ० णत्थि ।

उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

१३१. वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । काययोगी जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है ।

१३२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थान के प्राप्त होनेतक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है । वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक सौधर्मकल्पके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुकर्म नहीं है ।

१. आ०प्रतौ 'वेउव्वि० ज० प० एवं चेव । आउ० असंखेज्जगु० ।' इति पाठः ।

१३३. आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवलणा० ज० प० । पयला० ज० प० विसे० । णिहा० ज० प० विसे० । केवलदं० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । देवग० ज० प० संखेज्जगु० । जस० ज० प० विसे० । अजस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० पदे० संखेज्जगु० । भय० ज० प० विसे० । हस्स० ज० प० विसे० । रदि० ज० प० विसे० । पुरिस० ज० प० विसे० । सोग० ज० प० विसे० । अरदि० ज० प० विसे० । माणसं० ज० प० विसे० । कोधसंज० ज० प० विसे० । मायासं० ज० प० विसे० । लोभसं० ज० प० विसे० । उवरि सव्वट्ठभंगो याव साद त्ति । तदो असाद० ज० प० विसे० । कम्मइग० ओरा०मि०भंगो । णवरि आउ० णत्थि ।

१३४. इत्थिवेदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभंगो । णवरि अवसाणे आहार० ज० प० असंगु० भाणिदव्वं । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि अवसाणे आहार० ज० प० असंगु० । णवुंसणे मूलोघो याव अण्णदरवेदणीय० ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असंगु० । वेउ० ज० प० असंगु० ।

१३३. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे रतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अरतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । आगे सातावेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है । उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । कार्मणकाययोगी जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आयुर्कर्म नहीं है ।

१३४. स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अन्तमें आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा कहना चाहिए । पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अन्त में आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । नपुंसकवेदी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थान के प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र

णिरय-देवग० ज० प० संखेज्जगु० । णिरय-देवाउ० ज० प० संखेज्जगु० । आहार० ज० प० असं०गु० ।

१३५. अवगदवे० सव्वत्थोवा केवलणा० ज० प० । केवलदं० ज० पदे० विसे० । दाणंत० ज० प० अणंतगु० । लाभंत० ज० प० विसे० । भोगंत० ज० प० विसे० । परिभोगंत० ज० प० विसे० । विरियंत० ज० प० विसे० । मणपज्ज० ज० प० विसे० । ओधिणा० ज० प० विसे० । सुदणा० ज० प० विसे० । आभिणि० ज० प० विसे० । माणसंज० ज० प० विसे० । कोधसंज० ज० प० विसे० । मायासंज० ज० प० विसे० । लोभसंज० ज० प० विसे० । ओधिदं० ज० प० विसे० । अचक्खुदं० ज० प० विसे० । चक्खुदं० ज० प० विसे० । जस०-उच्चा० ज० प० संखेज्जगु० । सादा० ज० प० विसे० ।

१३६. क्रोधादि०४ ओघं । मिदि-सुद० णवुंसगभंगो० । णवरि आहारस० णत्थि । विभंगे मूलोघो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । तिरिक्ख० ।

असंख्यातगुणा है । उससे नरकगति और देवगतिका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र असंख्यातगुणा है ।

१३५. अपगतवेदी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र सबसे थोड़ा है । उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे अचक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे चक्षुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे यशःकिर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशात्र संख्यातगुणा है । उससे सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है ।

१३६. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें नपुंसकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकशरीर नहीं है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणके अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशात्र

ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० वि० । मणुस० ज० प० वि० । णिरिय-
देवग० ज० प० वि० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरिमणजोगिभंगो ।

१३७. आभिणि-सुद-ओधि० उक्कस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो
ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा ज० प० विसे० । कम्मइ० ज० प० विसे० । वेउ०
ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० ।
दोगदि० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरि याव अणुदिस
विमाणवासियदेवभंगो याव सादासादा० त्ति । तदो आहार० ज० प० असंगु० । दो
आउ० ज० प० संखेज्जगु० ।

१३८. मणपज्जवणाणीसु उक्कस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय^१ त्ति । तदो वेउ०
ज० प० अणंतगु० । आहार० ज० प० विसे० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज०
प० विसे० । देवगदि ज० प० संखेज्जगु० । जस० ज० प० वि० । अजस० ज० प०
विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरि आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद-

संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे नरकगति और देवगति का जघन्य
प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे
मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

१३७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका
अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र
अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे दो गतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है ।
उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे सातावेदनीय और असाता-
वेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अनुदिशविमानवासी देवोंके समान भङ्ग है । उससे
आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे दो आयुका जघन्य प्रदेशाग्र
संख्यातगुणा है ।

१३८. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक उत्कृष्टके
समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे आहारक-
शरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक
है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगति का जघन्य प्रदेशाग्र
संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका
जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे
आगे आहारकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदो-

१ ता०प्रतौ 'उवरिम जोगिभंगो' आ०प्रतौ 'उवरिमजोगिभंगो' इति पाठः । २ ता०आ०प्रत्योः
'केवलणाणावरणीय' इति पाठः ।

सामाह०-छेदो०-परिहार० मणपञ्चभंगो । सुहृमसं० उक्त्सभंगो ।

१३६. संजदासंजदेसु उक्त्सभंगो याव देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । जस० ज० प० वि० । अजस० ज० प० विसे० । उवरिं आहारकायजोगिभंगो । असंजदेसु मूलोघं । णवरि आहार० णत्थि ।

१४०. चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओधिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेउ-पम्माणं मूलोघं याव केवलदंसणावरणं च्ति । तदो ओरालि० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसगदि० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । देवगादि० ज० प० वि० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरिं ओघं याव सादासादा० च्ति ज० प० वि० । तदो आहार० ज० प० असं०गु० । तिरिक्ख-मणुस-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगु० । सुक्कलेस्सिगेसु एवं चेव । णवरि तिरिक्खगादि०४ वज्ज ।

१४१. भवसि० ओघं । अब्भवसि० मदि०भंगो । सम्मा०-खइग०-वेदग० आभिणि०भंगो । उवसमसम्मा० ओधि०भंगो याव केवलदंसणावरणीयं च्ति । तदो

पस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें उक्कष्टके समान भङ्ग है ।

१३६. संयतासंयत जीवोंमें देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक उक्कष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । असंयत जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर नहीं है ।

१४०. चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें असंयत जीवोंके समान भङ्ग है । पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें केवलदर्शनावरणका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है । उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतिचक्षुकको छोड़कर कहना चाहिए ।

१४१. भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अभव्य जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अवधि-

ओरा० ज० प० अणंतगुणं । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । मणुसग० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । उवरिं ओधि०भंगो याव सादासादा० त्ति । तदो वेउ० ज० प० असं०गु० । आहार० ज० प० विसे० । देवग० ज० प० संखेज्जगु० ।

१४२. सासणे उक्कस्सभंगो याव केवलदं० । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । तिरिक्ख० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरिं उक्कस्सभंगो याव चदुदंसणावरणीय त्ति । तदो अण्णदरगोद० ज० प० संखेज्जगु० । अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० असं०गु० । देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । तिण्णिआउ० ज० प० संखेज्जगु० ।

१४३. सम्मामि० ओधिणाणिभंगो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । देवग० ज०

ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अतन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है ।

१४२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें केवलदर्शनावरणका भङ्ग प्राप्त होनेतक उत्कृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे आगे चारों दर्शनावरणयका भङ्ग प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है । उससे आगे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे तीन आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है ।

१४३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें केवलदर्शनावरणयका भङ्ग प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र अनन्तगुणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे कर्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाग्र विशेष

प० विसे० । दुग्० ज० प० संखेजगु० । उवरिं आउगवजा याव मणपञ्चवणाणावरणीय
त्ति । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो । सण्णीसु मणुसभंगो । असण्णीसु मदिअण्णाणिभंगो ।
आहारा० ओघभंगो । अणाहारा० कम्मइयभंगो ।

एवं जहण्णपरत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं चदुवीसमणियोगहारं समत्तं ।

भुजगारबंधो अट्टपदं

१४४. एत्तो भुजगारबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंत-
रोसक्काविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहुदरं बंधदि त्ति एसो भुजगारबंधो णाम ।
अप्पदरबंधे त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंतरुस्सक्काविद-
विदिकंते^१ समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि त्ति एसो अप्पदरबंधो णाम । अवट्टिदबंधे
त्ति तत्थ इमं अट्टपदं—याणि एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंतरोसक्काविद-उस्सक्काविदविदिकंते
समए तत्तियं तत्तियं चैव बंधदि त्ति एसो अवट्टिदबंधो णाम । अबंधादो बंधो एसो अवचच्च-
बंधो णाम । एदेण अट्टपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगहारणि—समुक्कित्थणा याव
अप्पाबहुगे त्ति ॥ १३ ॥

अधिक है । उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशात् विशेष अधिक है । उससे जुगुप्साका जघन्य-
प्रदेशात् संख्यातगुणा है । इससे आगे आयुर्कर्मको छोड़कर मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान अल्प-
बहुत्व जानना चाहिए । मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्त्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । संज्ञी जीवोंमें मनुष्यों
के समान भङ्ग है । असंज्ञी जीवोंमें मत्त्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । आहारक जीवोंमें ओघके
समान भङ्ग है । तथा अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

भुजगारबन्ध—अर्थपद

१४४. यहां से आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसके विषयमें यह अर्थपद है—इस
समयमें जिन प्रदेशोंका बन्ध करता है उन्हें अनन्तर पिछले व्यतीत हुए समयमें घटाकर
बाँधे गये अल्पतरसे बहुतर बाँधता है, इसलिए यह भुजगारबन्ध कहलाता है । अल्पतर-
बन्धके विषयमें यह अर्थपद है—इस समय जिन प्रदेशोंको बाँधता है उन्हें अनन्तर पिछले
व्यतीत हुए समयमें बढ़ाकर बाँधे गये बहुतरसे अल्पतर बाँधता है, इसलिए यह अल्पतरबन्ध
कहलाता है । अवस्थित बन्ध के विषयमें यह अर्थपद है—इस समय जिन प्रदेशोंको बाँधता
है उन्हें अनन्तर पिछले समयमें घटाकर या बढ़ाकर बाँधे गये प्रदेशोंके अनुसार उतने ही
बाँधता है, इसलिए यह अवस्थितबन्ध कहलाता है । तथा अबन्धके बाद बन्ध होना यह
अवक्तव्यबन्ध कहलाता है । इस अर्थपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुक्कीर्तनासे
लेकर अल्पबहुत्व तक १३ ।

१ ता०प्रत्तौ 'इमं याणि' इति पाठः । २ ता०प्रत्तौ 'बंधदि । अणंतरुस्सक्काविदविदिकंते' इति पाठः ।

समुक्कित्तणाणुगमो

१४५. समुक्कित्तणाए दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं अत्थि भुजगारबंधगा अप्पदरबंधगा अवट्टिदबंधगा अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालियका०-आभिणि-सुद०-ओधि०-मणपञ्ज०-संज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग त्ति ।

१४६. णिरए सु धुवियाणं अत्थि भुज०-अप्पदर०-अवट्टिद० । सेसाणं ओघभंगो । एवं सव्वणोरइएसु । णवरि पढमाए तित्थयरं धुवियाण भंगो । विदियाए तदियाए साद०भंगो । एदेण बीजेण याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि वेउव्वियमि०-आहारमि० धुवियाणं अत्थि भुज० । सेसाणं परियत्तमाणियाणि अत्थि भुजगार०-अवत्तव्व० ।

विशेषार्थ—जिन तेरह अनुयोगद्वाराका आश्रय लेकर भुजगारबन्धका कथन किया जा रहा है उनके नाम ये हैं—समुक्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व ।

समुक्कीर्तनानुगम

१४५. समुक्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक, अवस्थितबन्धक और अवक्तव्यबन्धक जीव हैं । इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले, शुकलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितबन्ध तो सम्भव है ही, क्योंकि योगकी घटा-बढ़ी होनेसे और एक समान योगके रहनेसे ये पद सब प्रकृतियोंके बन जाते हैं । साथ ही जो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनका अवक्तव्यबन्ध भी सर्वत्र सम्भव है और जो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनकी यथायोग्य स्थानमें बन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः पूर्वस्थान प्राप्त होनेपर उनका बन्ध होने लगता है, इसलिए ओघसे इनका भी अवक्तव्यबन्ध बन जाता है । यहाँ मनुष्यत्रिक आदि जितनी मार्गणाए गिनाई हैं उनमें जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनमें ओघके अनुसार भुजगार आदि चारों पद बन जाते हैं, इसलिए उन मार्गणाओंमें ओघके समान प्ररूपणा जर्तनेकी सूचना की है ।

१४६. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक और अवस्थितबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । तथा दूसरी और तीसरी पृथिवीमें तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली

कम्मइ०-अणहार० ध्रुवियाणं देवगदिपंचगस्स य अत्थि भुज० । सेसाणं अत्थि भुज०-
अवत्तव्व०^१ ।

एवं समुक्त्तिगा समत्ता ।

प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक जीव हैं । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक और अवक्तव्य-
बन्धक जीव हैं । कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और
देवगतिपञ्चकके भुजगारबन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक और अवक्तव्य-
बन्धक जीव हैं ।

विशेषार्थ—यहां नारकियोंमें जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों हैं उनका निरन्तर बन्ध होता
रहता है, इसलिए उनका अवक्तव्यबन्ध सम्भव न होनेसे तीन ही बन्ध कहे । अध्रुवबन्धिनी
प्रकृतियोंका अवक्तव्यबन्ध भी सम्भव है, इसलिए उनका ओघके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की
है । सब नारकियोंमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका निरूपण सामान्य नारकियोंके
समान जाननेकी सूचना की है । मात्र पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला
ऐसा ही मनुष्य मर कर उत्पन्न होता है जो सम्यग्दृष्टि होता है, अतः वहां यह प्रकृति भी
ध्रुवबन्धिनी होती है, इसलिए वहां इसका अवक्तव्यबन्ध सम्भव न होनेसे ध्रुवबन्धवाली
प्रकृतियोंके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की है । तथा दूसरी और तीसरी पृथिवीमें तीर्थङ्कर
प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर उत्पन्न होता है, इसलिए वहां इसका
मिथ्यात्वके कालमें बन्ध नहीं होता । बादमें जब वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब पुनः बन्ध प्रारम्भ
होता है, इसलिए वहां इसका सातावेदनीयके समान अवक्तव्यबन्ध घटित हो जानेसे साता-
वेदनीयके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की है । यह पूर्वोक्त प्ररूपणा बीजपद है ।
आगे अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अर्थात् जिस मार्गणामें
जो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हों उनके तीन पद और अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके चार पद जानने
चाहिए । मात्र जिन मार्गणाओंमें कुछ विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है । खुलासा
इस प्रकार है—वैक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें एकान्तानुवृद्धियोग होता
है, इसलिए इन दो मार्गणाओंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका केवल भुजगारबन्ध ही सम्भव है,
क्योंकि इनमें प्रति समय उत्तरोत्तर योगकी वृद्धि होनेसे इन प्रकृतियों का उत्तरोत्तर प्रवेशबन्ध
भी अधिक-अधिक होता है । तथा जो अध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों हैं उनके भुजगारबन्ध और
अवक्तव्यबन्ध ही सम्भव है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें अवक्तव्य-
बन्ध होता है और द्वितीयादि समयोंमें भुजगारबन्ध होता है । कार्मणकाययोग और अनाहारक-
मार्गणामें भी इसी प्रकार घटितकर लेना चाहिए । इन दोनों मार्गणाओंमें जिन जीवोंके
देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है उनके उन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए
इनमें इन पाँच प्रकृतियोंकी परिगणना ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके साथ की है ।

इस प्रकार समुक्त्तिर्तना समाप्त हुई ।

१ ता० प्रती अत्थि भुज० अवत्तं (त०) इति पाठः । २ ता० प्रती 'एवं समुक्त्तिणा समत्ता' इति
पाठो नास्ति । -

सामित्ताणुगमो

१४७. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दुगुं-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि०बंधगो को होदि ? अण्णदरो । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० उवसामयस्स परि-वदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसिए वा पढमसमयदेवस्स वा । थीणगिद्वि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिण्णि पदा कस्स० ? अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा । णवरि मिच्छ० अवत्त० [सम्मामिच्छत्तादो] सासण-सम्मत्तादो वा परिवदमाणय० मिच्छादिद्विस्स । सादादीणं सव्वपगदीणं परियत्तमाणीणं तिण्णि पदा कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ! अण्ण० परियत्तमाणयस्स पढमसमय-बंधयस्स । अपच्चक्खाण०४ तिण्णि पदा कस्स० ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा० संजमासंजमादो वा परिवदमा० पढमसमयमिच्छा० वा सासण० वा [सम्मामि० वा] असंजदसम्मा० वा । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि संजमादो परिवद-माणयस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स वा सासण० वा सम्मामि० वा असंजदसम्मादि०

स्वामित्वानुगम

१४७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी और इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मर कर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती देव इनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । स्त्यानगुद्वित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? संयमसे, संयमासंयामसे और सम्यक्त्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका स्वामी सम्यग्मिथ्यात्व और सासादनसम्यक्त्वसे भी गिरनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव ही होता है । परावर्तमान सातावेदनीय आदि सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? परावर्तन करके प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है । इनके अवक्तव्य पदका स्वामी कौन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिर कर जो मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ है, प्रथम समयवर्ती उक्त गुणस्थानोंवाला वह जीव उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका स्वामी है । इसी प्रकार अर्थात् अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके समान प्रत्याख्यानवरण चतुष्कके चार पदोंका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो संयमसे गिर कर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि या

वां संजदासंजदस्स वा । चटुण्णं आउगाणं तिण्णि पदा कस्स० ! अण्णद० । अवत्त० कस्स० ! अण्ण० पढमसमयआउगबंधमाणयस्स । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आभिणि-सुद-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मा०-खइग०-उवसम०-सण्णि०-आहारग त्ति । णवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-संजद० अवत्तव्वं देवो०त्ति ण भाणिदव्वं । एवं एदेण बीजेण याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

एवं सामित्तं समत्तं^१ ।

संयतासंयत होता है वह प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका स्वामी है। चार आयुओंके तीन पदोंका स्वामी कौन है? अन्यतर जीव चार आयुओंके तीन पदोंका स्वामी है। इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है? प्रथम समयमें आयुबन्धका प्रारम्भ करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है। इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चद्वियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनिबोधिक-ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेखावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, औदारिककाययोगी और संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहरक मार्गणा तक लेजाना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ किस प्रकृतिके किस पदका कौन जीव स्वामी है इस बातका विचार किया गया है। प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियों अपनी अपनी बन्ध-व्युच्छित्तिके स्थानके पूर्व ध्रुवबन्धवाली है, इसलिए इस बीच कोई भी जीव इनके भुजगार आदि तीन पदोंमें से किसी भी पदका स्वामी हो सकता है, अतः इनके तीन पदोंका अन्यतर जीव स्वामी कहा है। पर इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणीसे गिरनेवाले या तो मनुष्यके होता है या मनुष्यिनीके होता है और यदि ऐसा मनुष्य या मनुष्यिनी इनका पुनः बन्ध होनेके पूर्व मर कर देव हो जाता है तो वह भी प्रथम समयमें इनके अवक्तव्यपदका स्वामी होता है, इसलिए ऐसे जीवोंको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई स्त्यानगुद्धित्रिक आदि भी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके पूर्वतक ध्रुवबन्धिनी हैं, इसलिए इस बीच कोई भी जीव यथायोग्य योगके अनुसार इनके तीन पदोंका बन्ध कर सकता है, अतः इनके भी तीन पदोंका अन्यतर जीव स्वामी कहा है। पर इनमेंसे मिथ्यात्वके सिवा शेष प्रकृतियों का अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यादृष्टि हुए जीवके प्रथम समयमें होता है और मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सासादन-सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमें होता है, क्योंकि अपनी अपनी व्युच्छित्तिके बाद ऊपरके गुणस्थानोंमें इनका बन्ध नहीं होता है। लौट कर पुनः बन्धयोग्य गुणस्थानोंके प्राप्त होने पर इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए ऐसे जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है। यहाँ सम्यग्मिथ्यात्वसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता है वह भी

१. तलप्रतौ 'एवं समित्तं समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

कालाणुगमो

१४८. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सच्चपगदीणं भुजगार०-
अप्पद० जह० एगसमयं, उक्क० अंतोमुहुत्तं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० पवाइज्जंतेण
उवदेसेण एकारससमयं । अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं । चटुण्णं आउगाणं भुज०-
अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सत्तसम० । अवत्त०

स्त्यानगुद्धित्रिक आदिके अवक्तव्यपदका स्वामी होता है इतना विशेष जानना चाहिए । यद्यपि यह बात मूलमें नहीं कही गई है फिर भी यह सम्भव है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है । सातावेदनीय आदि अध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें अवक्तव्यपद और द्वितीयादि समयोंमें शेष तीन पद सम्भव हैं यह स्पष्ट ही है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क चतुर्थ गुणस्थान तक ध्रुवबन्धिनी है । इस बीच कोई भी जीव इनके तीन पदों का स्वामी हो सकता है । आगेके गुणस्थानोंमें इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए संयम या संयमासंयमसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि होता है वह इनके अवक्तव्य पदका स्वामी होता है यह कहा है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका संयमासंयम गुणस्थान तक बन्ध होता है, इसलिए यहाँ तक ये ध्रुवबन्धवाली होनेसे इस बीच किसी भी जीवको इनके तीन पदों का स्वामी कहा है । मात्र इनका अवक्तव्य पद संयमसे गिरकर नीचेके गुणस्थानोंको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें होता है यह देखकर संयमसे गिर कर मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत-सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत हुए प्रथम समयवर्ती जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है । चार आयुका अपने बन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर ही बन्ध होता है, इसलिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें इनका अवक्तव्य पद और द्वितीयादि समयोंमें शेष तीन पद कहे हैं । यह ओघ प्ररूपणा है । मूलमें कही गई मनुष्यत्रिक आदि मार्गणाओंमें अपनी अपनी बन्ध प्रकृतियोंके अनुसार यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मूलमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका स्वामी ऐसा जीव भी कहा है जो उपशमश्रेणियोंमें इन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मर कर प्रथम समयवर्ती देव होता है । पर स्वामित्वका यह विकल्प मनुष्यत्रिक आदि कुछ मार्गणाओंमें घटित नहीं होता, अतः उनमें उसका निषेध किया है । इनके सिवा अनाहारक तक अन्य जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें उक्त व्यवस्थाको देखकर स्वामित्व साध लेना चाहिए । उक्त प्ररूपणा उन मार्गणाओंमें स्वामित्वके लिए साधनेके लिए बीजपद है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

कालानुगम

१४८. कालानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरु पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार ग्यारह समय है । परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है । चार आयुओंके भुजगार और अल्पतरुपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । अवक्तव्यपदका जघन्य और

जहं० उक्क० ए० । एवं याव अणाहारग त्ति णेद्वं । णवरि ओरालियमि० देवगदि-
पंचगस्स भुज० जहं० उक्क० अंतो० । दोआउ० ओघं । सेसाणं गदिभंगो । एवं
वेउ च्वियमि० । आहारमि० धुवियाणं भुज० ज० उक्क० अंतो० । परियत्तमाणीणं भुज०-
अवत्त० ओघं । कम्मइ०-अणाहार० भुज० जहं० एगं०, उक्क०वेसम० । अवत्त०
जहं० उक्क० एग० । सुहुमसंप०-उवसमसम्मा० अवट्ठि० जहं० एग०, उक्क० सत्तसमयं ।
एवं कालं समत्तं ।

उत्कृष्ट काल सबका एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग गतिके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सूक्ष्मसाम्परायसंयत और उपशम-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है।

विशेषार्थ—योगके अनुसार भुजगार और अल्पतरपद एक समय तक भी हो सकते हैं और अन्तर्मुहूर्त काल तक भी हो सकते हैं। यही कारण है कि यहां पर सब प्रकृतियोंके इन दो पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अवस्थितपदका जघन्य काल तो एक समय ही है, क्योंकि एक समयके लिए अवस्थितपद होकर दूसरे समयमें अन्य पद हो यह सम्भव है। पर इसके उत्कृष्ट कालके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं—प्रथम प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार उत्कृष्ट कालका निर्देश और दूसरा अप्रवर्तमान उपदेशके अनुसार उत्कृष्ट कालका निर्देश। प्रथम उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल ग्यारह समय बतलाया है और दूसरे उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल पन्द्रह समय बतलाया है, इसलिए यहां सब प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल ग्यारह या पन्द्रह समय कहा है। चारों आयुओंके तीनों पदोंका यह काल इसी प्रकार है। मात्र अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल ग्यारह समय या पन्द्रह समय न प्राप्त होकर केवल सात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इनके तीनों पदोंके कालका अलगसे निर्देश किया है। अब रहा सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका काल सो यह पद बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अनाहारक तक जितनी मार्गणाएँ हैं उनमें यह काल प्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जानने की सूचना की है। मात्र कुछ मार्गणाएँ इसकी अपवाद हैं, इसलिए उनमें अलगसे कालका विचार किया है। उनमेंसे पहली औदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा है। इसमें सम्यग्दृष्टि अपर्याप्त जीवोंमें देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवोंके इनका नियमसे भुजगारबन्ध होता रहता है, इसलिए इस मार्गणामें उक्त पाँच प्रकृतियोंके भुजगारपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इस मार्गणामें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इसमें शेष प्रकृतियोंके चारों पदोंका काल गति मार्गणा के अनुसार बन जाता है, इसलिए वह गतिके अनुसार जाननेकी सूचना की है। आहारकमिश्रकाययोगमें

१. आ०प्रतौ 'देवगदिपंचगस्स च जह' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अणाहार० भुज० ए०' इति पाठः ।

अंतराणुगमो

१४६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद० बंधंतरं० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेटीए अमंखे० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्रपोग्गल० । थीणगिदि०३-भिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेखावट्ठि० देसु० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखेज० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्रपोग्गल० । सादासाद०-हस्सरदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० णाणावरणभंगो । अवत्त०

एकान्तानुवृद्धि योग होता है, इसलिए इसमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों का एक भुजगारपद होनेसे उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा शेष प्रकृतियाँ परावर्तमान होती हैं। उनका जघन्य बन्धकाल एक समय है और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहां ओघके अनुसार इन प्रकृतियोंके भुजगारबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र यहां भुजगारका जघन्य काल एक समय प्राप्त करनेके लिए दो समय तक इन प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इन दो समयोंमें प्रथम समय अवक्तव्यका और दूसरा समय भुजगारका होनेसे भुजगारका जघन्य काल एक समय प्राप्त होगा। यहां सब परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका ओघके अनुसार जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक मार्गणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। पर इनमें प्रथम समय अवक्तव्यका है, इसलिए यहां भुजगारका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अवक्तव्यका उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। सूत्रमसाम्पराय आदि दो मार्गणाओंमें मात्र अवस्थितपदके कालमें विशेषता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तर

१४६. अन्तरानुमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है। अवक्तव्यबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। स्थान-गुद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर प्रमाण है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः-

१. ता०आ०प्रत्योः 'असंखेजगु० । अवत्त०' इति पाठः ।

जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्टक० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अवट्टि०-अवत्त० णाणावरणभंगो । इत्थि० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० मिच्छ०-भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेच्चावट्टि० देसू० । पुरिस० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेच्चावट्टि० सादि० । णवुंस० पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेच्चावट्टिसाग० सादि० तिण्णिपलि० देसू० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० वेच्चावट्टि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसू० । तिण्णिआउ०-वेउव्वियच्छक० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० । तिरिक्खाउ० भुज०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । अवट्टि० णाणा०भंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमसदं० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । णवरि उज्जो० अवत्त० [जह०] अंतो०, [उक्क०] तेवट्टिसागरोवमसदं । अवट्टि० णाणा०भंगो । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा,

कीर्ति और अयशःकीर्तिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है । पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । तीन आयु और वैक्रियिकषट्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है । तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण

लोगा । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-आदाव-
थावर-सुहुम-अपज्जत्त^१-साधारण० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पंचासीदि-
सागरोवमसदं० । एवं अवत्त० । जह० अंतो० । अवट्ठि० णाणा०भंगो । पंचिदि०-
पर०-उस्सा०-तस०-बादर०-पज्ज०-पत्ते० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० णाणा०भंगो ।
अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं० । ओरो० भुज०-अप्पद० जह०
एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० ।
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमं० । एवं ओरालि०अंगो-वज्जरिं० । णवरि
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । आहारदुगं तिण्णिपदा जह० एग०,
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्रुपोग्गल० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०
भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेटीए
असंखे० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्ठि० सादि० तिण्णिपलि० देसु० ।
तित्थं भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, अवत्तं०
जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । णीचा० णवुंसगभंगो । णवरि अवत्त० जह०

है । चार जाति, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागरप्रमाण है । इसी प्रकार अवक्तव्यपदकी अपेक्षा अन्तरकाल है । मात्र इस पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है । औदारिक-शरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है । इसी प्रकार औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और धादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदके समान

१. आ०प्रतौ 'सुहुमसं अपज्जत्त' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'उक्क०सेटीए अणंतकालमं' इति पाठः ।

३. ता०आ०प्रत्योः 'ओरालि०भंगो वज्जरिं' इति पाठः । ४. आ०प्रतौ 'जह० एग० उ० अंतो० अवत्तं' इति पाठः ।

अंतो०, उक्त० असंखेज्जा लोगा । एवं औघभंगो अवक्खुदंभवसि० ।

है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान अवक्खुदर्शनी और भव्य जीवामे जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका भुजगार और अल्पतरपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे सम्भव है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके इन पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पहले कह आये हैं, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदके योग्य योग एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी हो सकता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । कुल योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । उनमें से एक-एक पदके योग्य योगस्थान भी जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । इसलिए यदि अन्य पदोंके योग्य उक्त योगस्थान लगातार होते रहें और अवस्थित-पदके योग्य योगस्थान न हों तब अवस्थित पदका यह उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । इन प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर दूसरी बारमें उतरते समय मरण कराके देवोंमें उत्पन्न कराने पर प्राप्त होता है और अर्ध-पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर उतारने पर इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । स्त्यानागृद्धित्रिक आदि आठ प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय तो पाँच ज्ञानावरण आदिके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा इनका बन्ध, जो जीव बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रह कर कुछ कम दो छथासठ सागरकाल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा है, उसके नहीं होता । इसके पूर्व और बादमें मिथ्यादृष्टि रहने पर अवश्य ही होता है और वह यथायोग्य भुजगार और अल्पतर दोनों प्रकारका हो सकता है, अतः इन आठ प्रकृतियोंके उक्त दो पदों का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर प्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण जिस प्रकार पाँच ज्ञानावरण आदिके अवस्थित पदकी अपेक्षा घटित करके बतला आये हैं उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र वहाँ उपशमश्रेणिकी अपेक्षासे यह अन्तरकाल घटित होता है और यहाँ यह अन्तरकाल सम्यक्त्वकी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए । सातावेदनीय आदिके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयतासंयत आदिके और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयतके बन्ध नहीं होता और इन दोनों संयमासंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए यहाँ इन आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । यहाँ जघन्य अन्तर एक समय पहले घटित करके बतला आये हैं, इसलिए उसका फिरसे खुलासा नहीं किया । आगे भी जो अन्तरकाल पुनरुक्त होगा

उसका अलगसे खुलासा नही करेंगे। इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट है। मात्र यहाँ पर अवक्तव्य पदका अन्तरकाल क्रमसे संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके घटित कर लेना चाहिए। स्त्रीवेदके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि यह सप्रतिपक्ष प्रकृति होने से अन्तर्मुहूर्तके भीतर इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है, क्योंकि इतने काल तक जीवके बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यग्दृष्टि रहनेसे इसका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा है। पुरुषवेदके प्रारम्भके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा यह सप्रतिपक्ष प्रकृति होनेसे अन्तर्मुहूर्तके भीतर एक तो इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है, दूसरे एक बार इसका बन्ध प्रारम्भ करके कोई जीव सबसे उत्कृष्ट काल तक बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ सम्यग्दृष्टि रहा और वहाँ इसका बन्ध करता रहा। पुनः मिथ्यात्वमें आकर और इसका अबन्धक होकर अन्तर्मुहूर्तमें पुनः इसका बन्ध करने लगा। यह काल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण होता है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। नपुंसकवेद आदिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है यह तो स्पष्ट ही है। तथा भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर इनका बन्ध नहीं होता और वहाँसे निकलनेके पूर्व जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण काल तक सम्यक्त्वके साथ यापन करता है उस जीवके भी इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। उसके बाद मिथ्यात्वमें जाने पर उक्त दो पदों के साथ बन्ध होने लगता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर जैसा भुजगार आदि दो पदोंका घटित करके बतलाया है उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तीन आयु आदि नौ प्रकृतियोंके तीन पद तो एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं तथा अवक्तव्यपद कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे ही होगा, क्योंकि प्रथम बार बन्धका प्रारम्भ और अन्त होकर पुनः बन्धका प्रारम्भ होनेमें लगनेवाला काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं हो सकता, इसलिए आदिके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा लगातार अनन्त काल तक एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्यायमें जीवके रहते हुए इनका बन्ध नहीं होता। तथा बन्धके अभावमें भुजगार आदि पद तो सम्भव ही नहीं हैं, अतः इन प्रकृतियोंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चायुके भुजगार आदि दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त पूर्वमें कहे गये तीन आयु आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा कहे गये जघन्य अन्तरकालके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा कोई जीव यदि अधिकसे अधिक काल तक तिर्यञ्च न हो तो वह सौ पृथक्त्व सागर काल तक ही नहीं होता, इसलिए तिर्यञ्चायुके उक्त तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इसके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है। जो सम्यक्त्व और बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ १३२ सागर बिताकर अन्तमें नौवें प्रवेयकमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, इसलिए तिर्यञ्चगतिद्विकके भुजगार और अल्पतर पदका तथा उद्योतक्रे प्रारम्भके

तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। मात्र तिर्यञ्चगतिद्विकके और उद्योतके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त होता है, क्योंकि इनका एक बार बन्ध प्रारम्भ होकर और बीचमें कमसे कम अन्तर पड़कर पुनः दूसरी बार इनके बन्धका प्रारम्भ अन्तर्मुहूर्तसे पहले नहीं हो सकता। और तिर्यञ्चगतिद्विकका निरन्तर बन्ध तैजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमें असंख्यात लोकप्रमाण काल तक होता रहता है, इसलिए इन दोनोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इन तीनों प्रकृतियोंके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगति आदि तीनका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नहीं करते, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा इनके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त अन्य प्रकृतियोंका पूर्वमें अनेक बार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। चार जाति आदिका बन्ध निरन्तर एक सौ पचासी सागर तक नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके इन तीन पदोंके जघन्य अन्तर कालका विचार तथा अवस्थितपदके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कालका विचार सुगम है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका एक सौ पचासी सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इनका शेष विचार सुगम है। जो मनुष्य प्रथम त्रिभागमें मनुष्यायुका बन्ध कर और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि होकर उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है उसके साधिक तीन पल्य तक औदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसलिये इसके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागका स्पष्टीकरण ज्ञानावरणके समान कर लेना चाहिए। तथा इसका कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे बन्ध सम्भव है और एकेन्द्रियोंमें इसका अनन्त काल तक निरन्तर बन्ध होनेसे इतने कालके अन्तरसे भी इसका उक्त पद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। औदारिक शरीर अङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके अन्य पदोंका अन्तर काल औदारिकशरीरके समान बन जानेसे उस प्रकार जाननेकी सूचना की है। मात्र इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है। उत्कृष्ट अन्तरकाल अलग-अलग प्रकृतिका विचार कर घटित कर लेना चाहिए। आहारकद्विकका बन्ध अर्धपुद्गल परावर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें करानेसे इनके चारों पदोंका उक्त काल प्रमाण अन्तर प्राप्त हो जाता है। शेष विचार सुगम है। समचतुरस्रसंस्थान आदिके प्रारम्भके तीन पदोंका जो अन्तरकाल कहा है वह ज्ञानावरणके ही समान है, इसलिए ज्ञानावरणके प्रसंगसे जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है और कुछ कम तीन पल्य अधिक दो बार छयासठ सागरके अन्तरसे भी दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। यहाँ जो उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है सो इतने काल तक तो इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, किन्तु इसके प्रारम्भमें इनका बन्ध प्रारम्भ करावे और सम्यक्त्वके कालके पूर्ण होनेपर मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा अन्य सप्रतिपन्न प्रकृतियोंका बन्ध कराकर पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करावे और इस प्रकार यह उत्कृष्ट अन्तर काल ले आवे। अन्यत्र भी जहाँ विशेष खुलासा नहीं किया हो वहाँ इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिए।

१५०. गिरएसु ध्रुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवड्डि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णबुंसं० दोगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-दोगोद० भुज०-अप्पद०-अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । दोवेद०-चदुणोक०-थिरादितिणियुगं भुज०-अप्प०-अवड्डि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्पद०-अवड्डि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । दोआउ० भुज०-अप्पद०-अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं०

तीर्थङ्कर प्रकृतिका और अन्तरकाल सुगम है । केवल अवस्थित और अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालका विचार करना है । इस प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्ध काल साधिक तेतीस सागर है । यह सम्भव है कि बन्धकालके प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित पद हो और मध्यमें न हो, इसलिए तो इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । तथा किसीने तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध करनेके बाद मनुष्य पर्यायमें उपशमश्रेणिपर चढ़कर और इसका अबन्धक होकर उतरते समय पुनः बन्ध प्रारम्भ किया । इस प्रकार अवक्तव्यपदका साधिक तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जानेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है । इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त इसके बन्धका प्रारम्भ कराके और अन्तमुहूर्तके भीतर उपशमश्रेणि पर चढ़ा कर और मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न कराकर पुनः बन्धका प्रारम्भ करनेसे प्राप्त हो जाता है । नीचगोत्रका अन्य सब भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । मात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें इतने काल तक इसका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इसके प्रारम्भमें और बादमें नीचगोत्रके बन्धका प्रारम्भ कराकर अवक्तव्यपदका यह अन्तर काल ले आना चाहिए । अचलुदर्शनी और भव्य जीवोंमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

१५०. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायो-गति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायो-गति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । दो आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना

देसू० । तित्थ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क०
तिणिण सागरो० सादि० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणोरइयाणं अप्पप्पणो अंतरं
णेद्वं । णवरि पढमाए पुढवीए तित्थ० अवत्त० णत्थि अंतरं ।

है । तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें अपना-अपना अन्तरकाल ले आना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें जो ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका अवस्थित पद भवके प्रारम्भमें और अन्तमें हो मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहां इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए उसकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं कहा है । स्थानगुद्धि तीन आदिके चारों पदोंका जो उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है उसका खुलासा इस प्रकार है—कोई जीव नरकमें जाकर और सम्यक्त्वको प्राप्त कर इनका अबन्धक हुआ । पुनः कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः इनका बन्ध करने लगा । इसप्रकार तो भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है । तथा नारकी होकर प्रारम्भमें अवस्थित पद किया और अन्तमें अवस्थितपद किया, इसलिए इसका भी उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । यहां जो सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं उनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त तो सुगम है पर स्थानगुद्धित्रिक आदि आठ प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त दो बार सम्यक्त्व कराकर और मिथ्यात्वमें ले जाकर प्राप्त कर लेना चाहिए । दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती पर अवस्थितपदका जो उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वह कैसे बनता है यह विचारणीय है । बात यह है कि यहां अवस्थितपद प्रत्येक जीवके होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अवस्थितपदके कारणभूत जो योगस्थान हैं वे अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी होते हैं और एक समयके अन्तरसे भी होते हैं पर नारकी जीवका नरकमें उत्कृष्ट अवस्थानकाल तेतीस सागरसे अधिक नहीं होता और इस कालके भीतर अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काल दिखाना आवश्यक था, इसलिए जिस जीवने इन प्रकृतियोंका नरकभवके प्रारम्भमें अवस्थित पद किया और नरकभवके अन्तमें अवस्थित पद किया मध्यमें नहीं किया उसको लक्ष्यमें रखकर अवस्थितपदका यहां उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । अन्यत्र जहां भी भवस्थिति और कायस्थितिमें फरक नहीं है या कायस्थिति जगश्रेणिके असंख्यातवें भागसे न्यून है वहाँ इसी बीजपदके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए । तथा इन दो वेदनीय आदिके दो बार बन्धके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । पुरुषवेद आदि सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ तो हैं पर सम्यग्दृष्टिके ये निरन्तरबन्धिनी हैं, इसलिए यहां इनके प्रारम्भके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जाता है । अब रहा अवक्तव्यपद सो इनका मिथ्यादृष्टिके

१५१. तिरिक्खेसु धुवियाणं भुज०-अप्पद०-अवट्टि० ओघं । थीणगि०३-मिच्छ०-
अणंताणु०४ भुज०-अप्पद० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । अवट्टि०-
अवत्त० ओघं । दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिणियु० चत्तारि पदा ओघं । [अपच्च-
क्खाण०४ ओघभंगो] । इत्थि० भुज०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०,
उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । अवट्टि० ओघं । पुरिस० भुज०-अप्पद०-अवट्टि०
णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । णबुंस०-चदुजादि-
[ओरा०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-आदाउज्जो०-अप्पसन्थ०-थावरादि०४-
दूभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडि० देसूणं० । अवट्टि०
णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । तिण्णिआउ० भुज०-

अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार बन्ध होना सम्भव है और नरकभवके प्रारम्भमें इनका बन्ध प्रारम्भ करे । तथा सम्यक्त्वके साथ रह कर भवके अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंसे अन्तरित कर पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करे यह भी सम्भव है । यही कारण है कि यहां इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । दो आयुओके भुजगार आदि तीन पद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए दोनों आयुओके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय कहा है पर दूसरी बार आयुबन्धका प्रारम्भ कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल गये बिना नहीं हो सकता, इसलिए इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा नरकमें प्रथम त्रिभागमें आयु बन्ध हो और उसके बाद कुछ कम छह महीनाका अन्तर देकर आयुबन्ध हो यह सम्भव है यह देखकर यहां इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव यदि नरकमें उत्पन्न होता है तो उसको आयु साधिक तीन सागरसे अधिक नहीं होती, यह देखकर यहां इसके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सामान्यसे नरकमें और प्रथम नरकमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

१५१. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । स्त्यागुद्धिन्निक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके चार पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । पुरुषवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । नपुंसकवेद, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भंग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तीन आयुओंके

१. ता०प्रतौ 'ओघं । थि (थी) णगि०, इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'अवत्त० जह० उक्क०' इति पाठः ।

अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देसुणं० ।
तिरिक्खाउ० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । अवट्टि० गाणा०-
भंगो । अवत्त० ज० अंतो, उक्क० पुव्वकोडी सादि० । वेउव्वियल्लकं मणुसगदितिगं
ओघं । तिरिक्खगदितिगं णवुंसगभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो, उक्क० असंखेज्जा
लोगा । पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-
अप्पद०-अवट्टि० गाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो, उक्क० पुव्वकोडी० देसु० ।

भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण है। वैक्रियिकषट्क और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्जगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है।

विशेषार्थ—यहाँ व आगे सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका जो जघन्य अन्तरकाल कहा है वह सुगम है, क्योंकि उसका ओघप्ररूपणाके समय अलग-अलग स्पष्टीकरण कर आये हैं, अतः उसे वहाँ देखकर सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए। जहाँ कुछ वक्तव्य होगा वहाँ उसका निर्देश करेंगे ही। मात्र सर्वत्र यथासम्भव पदोंके उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण करना आवश्यक समझ कर उसपर अवश्य ही विचार करेंगे। उसमें भी भुजगार और अल्पतरपदके विषयमें जहाँ विशेष वक्तव्य होगा वहीं उसका निर्देश करेंगे। यहाँ तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल होनेसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान बन जानेसे वह ओघके समान कहा है। आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका अन्तरकाल ओघके समान कहा है वह भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए। स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके भुजगार और अल्पतरपद उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भमें हों, उसके बाद सम्यग्नुष्टि होकर इनका बन्ध न होनेसे मध्यमें न हों और अन्तमें मिथ्यादृष्टि होनेपर पुनः बन्ध होने लगनेसे पुनः हों यह सम्भव है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। यहाँ आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। ओघसे इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि तिर्यञ्चकी कायस्थिति इन दोनों अन्तरकालोंसे बहुत अधिक बतलाई है, अतः किसी भी जीवके इतने कालतक तिर्यञ्च पर्यायमें बने रहना सम्भव है। दो वेदनीय आदिके चारों पदोंका भङ्ग ओघके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए उसे

१. ता०प्रतौ 'पुव्वकोडिति० सादि०' आ०प्रतौ 'पुव्वकोडितिभागं सादि०' इति पाठः ।

२. आ०प्रतौ 'पुव्वकोडितिभागं सादि' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'लोगा । सम० पर०' इति पाठः ।

१५२. पंचिदि०तिरि०पञ्च-जोगिणीसु ध्रुवियाणं भुज०-अप्य० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अवड्डि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेण-
ब्भहियाणि । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० भुज०-अप्यद० जह० एग०,

ओघके समान कहा है। भोगभूमिमें नपुंसकवेद आदिका बन्ध अपर्याप्त अवस्थामें होता है, इस-
लिए यहां इन प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मभूमिकी अपेक्षा
प्राप्त किया गया है, क्योंकि कर्मभूमिमें एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जीवके भवके प्रारम्भमें मिथ्या-
दृष्टि होनेसे ये पद हों, पुनः सम्यग्दृष्टि हो जानेसे मध्यमें बन्ध न होने से ये पद न हों और
भवके अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें चला जानेके कारण बन्ध होनेसे पुनः ये पद होने लगे यह सम्भव
है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है।
आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा हो वह इसीप्रकार घटित कर लेना
चाहिए। जो पूर्वकोटिकी आयुवाला तिर्यञ्च प्रथम त्रिभागमें तीन आयुओंमें से किसी एकका
बन्ध करके चारों पद करता है और फिर भवके अन्तमें इनका बन्ध करके चारों पद करता है
उसके उक्त तीनों आयुओंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण
प्राप्त होनेसे वह उक्तकाल प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चायुके अवस्थित पदके सिवा शेष तीन पदोंका
उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण जानना चाहिए, क्योंकि तिर्यञ्चायुके तीन पदोंका
यह अन्तरकाल दो भवोंके आश्रयसे प्राप्त करनेपर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्त होता है।
मात्र इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे
उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। वैक्रियिकषट्क और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओघमें
तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ ओघके समान जाननेकी सूचना की है।
तिर्यञ्चगतित्रिकका शेष भङ्ग तो नपुंसकवेदके समान बन जाता है, क्योंकि इनके दो पदोंका
उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिमें पूर्वकोटिकी आयुवाले तिर्यञ्चके ही प्राप्त हो सकता है और अवस्थित-
पदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण यहाँ भी बन जाता
है। मात्र इनके अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि अग्निकायिक
और वायुकायिक जीव इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए उनके इनके
अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण
होती है, अतः इस कायस्थितिके पूर्वमें और बादमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होनेसे इनके
अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा
है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भोगभूमिमें बन्ध प्रारम्भ होनेपर वह निरन्तर होता है, इसलिए
वहाँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। हाँ कर्मभूमिमें जो पूर्वकोटिकी आयुवाला
जीव प्रारम्भमें इनका अवक्तव्य पद करके और सम्यग्दृष्टि होकर इनका निरन्तर बन्ध करे। तथा
अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर और अन्य प्रकृतियोंके बन्धका अन्तर देकर पुनः इनका बन्ध करे उसके
इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा
है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१५२ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें
ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि
पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदके
भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । अवट्टि० णाणा०भंगो ।
 अप्प०अप्प०अप्प०जह०एग०, उक्क० पुव्वकोडी० दे० । अवट्टि० णाणा०भंगो ।
 अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । साददंडओ अवट्टि० णाणा०भंगो ।
 सेसाणि पदाणि तिरिक्खोघं । पुरिस० तिण्णिपदा० सादभंगो । अवत्त० तिरिक्खोघं ।
 णवुंसं०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरा०-पंचसंठा०-ओरा०अंगोव०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-
 आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० भुज०-अप्प०
 तिरिक्खोघ-णवुंसगभंगो । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । तिण्णिआउ० तिरिक्खोघं । तिरिक्खाउ० तिण्णि पदा
 तिरिक्खोघं । अवट्टि० णवुंसंभंगो । देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-समचदु०-वेउ०अंगो०-
 देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० भुज० अप्प०-
 अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी दे० ।

अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । तथा इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । सातावेदनीयदण्डकके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा शेष पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है और अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके कहे गये नपुंसकवेदके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । तीन आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । तिर्यञ्चायुके तीन पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । अवस्थितपदका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण होनेसे यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । कारणका निर्देश पहले कर आये है । यहाँ स्थानगृद्धित्रिक आदिका उत्कृष्ट बन्धान्तर उत्तम भोगभूमिमें ही सम्भव है, अतः इनके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त पद कराकर यह

१. ता०प्रतौ पदाणि 'तिरिक्खोघं णवुंसं' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'अप्प० णवुंसगभंगो' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ देसू० । तिरिक्खाउ०, इति पाठः ।

१५३. पंचिदि०तिरि०अपज्ञ० ध्रुवियाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एग०,
उक० अंतो० । सेसाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, उक० अंतो० । अवत्त०

अन्तरकाल ले आना चाहिए । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट बन्धान्तर पूर्वकोटिकी आयुवाले उक्त तिर्यञ्चोंमें ही सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है । तथा पूर्वकोटिपृथक्त्व कालके प्रारम्भमें और अन्तमें संयमासंयम होकर पुनः असंयममें जाना सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय-दण्डकके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान और शेष तीन पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है यह भी स्पष्ट है । विशेष खुलासाके लिए उक्त स्थानोंको देखकर अन्तर-कालकी संगति बिठला लेनी चाहिए । यहाँ सातावेदनीयके तीन पदोंका जो अन्तरकाल कहा है वह पुरुषवेदके तीन पदोंका भी बन जाता है, अतः इसे सातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है । तथा सामान्य तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका जो अन्तर काल घटित करके बतला आये हैं वह यहाँ भी बन जाता है इसलिए इसे सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की है । सामान्य तिर्यञ्चोंमें नपुंसकवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण पहले घटित करके बतला आये हैं, वह इन तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही सम्भव है, इसलिए यहाँ नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंमें कहे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोंके अन्तरकालके समान कहा है । इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इनके इन प्रकृतियोंका अवस्थितपद पूर्वकोटिपृथक्त्वके प्रारम्भमें और अन्तमें हो और मध्यमे न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोंमें तीन आयुओंके सब पदोंका अन्तरकाल उक्त तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे ही कहा है, इस लिए यहाँ तीन आयुओंके सब पदोंके अन्तरकालको सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की है । तिर्यञ्चायुके तीन पदोंका भङ्ग तो सामान्य तिर्यञ्चोंके समान बन ही जाता है, क्योंकि वहाँ इन्हीं तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । पर इसके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है । बात यह है कि इन तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण है और यहाँ नपुंसकवेदके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना ही बतला आये हैं, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके अवस्थित पदके अन्तरकालको नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की है । देवगति आदिके भुजगार आदि पदोंका अन्तर ज्ञानावरणके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए इसे ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है । उक्त तिर्यञ्चोंमेंसे कोई एक तिर्यञ्च इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रारम्भ करके सम्यग्दृष्टि हो जाता है । फिर भवके अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर और इनका अन्य प्रकृतियों द्वारा बन्धान्तर करके पुनः बन्ध प्रारम्भ करता है तो उसके इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है ।

१५३ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-

जह० उक्क० अंतो० । एवं सव्वअपज्जत्तयाणं तसाणं थावराणं सव्वसुहुमपज्जत्तयाणं च ।

१५४. मणुस०३ पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि धुवियाणं उवसम० परिवद-
माणयाणं अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । पच्चक्खाण०४ अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । आहारं०-आहार०अंगो० तिण्णि पदा जह०
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । तित्थ० सुज०-अप्प० णाण०भंगो ।
अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडो देसु० ।

मुहूर्त है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंमें तथा सब सूक्ष्म पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियाँ दो भागोंमें विभक्त हो गई हैं—ध्रुवबन्धवाली और शेष । इन सबके भुजगार आदि तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि अपर्याप्त जीवोंकी भवस्थिति और कायस्थिति अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होती । तथा जो शेष प्रकृतियाँ हैं उनका अवक्तव्यपद भी यहाँ सम्भव है । पर एक बार बन्ध होकर पुनः उस प्रकृतिके बन्ध होनेमें अन्तर्मुहूर्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गाणाँ गिनाई हैं, उन सबकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होनेसे उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

१५४ मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्ध-
वाली प्रकृतियोंके उपशमश्रेणिके गिरनेवाले जीवोंमें अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । आहारकशरीर और
आहारकआङ्गोपाङ्गके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और
अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है,
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि-
प्रमाण है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वकोटि-
पृथक्त्व अधिक तीन पल्य होनेसे तीन प्रकारके मनुष्योंमें अन्य सब प्रकृतियोंके सब पदोंका
अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान बन जाता है । मात्र मनुष्योंमें प्रमत्तसंयत आदि
गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव है और इनमें आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध भी सम्भव
है, इसलिए इस दृष्टिसे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी अपेक्षा अन्तरकालमें जो विशेषता आती है उसका
अलगसे निर्देश किया है । उदाहरणार्थ—इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति
सम्भव है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-
शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन इकतीस
प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए उसका जघन्य और
उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है । इसी प्रकार यहाँ संयम ग्रहण सम्भव होनेसे प्रत्याख्याना-

१. ता०प्रतौ 'सव्वसुहुमअपज्जत्तयाणं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'परिपदया (मा) ण' इति पाठः ।

३. आ०प्रतौ 'जह० अंतो०, आहार०' इति पाठः ।

१५५. देवेसु ध्रुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० ए०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । एवं तित्थ० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णलुंसं०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं० देसू० । दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिणियुग० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । पुरिसं०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चागो० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं० देसू० । दोआउ० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णि पदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्टारससाग० सादि० । मणुसं०-मणुसाणु० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्टारससाग० सादि० । एइंदि०-आदाव०-थावर० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । पंचिंदि०-ओरा०अंगो०-तस०

वरणचतुष्कका भी अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१५५. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इसीप्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षासे जानना चाहिए । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुष-वेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्षभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरण के समान

१. आ०प्रती 'अप्प० जह० एग०, उक्क० तेत्तीस०' इति पाठः । २ आ०प्रती 'णीचा० अप्प०' इति पाठः ।

तिष्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । एवं सव्वं-
देवाणं अप्पप्फणो अंतरं णेदव्वं ।

समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना अन्तरकाल ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और पाँच अन्तराय । स्त्यानगृष्टि आदिका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरप्रमाण कहा है । यहाँ भवके प्रारम्भमें चारों पदोंको करावे । बादमें सम्यग्दृष्टि होकर कुछ कम इकतीस सागर हो जाने पर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें ले जाकर चार पद कराकर यह अन्तरकाल ले आवे । दो वेदनीय आदिके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है । पुरुषवेद आदिका सम्यग्दृष्टिके भी बन्ध होता है, इसलिए इनके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानसे वैसा कहा है । पर सम्यग्दृष्टिके ये निरन्तर बन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उसके इनका अवक्तव्य-पद सम्भव नहीं है । हाँ जिस मिथ्यादृष्टिने इनके बन्धका प्रारम्भ किया और मध्यमें सम्यग्दृष्टि रह कर अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर तथा इन्हें सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे अन्तरित करके पुनः बन्ध प्रारम्भ किया उसके इनका अवक्तव्य बन्ध और उसका अन्तरकाल दोनों बन जाते हैं । इस तरह अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम इकतीस सागर होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है । देवों और नारकियोंमें आयुबन्धके नियम एक समान हैं, इसलिए यहाँ दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंके समान कहा है । तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर कहा है । चारों पदोंका अन्तरकाल विचारकर घटित कर लेना चाहिए । मनुष्यगतिद्विकका बन्ध सब देवोंके सम्भव है पर इनकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । यहाँ भी प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर इनका अवक्तव्यबन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आवे । आगे इन दोनों प्रकृतियोंके प्रारम्भके तीन पद होते हैं, अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए यहाँ अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे उसके समान कहा है । एकेन्द्रियजाति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऐशान कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है । यहाँ भी मध्यमें साधिक दो सागर तक सम्यग्दृष्टि रखकर और प्रारम्भमें व अन्तमें मिथ्यात्वमें इनके चारों पद कराकर यह अन्तर काल ले आवे । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काल लानेके लिए सम्यग्दृष्टि होनेकी आवश्यकता नहीं है । अन्यत्र भी यह विशेषता जान लेनी चाहिए । पञ्चेन्द्रियजाति आदि सानत्कुमार कल्पसे निरन्तर-बन्धिनी प्रकृतियाँ हैं । किन्तु वहाँ इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है । इनके शेष पद ज्ञानावरणके समान सम्भव हैं यह स्पष्ट ही है । देवोंके अवान्तर भेदोंमें अपना-अपना अन्तरकाल जानकर वह घटित कर लेना चाहिए ।

१५६. इइंदिएसु धुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखेज्जदिभागो, बादरेसु अंगुल० असंखे०, बादरपज्जत्तगेसु संखेज्जाणि वाससहस्साणि । एवं मणुसगदितिगस्स वि ओघं । बादरेसु कम्मदिट्ठी०, पज्जत्तएसु संखेज्जाणि वाससह० । तिरिक्खाउदितिगं भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा कम्मदिट्ठी संखेज्जाणि वाससह० । सेसाणं परियत्तमाणियाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । तिरिक्खाउ० दोण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० बावीसं वाससह० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० अंगुल० असंखे० संखेज्जाणि वाससह० । मणुमाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो० उ० स्ववपदानं सत्तवाससह० सादि० । सुहुमेइंदि० इइंदियभंगो । णवरि दो-आउ० पंचिदि०तिरि०अपज्जत्तभंगो । णवरि तिरिक्खाउ० अवट्टि० ओघं । एदेण कमेण विगलंदिद्य-पंचकायाणं अंतरं णोदव्वं ।

१५६. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बादरोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है और बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । इसी प्रकार मनुष्यगतित्रिकका भी भङ्ग ओघके समान है । बादरोंमें कर्मस्थितिप्रमाण है और बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, बादरोंमें कर्मस्थितिप्रमाण है और बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यञ्चायुके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोंमें जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण, बादरोंमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है । मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है । इतनी और विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चायुके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । इस क्रमसे विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें अन्तरकाल ले जाना चाहिए ।

१ ता०-आ०प्रत्योः 'असंखेज्जगु० । बादरेसु' इति पाठः । २ आ०प्रतौ 'संखेज्जाणि एवं' इति पाठः । ३ ता०प्रतौ 'अगो० (तो०) तिरिक्खाउ० तिण्णिपदा०' आ०प्रतौ 'अतो० । तिरिक्खाउ० तिण्णिपदा' इति पाठः । ४ आ०प्रतौ 'जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० सेटीए असंखे० संखेज्जाणि' इति पाठः । ५ ता० आ०प्रत्योः जह० एग० उ० अवत्त०' इति पाठः । ६ आ० प्रतौ 'उ० सत्तवाससह०' इति पाठः ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जैसा ओघमें ज्ञानावरणादिका घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। बादर एकेन्द्रियोंमें और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन पदोंका और सब अन्तर काल तो इसी प्रकार है पर इनके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरमें फरक है, क्योंकि इन जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति क्रमसे कर्मस्थितिप्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, अतः इन दो प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंमें इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। मनुष्यगतित्रिकके एकेन्द्रियोंमें चार पद सम्भव है और ओघसे इनके चारों पदोंका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। इन पदोंके अन्तरकालका स्पष्टीकरण ओघप्ररूपणाके समय किया ही है, इसलिए इसे वहांसे जान लेना चाहिए। मात्र बादर एकेन्द्रियों और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन प्रकृतियोंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कर्मस्थिति प्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही प्राप्त होगा। कारणका निर्देश पूर्वमें किया ही है। एकेन्द्रिय और उनके अवान्तर भेदोंमें जिस प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, वह स्थिति तिर्यञ्जगतित्रिकके विषयमें नहीं है, इसलिए उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्जगतित्रिकके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ही बन जाता है, इसलिए वह ज्ञानावरणके समान कहा है। साथ ही उनका यहां अवक्तव्यपद भी सम्भव है। उसमें भी एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं और दूसरे अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः यहां इनके अवक्तव्यपदका उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे असंख्यात लोक प्रमाण, कर्मस्थितिप्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष जितनी परावर्तमान प्रकृतियां हैं उनका भुजगार आदि तीन पदोंकी अपेक्षा भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहनेका कारण स्पष्ट है। पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद भी सम्भव है। यतः अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं होता और ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होगा, अतः इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। अब रहीं तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु सो तिर्यञ्चायुके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक भवकी अपेक्षा भी प्राप्त हो जाता है पर उत्कृष्ट अन्तर दो भवकी अपेक्षा, प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनमेंसे आदिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष कहा है। यहां बाईस हजार वर्षकी आयुवाले उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंके प्रथम त्रिभागमें तीन पद करावे। उसके बाद मरकर इतनी ही आयु प्राप्त कराकर जीवनमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर आयुबन्ध कराकर ये तीन पद करावे और इस प्रकार इन तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आवे। तथा इनमें तिर्यञ्च होते रहनेसे एकेन्द्रियोंमें जगश्रेणिके असंख्यातवें भागके अन्तरसे बादर एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थितिप्रमाण कालके अन्तरसे और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्षके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके इस पदका उक्त कालप्रमाण अन्तर कहा है। मात्र इनमें मनुष्यायुके चारों पदोंका अन्तर एक भवके आश्रयसे ही सम्भव है, इसलिए इन्में इसके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा

१५७. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण०४-
 अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि०
 जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । थीणगि०३-भिच्छ०-अणंताणु०४-
 भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । दोवेदणी०-चदुणोक्क०-
 थिरादितिणियुग० अवट्टि० णाणा०भंगो । सेसाणं पदाणं ओघं । अट्टक० दोण्णिपदां
 ओघं । अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । इत्थि० भुज०-अप्प०-अवत्त० ओघं । अवट्टि०
 णाणा०भंगो । पुरिस० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० ओघं । णवुंस०-पंचसंठा०-
 पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० भुज० अप्प० जह० एग०, अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० वेछावट्टि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसु० । अवट्टि० णाणा०भंगो ।
 तिण्णिआउगाणं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्कस्सेण सागरोवम-
 सदपुधत्तं । णवरि अवट्टि० सगट्टिदी० । मणुसाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त०

है । सूक्ष्म एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे इनमें सब अन्य प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान बन जाता है यह तो स्पष्ट ही है पर इनमें दोनों आयुओंका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए इनके चारों पदोंका अन्तरकाल अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है । यहां विकलेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंमें इसी क्रमसे जाननेकी सूचना की है सो अपनी-अपनी कायस्थिति तथा ध्रुवबन्धवाली और परावर्तमान प्रकृतियोंको समझकर यह अन्तर काल ले आना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

१५७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्ञवलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है । आठ कषायोंके दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेदके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । नपुंसकवेद, पाँच सस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य तथा कुछ अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तीन आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व

१ ता०-आ०प्रत्योः 'ज० ए० उ० अवत्त० इति पाठः । २ ता०-आ०प्रत्योः 'अट्टक० तिण्णिपदां' इति पाठः । ३ ता०-आ०प्रत्योः 'णीचा० अप्प०' इति पाठः ।

जह० अंतो०, उक्क० कायड्विदी०। गिरयगदि-चदुजादि-गिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४
 भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं०।
 अवट्टि^१० गाणा०भंगो। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क०
 तेवट्टिसागरोवमसदं। अवट्टि^२० गाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्टिसाग०
 सद०। दोगदि-वेउ०-वेउ०अंगो०-दोआणु० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि०। अवट्टि० गाणा०भंगो। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-त्स०४
 तिण्णि पदा^३ गाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसद०।
 आहार०२ तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्विदी०।
 ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो०
 सादिरे०। अवट्टि० गाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि०। सम-
 चदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्प०-अवट्टि० गाणा०भंगो। अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० बेझावट्टि० सादि० तिण्णिपलि० देसू०। तित्थ० ओघं। उच्चा०

प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है। मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। तथा इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। दो गति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तथा इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण

१ आ०प्रतौ-‘सागरोवमसदपुधत्तं०। अवट्टि’ इति पाठः। २ आ०प्रतौ ‘तेवट्टिसागरोसदपुधत्तं। अवट्टि०’ इति पाठः। ३ ता० आ०प्रत्योः ‘त्स० २ तिण्णिपदा’ इति पाठः।

भुज०-अप्य० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावट्टि० सादि० तिण्णि पलि० देसू० ।

है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । उच्चगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहां सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदोंका जघन्य अन्तर काल सुगम है । साथ ही भुजगार और अल्पतर पदका जहाँ उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है वह भी सुगम है, इसलिए इन अन्तरकालोको छोड़कर शेष अन्तरकालका ही विचार करेंगे । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विककी जो कायस्थिति कही है उसके प्रारम्भमें और अन्तमें पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद हो यह भी सम्भव है और इस कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति हो यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । मिथ्यात्व आदिके भुजगार और अल्पतर पद कुछ कम दो बार छथासठ सागर काल तक न हों यह सम्भव है, क्योंकि जीवका इतने काल तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रहना सम्भव है, इसलिए यहाँ इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्ववत् ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए इन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका या सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । दो वेदनीय आदिके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे यह ओघके समान कहा है । स्पष्टीकरण ओघ प्ररूपणाके समय कर ही आये हैं । आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है, क्योंकि इनका इतने काल तक बन्ध न होनेसे इन पदोंका उक्त काल तक अन्तर बन जाता है । ओघसे भी इन पदोंका इतना ही अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है । ऋग्वेदके भुजगार अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण ओघमें घटित करके बतला आये हैं । यहाँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इसलिये यह अन्तर ओघके समान कहा है । पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघ प्ररूपणाके समय साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण घटित करके बतला आये हैं । यहाँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान कहा है । नपुंसकवेद आदिका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है । इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । नरकायु, तीर्थञ्जायु और देवायुका यहाँ सौ सागर पृथक्त्व काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । यहाँ इन तीनों आयुओंका किसी एक जीवके एक साथ उक्त काल तक बन्ध नहीं होता ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए । किन्तु कभी नरकायुका, कभी मनुष्यायुका और कभी देवायुका उत्कृष्टरूपसे इतने काल तक बन्ध नहीं होता ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काल अपनो अपनी कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होते समय भुजगार और अल्पतरपदके समान अवस्थितपद होना ही चाहिए ऐसा

१५८. पचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं-

एकान्त नियम नहीं है। सामान्यसे एकेन्द्रियोंमें बंधनेवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। पर यहां कायस्थिति इस कालसे न्यून है, इसलिए कायस्थितिके भीतर प्रारम्भमे और अन्तमें अवस्थित पद कराकर यह अन्तर काल कहा है। सर्वत्र अवस्थितपदके विषयमें यह नियम समझ लेना चाहिए। हां जिन प्रकृतियों का एकेन्द्रियोंमें या अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें बन्ध नहीं होता, उनके अवस्थितपदका अन्तर काल जगश्रेणिके असंख्यातवे भागसे अधिक भी बन जाता है। मनुष्यायुका इनकी उत्कृष्ट कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो तथा मध्यमें बन्ध न हो यह सम्भव है, और बन्ध होते समय भुजगार आदि चारों पद भी सम्भव हैं, इसलिए यहां इसके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है। नरकगति आदिका अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर काल तक बन्ध नहीं होता ऐसा नियम है। उसके बाद नौवें त्रैवेयकसे आकर मनुष्य होने पर इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए इतने काल तक इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके न प्राप्त होनेसे यहां इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। उक्त मार्गणाओंमें तिर्यञ्चगति आदिका एकसौ त्रैसठ सागर काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। दो गति आदिके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद साधिक तेतीस सागर काल तक न हों यह सम्भव है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। यहां साधिकसे दो मुहूर्त लेने चाहिए। मात्र मनुष्यगतिद्विकका सातवें नरकमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए और शेषका उपशमश्रेणिके सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए। पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जैसा ज्ञानावरणकी अपेक्षा घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इन प्रकृतियोंका एक सौ पचासी सागर प्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है। औदारिकशरीर आदिका भोगभूमिमें और उसके पहले सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है। तथा सातवें नरकमें औदारिकद्विकका और वहीं पर सम्यग्दृष्टिके वज्रर्षभनाराचसंहननका निरन्तर बन्ध सम्भव है। और वहाँसे निकलने पर भी इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लग सकता है। यतः यह काल साधिक तेतीस सागर होता है, अतः यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिके भुजगार आदि तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर काल ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयाछठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। उच्चगोत्रका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा इसका कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है।

१५८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,

आहारदुग्-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत०-चत्तारिआउ०
भुज०-अप्प०-अवट्ठि० ज० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० [णत्थि अंतरं]। सेसाणं^१ कम्ममाणं
भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०।

१५६. कायजोगीसु धुवियाणं एइंदियभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं ।
तिरिक्खगादितिगं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। णवरि अवट्ठि० जह०
एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। मणुसागदि-
तिगं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ओघं। सेसाणं भुज०-अप्पद०-
अवट्ठि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। णवरि दोआउ०-[वेउव्वियछ०]-
आहारदुग्-तित्थ० मणजोगिभंगो। मणुसाउ० ओघं। तिरिक्खाउ० एइंदियभंगो।

मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, आहारकट्टिक, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर, पाँच अन्तराय और चार आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—इन योगोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हों यह सम्भव है इसलिए सब प्रकृतियोंके इन पदोंका यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए सब प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तके भीतर प्राप्त किया गया है। मात्र पाँच ज्ञानावरणादि ये ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं और जो ध्रुवबन्धिनी नहीं हैं उनका इन योगोंके कालमें दो बार बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए उनके अवक्तव्यपदके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा शेष प्रकृतियाँ परावर्तमान होनेसे उनका इन योगोंके कालमें अन्तर्मुहूर्तका अन्तर देकर दो बार बन्धका प्रारम्भ होना सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१५६. काययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगतित्रिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि दो आयु, वैक्रियिकपटक, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। तथा तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है।

१ ता०प्रतौ 'अवत्त० [एवं]। सेसाणं' आ०प्रतौ 'अवत्त०सेसाणं' इति पाठः। २ ता०आ०प्रत्योः 'धुवियाणं सादमंगो' इति पाठः। ३ ता०आ०प्रत्योः 'उक्क० संखेज्जा' इति पाठः।

१६०. ओरालि०का०जोगि० पढमदंडओ मणुजोगिभंगो । णवरि अवट्टि० जह० एग०, उक्क० बावीसं वाससह०, देख्ठो । दोआउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सत्तवाससह० सादि० । दोआउ०—वेउन्विचल्लक्क-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो । सेसाणं णाणा०भंगो । [णवरि अवत्त० जह० उक्क०] अंतो० ।

विशेषार्थ—यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामर्णशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यरूपसे काययोग ही पाया जाता है, इसलिए काययोगियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा है । मात्र एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद नहीं होता और काययोगियोंमें होता है, फिर यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकालका निषेध किया है । काययोगियोंमें तिर्यञ्जगतित्रिकका असंख्यात लोकप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका अन्तरकाल सुगम है । मनुष्यगतित्रिकके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें कहे अनुसार यहां बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है । खुलासा ओघप्ररूपणाको देखकर जान लेना चाहिए । पञ्चेन्द्रियोंमें काययोगका काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है । इसलिए काययोगियोंमें दो आयु, वैक्रियिकषट्क आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । मनुष्यायुका ओघमें और तिर्यञ्चायुका एकेन्द्रियोंके चारों पदोंकी अपेक्षा जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए मनुष्यायुके चारों पदोंके अन्तरकालको ओघके समान और तिर्यञ्चायुके चारों पदोंके अन्तरकालको एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहीं शेष ये प्रकृतियाँ—सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप उद्योत, दो विहायोगति और त्रस-स्थावर ओदि दस युगल । ये सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं, इसलिए इनके सब पदोंका मूलमें कहे अनुसार अन्तरकाल बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

१६०. औदारिककाययोगी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष होनेसे औदारिककाययोगवाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ

१६१. ओरा०मि० ध्रुवियाणं भुज०अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
देवगदिपंचग० भुज० णत्थि अंतरं । सेसाणं भुज०-अप्पद०- अवट्टि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्थि अंतरं ।

१६२. वेउव्वियका०-आहारका० मणजोगिभंगो । वेउव्वियमि० पंचणा०-

कम बाईस हजार वर्ष प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका अन्तर मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट है। यहां प्रथम दण्डकमें वे ही प्रकृतियाँ ली गई हैं जो काययोगीके प्रथम दण्डकमें गिना आये हैं। यहां मूलमें 'मणजोगिभंगो' के स्थानमें 'कायजोगि-भंगो' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि काययोगीके प्रथम दण्डककी प्रकृतियाँ ही यहां पर ली गई हैं। वैसे तीन पदोंकी अपेक्षा अन्तरकालका विचार दोनोंमें एक समान है, इसलिए कोई भी पाठ बन जाता है। औदारिककाययोगमें प्रथम त्रिभागमें और अन्तमें आयुबन्ध होने पर आयुबन्धमें साधक सात हजार वर्षका अन्तर काल प्राप्त होता है, इसलिए यहां तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। दो आयु आदि प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है। शेष सब प्रकृतियाँ यद्यपि परावर्तमान हैं फिर भी उनके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान कहा है। मात्र यहां इनका अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। शेष प्रकृतियाँ ये हैं—साताद्विक, सात नोकपाय, दो गति, पांच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और दो गोत्र ।

१६१. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इसमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निर्देश काययोगी मार्गणाका कथन करते समय किया ही है। औदारिकमिश्रकाय-योगमें देवगतिपञ्चकका एक मात्र भुजगार पद ही सम्भव है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं और उनके चारों पद सम्भव हैं, इसलिए उनके चारों पदोंका अन्तरकाल कहा है। मात्र इस योगमें सासादनसे मिथ्यात्वमें जाना सम्भव है और इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिका अवक्तव्य पद भी सम्भव है पर इसमें मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति और उसके बाद पतन सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व प्रकृतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है।

१६२. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह

णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-तस०४-
णिमि०-तित्थ०-पंचंत० भु० णत्थि अंतरं । सेसाणं भुज० णत्थि अंतरं । अवत्त०
जह० उक्क० अंतो० । मिच्छत्त० अवत्त० णत्थि० अंतरं० । आहारमि० वेउव्वियमिस्स०-
भंगो । णवरि आउ० भुज०-अवत्त० णत्थि अंतरं ।

१६३. कम्मइग० धुवियाणं देवगदिपंच० भुज० णत्थि अंतरं । सेसाणं भुज०-
अवत्त० णत्थि अंतरं ।

कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पांच अन्तरायके भुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि यहां मिथ्यात्वप्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव है पर उसका अन्तरकाल नहीं है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें आयुके भुजगार और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिककाययोग और आहारककाययोगमें बँधनेवाली प्रकृतियोंकी व्यवस्था मनोयोगी जीवोंके समान बन जाती है, इसलिए इनमें मनोयोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें पांच ज्ञानावरणादिका एक भुजगारपद होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र इनमेंसे मिथ्यात्व प्रकृतिका यहां अवक्तव्यपद भी सम्भव है, क्योंकि जो सासादनसम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वमें जाता है उसके मिथ्यात्वप्रकृतिका यह पद होता है । पर दूसरी बार इस प्रकार यहां इसके अवक्तव्यपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए अन्तमें इस प्रकृतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष जितनी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनका यहाँ पर भुजगारपद तो एक बार ही प्राप्त होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है । हाँ अवक्तव्यपदकी प्राप्ति दो बार अवश्य सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । आहारकमिश्रकाययोगमें अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली अन्य सब प्रकृतियोंका भङ्ग तो वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान बन जाता है पर यहाँ आयुकर्मका भी बन्ध सम्भव है और उसके दो पद भी सम्भव हैं, इसलिए इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है । यहाँ देवायुके दोनों पदोंका अन्तरकाल नहीं होता, क्योंकि इस योगके कालमें दो बार आयु बन्धका प्रारम्भ सम्भव नहीं है, इसलिए आयुके दोनों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है ।

१६३. कर्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और देवगतिपञ्चकके भुजगार-
पदका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका और देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है उनका एक मात्र भुजगार पद होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके सिवा शेष सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं, अतः उनके भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद तो सम्भव हैं, पर उनका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, इसलिए उनके अन्तरकालका निषेध किया है । कारण स्पष्ट है ।

१ ता०अ०प्रत्योः 'अंतो० । ' ' ' 'अवत्त०' इति पाठः ।

१६४. इत्थिवेदेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज^१०-पंचंत० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । भीणागिट्टि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पणवणं पलि० देसू० । अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । णिदा-पयला-भय-दुगुं-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० णत्थि० अंतरं । दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिणियुग० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्टकसा० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । इत्थि० मिच्छत्तभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवणं पलिदो देसू० । एवं इत्थिवेदभंगो णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-दुभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० । पुरिस०-पंचिंदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिणि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवणं पलिदो देसू० । णिरयाउ० तिणियुग० जह० एग०,

१६४. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्थानगृह्णितिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण है । अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । इसी प्रकार स्त्रीवेदके समान नपुंसकवेद, तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वा, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका भङ्ग जानना चाहिए । पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । नरकायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और सबका उत्कृष्ट

१ ता०प्रती 'पंचणा० चदुसंज०' इति पाठः ।

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पगदिअंतरं । दो आउ० तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्ढिदी० । देवाउ० अवट्ठि० जह० ए०, उक्क० पलिदोवमसद० । भुज०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्ठावण्णं' पलिदो० पुव्वकोडि-पुध० । णिरयगदि-देवगदि-तिण्णिजादि-वेउवि०-वेउत्वि०अंगो०-णिरय०-देवाणुपु०-सुहुम०-अपञ्ज०-साधार० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । मणुस०-ओरा०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० देसू० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । ओरा० भुज०-अप्प० ज० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसू० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायड्ढिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । पर०-उस्सा०-बादर-पज्जत्त-पत्ते० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णाणा०-भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि० । आहारदुगं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्ढिदी० । तित्थ० दो पदा जह० एग०,

अन्तर प्रकृतिबन्धक अन्तरके समान है । दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य पृथक्त्वप्रमाण है । भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्ठावन पल्य है । नरकगति, देवगति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । मनुष्यगति औदारिकशरीरआज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य

१ ता०प्रतौ 'दोआउ० तिण्णिपदा० ज० ए० अवत्त० ज० अतो० उ०-कायड्ढिदि० । देवाउ० अवट्ठि० ज० ए० उ० पलिदोवमसदपुध० । भुज अप्प० ज० ए० अवत्त० ज० अंतो० उ० अट्ठावण्णं' आ०प्रतौ दोआउ० तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अतो०, उक्क० अट्ठावण्णं, इति पाठः ।

उक्त० अंतो० । अवष्टि० ज० एग०, उक्त० पुव्वकोडी देख० । अवत्त० गत्थि अंतरं ।

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। तथा अवक्तव्यपदका अन्तर-काल नहीं है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो पर मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए स्त्रीवेदी जीवोंमें इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्यागृद्धित्रिक आदिके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र स्त्यानगृद्धित्रिकके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए प्रारम्भमें और अन्तमें सम्यक्त्व प्राप्त कराकर और बादमें मिथ्यात्वमें ले जाकर प्राप्त करना चाहिए। निद्रा आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। यद्यपि स्त्रीवेदमें निद्रादिककी आठवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति सम्भव है पर ऐसा जीव नौवें गुणस्थानमें जाकर स्त्रीवेदी न रहकर अपगतवेदी हो जाता है, इसलिए स्त्रीवेदमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्तप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। देशसंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कालप्रमाण है और इस कालमें क्रमसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्याना वरण चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। अवक्तव्यपद अन्तमुहूर्तके अन्तरसे तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदका अन्य सब भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। मात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। तात्पर्य यह है कि किसी स्त्रीवेदी जीवने स्त्रीवेदका अवक्तव्यबन्ध करके बादमें सम्यक्त्व प्राप्त किया और अपने उत्कृष्ट काल तक उसके साथ रहकर बादमें मिथ्यात्वमें जाकर पुनः स्त्रीवेदका अवक्तव्यबन्ध किया तो इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण प्राप्त हो जाता है। नपुंसक-वेद आदिका भङ्ग स्त्रीवेदके समान घटित होनेसे उसके समान कहा है। स्त्रीवेदमें पुरुषवेद आदि का सम्यक्त्वके कालमें निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इस कालके आगे पीछे इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेसे इसका अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। नरकायुका पूर्वकोटिकी आयुवाले जीवके त्रिभागके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध होकर चार पद हों और मध्यमें बन्ध न होनेसे न हों यह सम्भव है, इसके प्रकृतिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इतना ही है, इसलिए यहाँ नरकायुके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुमेंसे किसी एकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध किया और मध्यमें नहीं किया, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। कोई स्त्रीवेदी जीव देवायुका बन्ध कर पचवन पत्यकी आयुवाली देवी हुआ। पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि-पृथक्त्वकाल तक स्त्रीवेदके साथ परिभ्रमण कर तीन पत्यकी आयुके साथ मनुष्यिणी या तिर्यञ्चनी

१६५. पुरिसेसु पढमदंडओ थीणगिद्धिदंडओ णिहादंडओ सादादंडओ अट्ट-
कसायदंडओ इत्थिवेददंडओ पंचिदियपज्जत्तभंगो । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०
पंचंत० अवत्तव्वं गत्थि । णिहादंडओ अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायद्धिदी० ।
पुरिस० तिण्णिपदा० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेळ्ळावट्ठि०
दे० अंतोमुहुत्त० । णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-
णीचा० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेळ्ळावट्ठि०

हुआ और आयुके अन्तमें पुनः देवायुका बन्ध किया । इसप्रकार देवायुके दो बार बन्धके साथ चार पदोंके प्राप्त होनेमें पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक अट्टावन पत्यका उत्कृष्ट अन्तर आता है, अतः यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । देवीके नरकगति आदिका बन्ध नहीं होता । तथा वहाँसे आनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक इनका बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है । देवगतिचतुष्कको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका देवी होनेके पूर्व भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक बन्ध नहीं होता, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । उत्तम भोग-भूमिमें सम्यग्दृष्टि होनेपर मनुष्यगति आदिका बन्ध नहीं होता और वहाँ सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए यहाँ इनके दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण कहा है । अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । तथा देवीके सम्यक्त्वके कालमें कुछ कम पचवन पत्य तक इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य पद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । औदारिकशरीरके तीन पदोंका अन्तरकाल तो मनुष्यगतिके समान ही है । मात्र इसके अवक्तव्य पदके अन्तरकालमें फरक है । बात यह है कि देवीके निरन्तर औदारिकशरीरका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य बन जानेसे वह उक्त काल-प्रमाण कहा है । परघात आदिके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर औदारिकशरीरके समान ही घटित कर लेना चाहिए । इनके शेष तीन पदोंका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो यह सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । मनुष्यनीके कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है । यहाँ इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके बन्धका प्रारम्भ होनेपर ही एकमात्र इसका अवक्तव्यपद होता है । अन्यदा नहीं । यद्यपि उपशमश्रेणीसे उतरनेपर स्त्रीवेदमें पुनः इसका अवक्तव्यपद सम्भव है पर उपशमश्रेणिमें मार्गणा बदल जाती है, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१६५. पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथमदण्डक, स्त्यानगृद्धिदण्डक, निद्रादण्डक सातावेदनीयदण्डक, आठ कषायदण्डक और स्त्रीवेददण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रियपर्याप्तक जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । निद्रादण्डकके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त अधिक दो छयासठ सागर है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पतरस्यदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है

सादि० तिणिण पलि० देसू० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । गिरयाउ० इत्थि०भंगो । दोआउ० पंचिंदियभंगो । देवाउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवट्टि० जह० एग० उक्क० कायट्टिदी० । गिरयग०-चदुजादि-गिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४ तिणिण पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्टिसागरोवमसदं । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । आरणच्चुदि सम्मत्तं गहेदूण तदो बेछावट्टिसागरोवमाणि भमिदूण-सव्वएक्कत्तीसं गदो मिच्छत्तं गदो ताओ तं णादूण केहं पुण बंधदि । तिरिक्खगदितिगं पंचिंदियपज्जत्तभंगो । मणुसगदिपंचग० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिणिणपलि० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० कायट्टिदी० । पंचिंदि०-पर०-उस्सा०-बादर-पजत्त०-पत्ते० तिणिण पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवट्टिसाग०सदं । आहारदुगं तिणिणपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो० उक्क० कायट्टिदी० । समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिणिण०

और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुल कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकायुका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय जीवोंके समान है । देवायुके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । नरकर्गात्, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वा, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । आरण-अच्युत कल्पमें सम्यक्त्वको ग्रहणकर उसके बाद दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण करनेके बाद सम्पूर्ण इकतीस सागरको वितारकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अनुभव करता हुआ उक्त प्रकृतियोंमेंसे किन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता है । तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोके समान है । मनुष्य-गतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अव-स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है । आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त-विहायोगति,

पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछावड्ढि० सादि० तिण्णि० पलि०-
देसु० । तित्थ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क अंतो० । अवड्ढि० ओघं । अवत्त० जह०
अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसु० ।

सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें प्रथमादि दण्डकोंका जो अन्तरकाल कहा है वह पुरुषवेदी जीवोंमें भी बन जाता है, इसलिए इसे यहाँ पञ्चेन्द्रियपर्याप्तकोंके समान कहा है । विशेष खुलासा पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन दण्डकोंके अन्तरकालको देखकर कर लेना चाहिए । मात्र पुरुषवेदियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, अतः उसका निषेध किया है । किन्तु निद्रादिकके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे विधान किया है । तथा अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें अपूर्वकरणमें इनका अबन्धक होकर और सवेद भागमें मरकर देव होनेपर इनका बन्धक होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है । पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा जो दो छयासठ सागर काल तक गुणस्थान प्रतिपन्न रहता है उसके इतने काल तक पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद आदिका भी उक्त काल तक बन्ध नहीं हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर कहा है । तथा इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । नरकायुका स्त्रीवेदी जीवोंमें और दो आयुका पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें जो अन्तरकाल घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । कोई मनुष्य पूर्व कोटिकी आयुके प्रथम त्रिभागमें देवायुके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य ये तीन पद करे उसके बाद देव होकर और च्युत होकर पुनः पूर्वकोटि आयुके अन्तमें देवायुके उक्त तीन पद करे तो यहाँ इस आयुके उक्त तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह साधिक तेतीस सागर कहा है । इसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है । नरकगति आदिका पुरुषवेदीके एक सौ त्रेसठ सागर तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह सुगम है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्जगतित्रिकके सब पदोंका जो अन्तर काल कहा है वह यहाँ अविकल बन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । साधिक तीन पल्य तक मनुष्य-गतिपञ्चकका बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है । इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । किसी जीवने मनुष्यगतिपञ्चकका विजयादिकमें अवक्तव्यपद किया । पुनः मर कर वह पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । तथा पुनः मरकर वह विजयादिकमें उत्पन्न हुआ और मनुष्य-गतिपञ्चकका बन्ध करने लगा । इस प्रकार इसके इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर-काल साधिकतेतीस सागर देखा जाता है, इसलिए वह उक्त कालप्रमाण कहा है । उपशमश्रेणिके

१६६. णवुंसणे पढमदंडओ इत्थि०भंगो । णवरि अवट्ठि० ओघं । थीणगिद्धि-
तिगदंडओ दोषदा जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । अवट्ठि० ओघं । अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० अद्रपोगल० । णिहा-पयलदंडओ ओघं । णवरि अवत्त० णत्थि ।
असाददंडओ अट्ठकसायदंडओ ओघो । इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो-
अपसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्प० मिच्छत्तभंगो । अवत्त० जह० अंतो०,
उक्क० तेत्तीसं० देसू० । अवट्ठि० ओघं । पुरिस०-समचट्ठु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०
तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देसू० । तिण्णिआउ०
वेउन्वि०छक्कं मणुसगदितिगं आहारदुगं सव्वपदा ओघं । देवाउ० मणुसि०भंगो ।

अपूर्वकरण गुणस्थानमें देवगतिचतुष्ककी बन्धव्युच्छित्ति कर और इस गुणस्थानको प्राप्त होनेके पूर्व मरकर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ देवोंमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र पहले और बादमें इन प्रकृतियोंके यथास्थान भुजगार आदि पद प्राप्तकर यह अन्तरकाल लाना चाहिए। इनके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है सो उसे देखकर घटित कर लेना चाहिए। तथा पुरुषवेदीके इनका एक सौ त्रेसठ सागर तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। समचतुरस्र-संस्थान आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छद्यासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके अन्य पदोंका अन्तरकाल तो स्पष्ट है। मात्र अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जो कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है सो वह जिस भवमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ होता है उस भवकी अपेक्षासे जानना चाहिए। कारण कि जिस भवमें तीर्थङ्करका उदय होता है उसमें उसका उपशमश्रेणिपर आरोहण नहीं होता यह बात इसी अन्तरकालसे ज्ञात होती है।

१६६. नपुंसकवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदवाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। स्त्यानगुद्धित्रिक दण्डकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। निद्रा-प्रचलादण्डकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। असातावेदनीयदण्डक और आठ कपायदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, मनुष्यगतित्रिक और आहारकद्विकके सब पदोंका भङ्ग ओघके समान है। देवायुका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है।

तिरिक्खगदितिगं भुज०-अप्प० जहं एग०, उक्क० तेत्तीसं० देस्स० । सेसपदा ओघं । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ भुज०-अप्प० जहं एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवट्ठि० ओघं । अवत्त० जहं अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-त्तस००४ भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जहं अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । ओरा० भुज०-अप्प० जहं एग०, उक्क० पुव्वकोडी० देस्स० । अवट्ठि०-अवत्त० ओघं । एवं ओरालि०अंगो०-वज्जरि० । णवरि अवत्त० जहं अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । वज्जरिसभं तेत्तीसं० देस्स० । तित्थं भुज०-अप्प० जहं ए०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि० जहं एग०, उक्क० तिण्णि साग० सादि० । अवत्त० जहं अंतो०, उक्क० पुव्वकोडि-तिभागं देस्स० ।

तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तथा वज्रर्षभनाराचसंहननके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तराय इस प्रथम दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है । मात्र नपुंसकवेदी जीवोंकी कायस्थिति अनन्तकालप्रमाण होनेसे इनमें इस दण्डकके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान जगश्रेणिके असंख्यात्तवें भागप्रमाण बन जानेसे वह ओघके समान कहा है । स्थानगृह्णित्रिक दण्डकसे स्थानगृह्णित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क ये आठ प्रकृतियाँ ली गई है । नपुंसकवेदी जीवोंमें इनका कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्धन हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा नपुंसकवेदी जीवके अर्धपुद्गल परावर्तनकालके प्रारम्भमें और अन्तमें इनका अवक्तव्यपद हो और मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । निद्रा-प्रचलादण्डकसे निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात

और निर्माण ये प्रकृतियाँ ली गई हैं सो इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघप्ररूपणामें जिसप्रकार कहा है वह यहां भी बन जाता है, इसलिए ओघके समान जाननेकी सूचना की है। यद्यपि यहां इनका अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इस मार्गणामें इनका अवक्तव्यपद होकर पुनः अवक्तव्यपद होनेके पूर्व नियमसे मार्गणा बदल जाती है, इसलिए इस मार्गणामें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है। सातावेदनीयदण्डकमें ये प्रकृतियाँ ली गई हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति। आठ कषायदण्डककी प्रकृतियाँ स्पष्ट ही हैं। इन दोनों दण्डकोंके चारों पदोंका अन्तरकाल ओघके समान यहाँ घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है। स्त्रीवेद आदि सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध यहाँ कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव है। मिथ्यात्वप्रकृतिके विषयमें भी यही बात है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरकाल मिथ्यात्वके समान घटित हो जानेसे वह उसके समान कहा है। इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी कारण घटित कर लेना चाहिए। तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेद आदि छह प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है। तथा नपुंसकवेदीके कुछ कम तेतीस सागर तक इनका निरन्तर बन्ध सम्भव है और इनका अवक्तव्यपद इस कालके आगे पीछे ही सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीन आयु आदि चौदह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान और देवायुका भङ्ग मनुष्यनीके समान है यह स्पष्ट ही है। अलग अलग स्पष्टीकरण देखकर कर लेना चाहिए। यहाँ तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध कुछ कम तेतीस सागर तक हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है यह ओघ प्ररूपणको देखकर घटित कर लेना चाहिए। चार जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध नरकमें नहीं होता और वहाँ प्रवेश करनेके पूर्व और वहाँसे निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि सात प्रकृतियोंका बन्ध नरकमें और वहाँ प्रवेश करनेके पूर्व व निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक नियमसे होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्चके कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक औदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है, इसलिए वहाँसे देखकर घटित कर लेना चाहिए। औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराचसंहननका अन्य भङ्ग औदारिकशरीरके समान है। केवल इनके अवक्तव्यपदके अन्तरकालमें फरक है। *बात यह है कि इस मार्गणामें औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग का साधिक तेतीस सागर काल तक और वज्रर्षभनाराचसंहननका कुछ कम तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। नपुंसकवेदमें साधिक तीन सागर तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थितपद कराकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा नरकायुके बन्धवाले नपुंसकवेदी मनुष्यमें एक पूर्वकोटिके कुछ कम त्रिभागप्रमाण काल तक ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। ऐसे मनुष्यने तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धके प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और द्वितीय व तृतीय नरकमें उत्पन्न

१६७. अवगदवे० सव्वपगदीणं भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
अवत्त० णत्थि अंतरं ।

१६८. क्रोधकसाईसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०
जह० एग०, उक्क० अंतो० । सेसाणं मणजोगिभंगो । एवं माण-मायाणं । णवरि तिणिण-
संज०-दोसंज० । लोभे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० भुज-अप्प०-अवट्ठि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

१६९. मदि-सुदे धुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि०
जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेज्जदि० । दोवेद०-छण्णोक०-थिरादितिण्यु० भुज०-

होकर व अन्तर्मुहूर्तमें सम्यग्दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृतिका पुनः बन्धका प्रारम्भ कर अवक्तव्यपद किया । इस प्रकार इस प्रकृतिके अवक्तव्यपदके दो बार बन्ध होनेमें उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त काल प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उतना कहा है ।

१६७. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदी नौवें और दसवें गुणस्थानका काल और उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अपगतवेदका काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा क्षपकश्रेणिमें तो इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होता ही नहीं । हाँ उपशमश्रेणिमें इनका अवक्तव्यपद होता है पर वह उतरते समय एक बार ही होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य-पदके अन्तरकालका निषेध किया है ।

१६८. क्रोध कषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । इसी प्रकार मान और माया कषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें क्रमसे तीन संज्वलन और दो संज्वलन लेने चाहिए । लोभकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ चारों कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका अन्तर-काल मनोयोगी जीवोंके समान बन जाता है । मात्र श्रेणिमें क्रोध कषायमें चार संज्वलनोंका, मानकषायमें तीन संज्वलनोंका और मायाकषायमें दो संज्वलनोंका बन्ध सम्भव है । तथा लोभ कषायमें एक भी संज्वलनका बन्ध न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इस फरकका बोध करानेके लिए विशेषरूपसे उल्लेख किया है ।

१६९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्प-तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । दो वेदनीय, छह नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञाना-

अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवुंस०-पंचसंठा०-
 छस्संघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० तिण्णि पलि० देस्स० । अवट्टि० णाणा०भंगो । चदुआउ० वेउन्वियळ्ळं
 मणुसगदितिगं भुज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त० ओघं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०
 भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सादि० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । णवरि
 उज्जो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं सादि० । [चदुजादि-आदाव-थावर४
 भुज०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । अवट्टि० ओघं ।]
 पंचिदि०-पर०-उस्सा०-त्तस०४ भुज०-अप्प०-अवट्टि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । ओरालि० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० [तिण्णि
 पलिदो० देस्स० । अवट्टि०-अवत्त० ओघं । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०
 तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देस्स० ।
 ओरालि०अंगो० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देस्स० । अवट्टि०
 ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । णीचा० तिण्णिपदा० णवुंसग-

वरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार आयु, वैक्रियिकषट्क और मनुष्यगतित्रिकके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रस-चतुष्कके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्गके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग

भागाभागानुगमो

१७०. ...मिस्स० भंगो । एवं एदेण बीजपदेण याव अणाहारग ति षेदव्वं ।

परिमाणानुगमो

१७१. परिमाणं दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद०-अवट्ठि० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० तिण्णि पदा केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्तिया ? असंखेज्जा । तिण्णिआउ०

कालतक और आगे-पीछे अन्तमुहूर्त कालतक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । औदारिकशरीरका उत्तम भोग-भूमिमें कुछ कम तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें जो कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । समचतुरस्रसंस्थान आदि पाँच प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान घटित हो जाता है यह स्पष्ट ही है । तथा उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पल्यतक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्गका अन्य सब विकल्प औदारिक शरीरके समान घटित हो जाता है । मात्र अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है । बात यह है कि इसका सातवें नरकमें तो निरन्तर बन्ध होता ही है । तथा वहाँ जानेके पूर्व और निकलनेके बाद भी अन्तमुहूर्त कालतक बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । नीचगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान बन जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

भागाभागानुगम

१७०... ..मिश्रके समान भङ्ग है । इसप्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

परिमाणानुगम

१७१. परिमाण दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं अनन्त हैं । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । तीन आयु और वैक्रियिकषट्कके भुजगार, अल्पतर अव-

१ ता०प्रतौ 'ओरालि० भुज०अप्प०ज० ए० उ० ति०.... [अत्र ताडपत्रद्वय विनष्टम् । एकं क्रमाकरहित ताडपत्र विद्यते].. मिस्सभंगो । एवं एदेण बीजेण याव' आ०प्रतौ 'ओरालि० भुज०अप० जह० एग०, उक्क०... ..मिस्सभंगो । एदेण बीजपदेण याव' इति पाठः । अत्र आ०प्रतौ 'यहाँसे २०८ ताडपत्र नहीं है ।' इत्यपि सूचना विद्यते ।

वेउव्वियल्लकं भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० केत्तिया० ? असंखेज्जा । आहारदुगं चत्तारि पदा केत्तिया ? संखेज्जा । तिथ्थ० तिण्ण पदा केत्तिया ? असंखेज्जा । अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । सेसाणं सादादीणं चत्तारि पदा केत्तिया ? अणंता । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

स्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विकके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त है ? इसीप्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नशुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, अचल्लुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि पैंतीस प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रियोंके भी बन जाते हैं, इसलिए इनका परिमाण अनन्त कहा है । तथा इनका अवक्तव्य पद या तो सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनीके सम्भव है या ऐसे यथासम्भव मनुष्योंके मरकर देव होनेपर उनके प्रथम समयमें सम्भव है । ये जीव यतः संख्यातसे अधिक नहीं होते, अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । स्थानगृद्धिन्निक आदि तेरह प्रकृतियोंके तीन पद एकेन्द्रियोंके भी बन जाते हैं, इसलिए इनका परिमाण अनन्त कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद सङ्गी पञ्चेन्द्रियोंमें प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । नरकायु, मनुष्यायु और देवायु इन तीन आयुओंके और वैक्रियिकषट्कके बन्धक जीव ही असंख्यात है, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । आहारकद्विकके चार पद तो अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणमें ही होते हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पद नरक, मनुष्य और देव इन तीनों गतियोंमें सम्भव हैं, इसलिए इसके भुजगार आदि तीन पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । यद्यपि इसका अवक्तव्य-पद भी उक्त तीन गतियोंमें होता है पर वह तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करनेवाले सब जीवोंके सर्वदा नहीं होता । एक तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । दूसरे मनुष्य-गतियोंमें जो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ करता है उसके होता है । या उपशमश्रेणिसे गिरकर आठवें गुणस्थानमें इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है । तीसरे तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जो मनुष्य उपशमश्रेणिमें इसकी बन्धव्युच्छ्रित करनेके बाद मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके होता है । यतः ऐसे जीवोंका जोड़ एक समयमें संख्यातसे अधिक नहीं होता, अतः इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष रहीं दो वेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, ब्रह्म संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र सो इन साठ प्रकृतियोंके चारों पद एकेन्द्रियोंके भी सम्भव हैं, अतः इनका परिमाण अनन्त कहा है । यहाँ काययोगी आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें ओघ प्ररूपणाकी अपेक्षा यह परिमाण अविकल घटित हो जाता है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

१७२. ओरालि०मि० ओघं । कम्मइग०-अणाहारं० ध्रुवियाणं भुज० केत्तिया ? अणंता । परियत्तमाणियाणं भुज०-अवत्त० केत्तिया ? अणंता । एदेसिं तिण्णि पदा देवगदिपंचग० भुज० केत्तिया ? संखेज्जा । वेउ०मि० ध्रुवियाणं भुजंगारं केत्तिया ? असंखे० । सेसाणं भुज० अवत्त० के० ? असंखेज्जा । णवरि कम्म०-अणाहार० मिच्छं० अवत्त० केत्तिया ? असंखे० । एवं एदेण बीजपदेण अणाहारगं ति णेद्वं ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

१७२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, पदवाले जीव कितने हैं ! अनन्त है । परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त है । मात्र इन तीन मार्गणाओंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण अनन्त है, इसलिए उनमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका भङ्ग ओघके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंका भी परिमाण अनन्त है, अतः इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका और परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है । मात्र पूर्वोक्त तीन मार्गणाओंमें देवगतिपञ्चकके बन्धक जीव संख्यात ही होते हैं, क्योंकि जो देव और नारकी सम्यक्त्वके साथ मरते हैं वे संख्यात ही होते हैं और जो मनुष्य सम्यक्त्वके साथ मरकर तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं वे भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें उक्त पाँच प्रकृतियोंके भुजगार पदवालोंका परिमाण संख्यात कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवालोंका और परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवालोंका परिमाण असंख्यात कहा है । यहाँ कर्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले असंख्यात होते हैं यह जो कहा है सो उसका कारण यह है कि जो सासादनसम्यग्दृष्टि इन मार्गणाओंमें मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं वे असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका परिमाण ही असंख्यात है । इस प्रकार यहाँ तक जो परिमाण कहा है उसे बीजपद मानकर उसके अनुसार अन्य सब मार्गणाओंमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव भुजगार आदि पदवाले जीवोंका परिमाण ले आना चाहिए ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

१. आ०प्रतौ 'आहार०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'णवरि कम्म० अणाहार० । मिच्छं०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'एदेण बीजेण' इति पाठः ।

खेत्ताणुगमो

१७३. खेत्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ० वेउव्वि०छकं
आहारदुगं तित्थ० चत्तारि पदा धुवियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तव्वगाणं केवडि
खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसाणं सव्वपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । एवं
अणंतट्ठाणेषु णेदव्वं । सेसाणं सव्वेसिं सव्वे भंगा ओघं देवगदिभंगो । णवरि एइंदिय-
पंचकायाणं ओघादो साधेदव्वो ।

फोसणाणुगमो

१७४. फोसणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-

क्षेत्रानुगम

१७३. क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन
आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके चार पदोंके बन्धक जीवोंका तथा
ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र कितना
है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र
कितना है ? सर्व लोक है । इसी प्रकार सब अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंमें जानना चाहिए ।
शेष मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ओघसे देवगतिके समान जानना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ओघके अनुसार साध लेना
चाहिए ।

विशेषार्थ—तीन आयु, वैक्रियिकषट्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात
हैं तथा आहारकद्विकके बन्धक जीव संख्यात हैं । तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंमें पाँच
ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं और स्थानगृद्धिन्निक आदिके और
औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंमेंसे तीन आयु,
वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदवालोंका तथा शेष प्रकृतियोंके
अवक्तव्यपदवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनके सिवा जो शेष प्रकृतियाँ
रहती हैं अर्थात् ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ तो अवक्तव्यपदके सिवा शेष पदोंकी अपेक्षा यहाँ शेष
पदसे ली गई हैं और इनके सिवा परावर्तमान सब प्रकृतियाँ यहाँ सब पदोंकी अपेक्षा ली गई
हैं सो उन सबके सब पदवालोंका क्षेत्र सर्व लोक है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके ये पद
एकेन्द्रियोंमें भी पाये जाते हैं । यह ओघप्ररूपणा अनन्त संख्यावाली सब मार्गणाओंमें अपनी-
अपनी बंधनेवाली प्रकृतियोंके अनुसार घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके अनुसार
जाननेकी सूचना की है । शेष मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए
उनमें ओघसे देवगतिके भङ्गके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र एकेन्द्रियके अवान्तर भेद
और पाँच स्थावरकायिकोंमें विशेषता है, इसलिए उनमें ओघको लक्ष्यकर क्षेत्रके घटित करनेकी
सूचना की है ।

स्पर्शानुगम

१७४. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच
ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क,

भय-दुगुं-तेजा-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवड्ढि० केवडि०
 खेतं फोसिदं ? सव्वलोगो । अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे० ।
 थीणगि०३-मिच्छ०- अणंताणु०४ तिण्णिपदा सव्वलो० । अवत्त० अट्टचोद्द० । णवरि
 मिच्छ० अट्ट-बारह० । अपच्चक्खण०४ तिण्णिपदा सव्वलो० । अवत्त० छच्चो० ।
 सादादीणं चत्तारिपदा सव्वलो० । दोआउ० आहारदुगुं सव्वपदा खेतभंगो । मणुसाउ०
 सव्वपदा अट्टचो० सव्वलो० । दोगादि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चोद्द० । अवत्त० खेत-
 भंगो । ओरालि० तिण्णिपदा सव्वलो० । अवत्त० बारहचो० । वेउच्चि०-वेउच्चि०-
 अंगो० तिण्णिपदा बारहचो० । अवत्त० खेतभंगो । तित्थ० तिण्णिपदा अट्टचो० ।
 अवत्त० खेतभंगो ।

अगुरुलघुचतुष्क, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सत्यान-गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । तथा अवक्तव्यपदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदिके चार पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोक स्पर्शन कहा है । तथा उनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले मनुष्यों और मनुष्यनियोंके तथा इनकी बन्धव्युच्छित्तिवाले ऐसे जीवोंके भरकर देव होनेपर प्रथम समयमें

होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदोंका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इनके उक्त तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन देवोंके विहारवत्त्वस्थानकी मुख्यतासे त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका यह स्पर्शन तो है ही पर नीचे कुछ कम पाँच राजु और ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदोंके बन्धक जीवोंको सर्व लोक स्पर्शन कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद ऊपर कुछ कम छह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी होता है, अतः इनके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिके सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गो-पाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र ये प्रकृतियों ली गई हैं। नरकायु और देवायुका बन्ध असंज्ञी जीव करते हैं। पर मारणान्तिक समुद्धात और उपपादपदके समय इनका बन्ध नहीं होता। तथा आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है। मनुष्यायुके चारों पद देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है और एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी सम्भव है, अतः इसके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोक कहा है। तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी क्रमसे नरकगतिद्विकके और देवगतिद्विकके भुजगार आदि तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परन्तु मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, अतः इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। औदारिकशरीरके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, अतः इसके इन तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा नारकी और देव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिकशरीरका अवक्तव्य बन्ध नियमसे करते हैं, अतः इसके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैक्रियिकद्विकके तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे तिर्यञ्चों और मनुष्योंके इनका अवक्तव्य-पद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्योंके तो सम्भव है ही और उपशमश्रेणिमें इसकी बन्ध-व्युच्छित्तिके बाद मरकर जो देव होते हैं उनके भी प्रथम समयमें सम्भव है। तथा इसका बन्ध

१७५. गिरयेसु ध्रुवियाणं तिणिण पदा छच्चो० । सादादीणं तेरहपगदीणं सव्वपदा छच्चो० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ०-उच्चा० सव्वपदा खेत्तभंगो । सेसाणं तिणिणपदा छच्चोइ० । अवत्त० खेत्तभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० पंचचो० । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

करनेवाले जो मनुष्य द्वितीय और तृतीय नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी सम्भव है। इन सबका स्पर्शन विचार करनेपर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है।

१७५. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ काम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद ही होते हैं और नारकियोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय। सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भी यही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि इनके चारों पद नारकियोंके मारणान्तिक और उपपादके समय भी सम्भव हैं। सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियाँ ये हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत, और स्थिर आदि तीन युगल। मूलमें शेष पद द्वारा आगे कही गई स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तीन वेद, तिर्यञ्चगति, छह संस्थान, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल और नीचगोत्रके भुजगार आदि तीन पदोंके बन्धक जीवोंका इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका अवक्तव्यपद स्वस्थानमें ही होता है, इसलिए इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद छठे नरक तकके नारकियोंके मारणान्तिक समुद्रातके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अलगसे त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। अब रहीं दो आयु आदि प्रकृतियाँ सो इनमेंसे दो आयुका बन्ध तो मारणान्तिक समुद्रात और उपपादपदके समय होता ही नहीं। शेष चार प्रकृतियोंके तीन पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भी हो सकता है पर वह मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय ही सम्भव है। तथा इनके अवक्तव्य पदका बन्ध ऐसे समय भी सम्भव नहीं है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। प्रथमादि सब नरकमें अपना अपना स्पर्शन जानकर वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए।

१७६. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा सव्वलोगो । थीणगि०३-मिच्छ०-
अट्टक०-ओरालि० तिण्णिपदा सव्वलो० । अवत्त० खेत्तभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त०
सत्तचोद्द० । सेसाणं पगदीणं ओघं ।

१७७. पंचिदि०तिरिक्ख०३ धुवियाणं भुज०-अप्प०-अवट्टि० लोगस्स असंखे०
सव्वलो०। थीणगि०३-अट्टक०-णवुस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-
पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त - पत्तेय-साधारण-दूभग - अणादेज्ज - णीचा०
तिण्णिपदा लोग० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० खेत्तभंगो । सादासाद०-चदुणोक्क०-

१७६. तिर्यञ्चोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिक शरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी होते हैं और वे सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका सर्व लोक स्पर्शन कहा है । स्त्यानगृद्धि तीन आदिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनका अवक्तव्यपद इनके अबन्धक होकर पुनः बन्ध करते समय होता है, ऐसे तिर्यञ्चोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है और क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए वह क्षेत्रके समान कहा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऐसे तिर्यञ्चोंके भी सम्भव है जो ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर रहे हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । अब रहीं शेष प्रकृतियों सो उनके सम्भव पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओघमें जिस प्रकार कहा है उस प्रकार यहाँ पर भी घटित हो जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । वे प्रकृतियों ये हैं— दो वेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि दस युगल और दो गोत्र ।

१७७. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धित्रिक, आठ कषाय, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, हुण्ड-संस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ

थिराथिर-सुभासुभ० सव्वपदा लोगस्स असंखे० सव्वलो० । मिच्छ० तिण्णपदा णवुंसग-
 भंगो । अवत्त० सत्तचो० । इत्थि० तिण्णपदा दिवड्ढुचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । पुरिस०-
 दोगदि०-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०-सुभग०-दोसर-आदे०-उच्चा० तिण्णपदा छच्चो० ।
 अवत्त० खेत्तभंगो । चदुआउ०-मणुसग०-तिण्णजादि-चदुसंठा०-ओरालि०-अंगो०-छस्संघ०-
 मणुसाणु०-आदाव० सव्वपदा खेत्तभंगो । पंचिदि०-वेउच्चि०-वेउच्चि०-अंगो०-तस०
 तिण्णपदा बारह० । अवत्त० खेत्तभंगो । उज्जो०-जस० सव्वपदा सत्तचो० । बादर०
 तिण्णपदा तेरह० । अवत्त० खेत्तभंगो । अजस० तिण्णपदा लोग० असंखे० सव्वलो० ।
 अवत्त० सत्तचो० ।

के सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पुरुषवेद, दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होनेसे इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अन्तकी आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी उक्त प्रकारसे लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण घटित कर लेना चाहिए । इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदके समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । सातावेदनीय आदिके चारों पद मारणान्तिक समुद्घात और उपपादपदके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण

१७८. पंचिदि०तिरिक्खअप० धुवियाणं सव्वपदा लोग० असंखे० सव्वलो० ।
सादासाददंडओ पंचिदि०तिरि०भंगो । णवुंस०[तिरिक्ख-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-
पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जतापज्जत्त-पत्ते०-साधा०-दूभग-अणादे०-णीचा०] तिण्णिपदा
लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अवत्त० खेत्तभंगो । उज्जो०-जसग्गि० सव्वपदा सत्तचो० ।

क्षेत्रका स्पर्शन करते समय सम्भव होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है । आगे अयशःकीर्तिके चारों पदोंकी अपेक्षा जो स्पर्शन कहा है वह मिथ्यात्वके समान ही है, अतः उसे भी इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । देवियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी स्त्रीवेदके तीन पदोंका बन्ध होता है, इसलिए इसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है । पर ऐसी अवस्थामें इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके तीन पद और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय पुरुषवेद, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पद सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पर ऐसी अवस्थामें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । चार आयुओंके सब पद और इस दण्डककी शेष प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होते । यद्यपि शेष प्रकृतियोंके तीन पद मारणान्तिक समुद्घातके समय भी होते हैं पर जिन जीवोंसम्बन्धी ये प्रकृतियाँ हैं उनका स्पर्शन ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिये इन प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदि चार प्रकृतियोंके तीन पदोंका बन्ध होता है, अतः इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पर इनका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें नहीं होता, अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपरके एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । ऊपर सात और नीचे छह इसप्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय बादर प्रकृतिके तीन पदों का बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । पर मारणान्तिक समुद्घातके समय इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इसकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है ।

१७९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें ध्रुवबन्धवाली सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता-वेदनीय-असातावेदनीयदण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बादर प्रकृतिके तीन

बादर० तिण्णिपदा सत्तचोद० । अवत्त० खेत्तभंगो । [अजस० तिण्णिप० लो० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० सत्तचो० ।] सेसाणं सव्वपदा खेत्तभंगो । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं विगल्लिंदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०- बादरपत्तेयपज्जत्तगाणं च । [णवरि तेउ०-वाऊणं मणुसगदिचदुक्कं वज्ज । वाऊणं जम्हि लोग० असंखेज्ज० तम्हि लोग० संखेज्ज० ।]

पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार सब अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय, बादरपृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अग्नि-कायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए । तथा पूर्वमें जहाँ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ वायुकायिक जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण बतलाया है । इस सब स्पर्शनके समय इनके ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके तीन पद और सातावेदनीयदण्डकके चार पद सम्भव होनेसे इस अपेक्षा यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । साता-असातावेदनीय दण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं—दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ । अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंके बन्धक जीवोंका यह स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, अतः आगे इसे छोड़कर शेषका स्पष्टीकरण करते हैं । नपुंसकवेद आदिका अवक्तव्यबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । बादर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका भी यही स्पर्शन कहा है सो उसका कारण भी इसी प्रकार जानना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय अयशःकीर्तिका अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए इसका इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अब रहीं शेष स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्र सो एक तो आयुकर्मका मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध नहीं होता, दूसरे शेष प्रकृतियोंका यद्यपि मारणान्तिक समुद्घातके समय बन्ध होता है फिर भी जिन जीवों सम्बन्धी ये प्रकृतियाँ हैं उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके मारणान्तिक समुद्घात करनेपर स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही

१७६. मणुसेसु पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि णिरयगदि-देवगदिसंजुत्ताणं रज्जु
ण लभदि । .

१८०. देवेसु ध्रुवियाणं सव्वपदा अट्ट-णव० । श्रीणगि०३-अणंताणु०४-णवुंस०-
तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंढ०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिणपदा अट्ट-
णव० । अवत्त० अट्टचो० । सादादिदस०-उज्जो०-जस०-अजस०-मिच्छ० सव्वपदा
अट्ट-णव० । सेसाणं सव्वपदा अट्टचो० । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

प्राप्त होता है और इनका क्षेत्र भी इतना ही है, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ सब अपर्याप्त आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ कही हैं उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान स्पर्शन बन जाता है, इसलिए उनमें इनके समान स्पर्शनके जाननेकी सूचना की है। मात्र अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतित्तुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें इन चार प्रकृतियोंके बन्धका निषेध किया है। तथा वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इनमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शनके स्थानमे उक्त प्रमाण स्पर्शन करना चाहिए।

१७६. तीन प्रकारके मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें नरकगति और देवगति संयुक्त प्रकृतियोंका स्पर्शन रज्जुओंमें नहीं प्राप्त होता।

विशेषार्थ—पहले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें स्पर्शन बतला आये हैं। तीन प्रकारके मनुष्योंमें यह स्पर्शन अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है। पर मनुष्यत्रिकमें नरकगति और देवगतिसंयुक्त नामकर्मकी जितनी प्रकृतियाँ बँधती हैं उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि इन तीन प्रकारके मनुष्योंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेपर भी उस समय प्राप्त हुआ सब स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, इसलिए यहाँ नरकगति और देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका सब पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन राजुओंमें नहीं प्राप्त होता है ऐसा कहा है।

१८०. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि दस तथा उद्योत, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और मिथ्यात्वके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा, स्त्यानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा और सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है, अतः यह उक्त

१८१. एइंदिय-पंचकायाणं खेत्तभंगो ।

१८२. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-अडुकसा०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-
वण्ण०४-अगु०४-पज्जत्त०-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवट्टि० अट्टचो० सव्वलो० ।

प्रमाण कहा है। मात्र स्त्यानगृद्धि आदिका अवक्तव्यपद एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियाँ ये हैं—दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ। अब शेष रहीं स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायो-गति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र सो इनका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय बन्ध नहीं होता पर देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अलग-अलग देवोंमें अपना अपना स्पर्शन जानकर इस विधिसे सब प्रकृतियोंके यथा-सम्भव पदोंका स्पर्शन ले आना चाहिए।

१८१. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—यहाँ एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिकोंमें क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। विशेष खुलासा इस प्रकार है। एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके बादर और बादर अपर्याप्त, बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और इनके अपर्याप्त सब वनस्पतिकायिक और निगोद तथा सब सूक्ष्म इनमें सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन और क्षेत्रमें अन्तर नहीं है, इसलिए उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र कुछ प्रकृतियोंके स्पर्शनमें फरक है। उसे यहाँ यद्यपि मूलमें नहीं कहा है फिर भी विशेष रूपसे जान लेना चाहिए। यथा—मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव थोड़े होते हैं, इसलिए इसके सब पदोंकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण जानना चाहिए। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पद तथा बादरके भुजगार आदि तीन पद ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भाग-प्रमाण जानना चाहिए। किन्तु बादरका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें सम्भव नहीं है, इसलिए इसके इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिए। अयशःकीर्तिके तीन पद सब अवस्थाओंमें सम्भव है, इसलिए इसके इन पदोंकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन जानना चाहिए। पर इसके अवक्तव्यपदका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। फिर भी ये जीव जब ऊपर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं तब भी इसका अवक्तव्यपद होता है, इसलिए इस अपेक्षासे इसका भी स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण जानना चाहिए।

१८२. पञ्चेन्द्रियाद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके

अवत्त० खेत्तभंगो । शीणगि०३-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरि-
क्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-णीचा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अट्टुचो० सव्वलो० ।
अवत्त० अट्टुचो० । सादासाद०-चट्टुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० सव्वपदा अट्टुचो०
सव्वलो० । मिच्छ० तिण्णिपदा अट्टुचो० सव्वलो०^१ । अवत्त० अट्टु-बारह० । अपच्च-
क्खाण०४ तिण्णिपदा अट्टु० सव्वलो० । अवत्त० छच्चो० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-
पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे०^२ तिण्णि-
पदा अट्टु-बारह० । अवत्त० अट्टुचो० । दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुगं सव्वपदा खेत्त-
भंगो । दोआउ०-मणुस-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० सव्वपदा अट्टुचो० । [गिरयगदि-
देवगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चो०] अवत्त० खेत्त० । ओरालि० तिण्णिप०
अट्टुचो० सव्वलो० । अवत्त० बारह० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिपदा बारहचो० ।

अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क,
नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय
और नीचगोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ
बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके
बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । साता-
वेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सब पदोंके बन्धक
जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-
प्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने
त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके
अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह
संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, दुःस्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने
त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति और आहारकट्टिकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब
पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ
कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका
स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ
कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा
इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण

१ ता०प्रतौ 'तिण्णिपदा०.....चो० सव्वलो०' इति पाठः । २ आ०प्रतौ 'सुस्सर-आदे०' इति पाठः ।

अवत्त० खेत्त० । बादर-उज्जो०-जस० सव्वपदा अट्ट-तेरह० । णवरि बादर० अवत्त० खेत्तभंगो । सुहुम-अपज्जत्त-साधार० तिण्णिपदा लोग० असंखे० सव्वलो० । अवत्त० खेत्तभंगो । [अजस०तिण्णिपदा अट्टचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्ट-तेरह० ।] तित्थ० तिण्णिपदा अट्टचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं पंचिदियभंगो पंचमण०-पंचवचि०-चक्खु०-सण्णि त्ति । कायजोगि-अचक्खु०-भवसि०-आहार० ओघं ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । बादर, उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि बादरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इस प्रकार पञ्चेन्द्रियोंके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, चक्षुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । काययोगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियद्विक जीवोंका स्पर्शन स्वस्थानविहार आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और मारणान्तिक पदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके भुजगार आदि तीन पदोंकी अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है, क्योंकि इन जीवोंमें उक्त प्रकृतियोंके ये तीन पद सब अवस्थाओंमें सम्भव हैं । मात्र इनमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका स्वामित्व ओघके समान होनेसे इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । स्थानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा इनका अवक्तव्य पद देवोंमें स्वस्थान विहार आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । सातावेदनीय आदिके चारों पद विहारादिके समय और मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेक्षा उक्त स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इसका अवक्तव्यपद देवोंमें विहारादिके समय और नीचे कुछ कम पाँच और ऊपर कुछ कम सात राजुके स्पर्शनके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर लेना चाहिए । तथा आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका यह स्पर्शन कहा है वह भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा जो संयतासंयत

आदि मर कर देवोंमें उत्पन्न होते हैं उनके भी प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवक्तव्य पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंमें विहार आदिके समय और नारकियों व देवोंके तिर्यञ्चों व मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय स्त्रीवेद आदि प्रकृतियोंके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। दो आयु आदिके सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। शेष दो आयु और मनुष्यगत आदिके सब पद देवोंमें विहारादिके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चों और मनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी नरकगतिद्विकके तीन पद और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र ऐसे समयमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें विहारादिके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय औदारिकशरीरके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इसके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तथा इसका अवक्तव्यपद नारकियों और देवोंके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके नारकियों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैक्रियिकद्विकके तीन सम्भव है, इसलिए इनके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। बादर आदिके सब पदोंका स्पर्शन देवोंके विहारादिके समय और नीचे कुछ कम छह राजु व ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण स्पर्शनके समय भी सम्भव होनेसे इनके सब पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ व कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र बादर प्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता। दूसरे इसे करनेवाले जीव अल्प हैं, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। सूक्ष्म आदिके तीन पदवालोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। अयशः-कीर्तिके तीन पदवालोंका स्पर्शन जो त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है सो इसे ज्ञानावरणके समान घटितकर लेना चाहिए। तथा इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण यशःकीर्तिके समान घटित कर लेना चाहिए। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पद देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इसके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा ऐसे समय इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ पाँच मनोयोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह स्पर्शन अविकल बन जाता है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रियों के समान इसके जाननेकी सूचना की है। तथा काययोगी आदि मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है।

१८३. ओरा०का० ओघं । णवरि थीण०३-अट्टक०-ओरालि० अवत्त० खेत्तभंगो । मिच्छ० अवत्त० सत्तचो० । अपच्चक्खाण०४ अवत्त० मणुसाउ०^१ तिथ्यगरादीणं रज्जू णत्थि ।

१८३. औदारिककाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, आठ कषाय और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अपत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका तथा मनुष्यायु और तीर्थङ्कर आदिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन राजुओंमें नहीं प्राप्त होता।

विशेषार्थ—यहाँ समान्यसे औदारिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है और यह सम्भव भी है, क्योंकि यह योग एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी यथासम्भव पाया जाता है। मात्र कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके विवक्षित पदवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके अनुसार घटित नहीं होता, इसलिए उसे अलगसे सूचित किया है। यथा—ओघमें स्त्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यपदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। जो देवोंके विहारादिके समय होता है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारकियों और देवोंके उपपादपदके समय होता है। किन्तु इस स्पर्शन कालमें औदारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य-पदवाले जीवोंका स्पर्शन ओघसे भी क्षेत्रके समान है, इसलिए उससे इस विषयमें यहाँ कोई विशेषता नहीं है। हाँ यह स्पर्शन यहाँ उपपादपदके समय नहीं प्राप्त करना चाहिए, इतनी विशेषता अवश्य है। यही कारण है कि इसका भी यहाँ विशेषरूपसे उल्लेख किया है। ओघसे मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु उसमेंसे यहाँ त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन ही प्राप्त होता है, क्योंकि औदारिककाययोगी जीव ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समय ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद कर सकते हैं, पूर्वोक्त अन्य स्पर्शनके समय नहीं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंके स्पर्शनमें ओघसे फरक होनेके कारण यह भी अलगसे कहा है। ओघसे अपत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण घटित करके बतलाया है पर यह स्पर्शन भी यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि जो संयतासंयत आदि मनुष्य और संयतासंयत तिर्यञ्च असंयत होकर उसी पर्यायमें इनका अवक्तव्यपद करते हैं उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन राजुओंमें नहीं प्राप्त होता यह सूचना की है। ओघसे मनुष्यायुके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है। सो इसमेंसे सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन तो यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंके औदारिककाययोग भी होता है। पर दूसरा स्पर्शन यहाँ सम्भव नहीं है। हाँ उसके स्थानमें यहाँ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन अवश्य सम्भव है, इसलिए उक्त स्पर्शनका निषेध करनेके लिए मनुष्यायुके सब पदवालोंका

१८४. ओरालि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० खेत्तभंगो ।

१८५. वेउव्वियका० पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दुगुं०-[णवुंस-]
तिरिक्ख०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु० अगु०४-वादर-पञ्जत्त-पत्ते०-
दूमग-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० तिण्णिपदा अट्ट-तेरह० । अवत्त० अट्टचो० ।
सादासाद०-चदुणोको०उज्जो०-थिरादितिण्णियुग०सव्वपदा'अट्ट-तेरह० । मिच्छ० तिण्णिपदा
अट्ट-तेरह० । अवत्त० अट्ट-वारह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-
छस्संध०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णिपदा अट्ट-वारह० । अवत्त० अट्टचो० ।
दोआउ-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव०-उच्चा० सव्वपदा अट्टचो० । एइंदि०-थावर०

स्पर्शन राजुओंमें नहीं प्राप्त होता यह कहा है। इसी प्रकार तीर्थकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीवोका स्पर्शन भी यहाँ त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण सम्भव नहीं है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन राजुओंमें नहीं प्राप्त होता यह सूचना की है। इसी प्रकार अन्य जो विशेषता सम्भव हो वह घटित कर लेनी चाहिए।

१८४. औदारिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेद-वाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमे क्षेत्रके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओंमे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंकी अपेक्षा जो क्षेत्र कहा है, सामान्यसे वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इनमें क्षेत्रके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है।

१८५. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण, चतुष्क, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीच-गोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। *स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु-पूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने

१ ता०प्रतौ 'थिरादितिण्णउ (यु)० सव्वपदा' इति पाठः । २ ता०प्रतौ 'अट्टतेर० अट्टवारह०' इति पाठः ।

तिणिणपदा अङ्कणव० । अवत्त० अङ्कचो० । तित्थ० तिणिणपदा अङ्कचो० । अवत्त० खेत्तभंगो ।

१८६. कम्मह० धुविगाणं भुज० सव्वलो० । सेसाणं भुज०-अवत्त० सव्वलो० ।

त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें दो प्रकारकी प्रकृतियाँ ली गई हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तराय ये तो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ केवल तीन ही पद होते हैं । शेष नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ चारों पद सम्भव हैं । यहाँ तीन पदोंकी अपेक्षा तो पूर्वोक्त दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका स्पर्शन कहा है और अवक्तव्यपदकी अपेक्षा दूसरे प्रकारकी प्रकृतियोंका स्पर्शन कहा है । देवोंके विहारादिके समय भी स्त्यानगृद्धित्रिक आदिका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । आगे खीवेद आदिके तथा एकेन्द्रियजाति और आतपके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा, दो आयु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहनेका यही कारण है । प्रथम दण्डकमें कही गई इन सब प्रकृतियोंके तीन पद देवोंके विहार आदिके समय तो सम्भव हैं ही । साथ ही नीचे छह और ऊपर सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय भी सम्भव है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंके तीन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । साता-वेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा और मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन इसीप्रकार कहनेका यही कारण है । देवोंके विहारादिके समय तथा नीचे कुछ कम पाँच और ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य-पद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । खीवेद आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन इसी प्रकार प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है । मात्र यहाँ कुछ कम बारह राजुसे नीचे कुछ कम छह और ऊपर कुछ कम छह राजु लेने चाहिए । कारणका विचार कर लेना चाहिए । देवोंमें विहार आदिके समय एकेन्द्रियजाति और आतपके तीन पद तो सम्भव हैं ही । साथ ही एकेन्द्रियोंमें इनके मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी ये पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । वैक्रियिककाययोगमें दूसरे और तीसरे नरकमें ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१८६. कर्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदके बन्धक

णवरि मिच्छ० अवत्त० एकारस० । देवगदिपंचग० खेत्तभंगो ।

१८७. इत्थिवेदेसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० तिण्णिपदा अट्टुचो० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-अणंताणु४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-अजस०-णीत्ता० तिण्णिपदा अट्टुचो० सव्वलो० । अवत्त० अट्टुचो० । [णवरि अजस० अवत्त० अट्टु-णवचो० ।] णिहा-पयला-अट्टुक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० तिण्णिपदा अट्टुचो० सव्वलो० । अवत्त० खेत्तभंगो । सादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० सव्वपदा अट्टुचो० सव्वलो० । मिच्छ० तिण्णिपदा साद०भंगो । अवत्त० अट्टु-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-

जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा देवगतिपञ्चकके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगी जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंका और अन्य प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है। मात्र इस नियमकी कुछ प्रकृतियाँ अपवाद हैं। यथा इस योगमें ऊपर छह और नीचे पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजुप्रमाण क्षेत्रके भीतर ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव पाये जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है। तथा जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्तम भोगभूमिके मनुष्यों और तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होते हैं उनके व जो नारकी और देव सम्यक्त्वके साथ मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके इस योगमें देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यह क्षेत्रके समान कहा है।

१८७. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्थानगृद्धिन्निक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीच-गोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे

१ ता०आ०प्रत्योः 'भयदुगुं ओरा० ते० क०' इति पाठः ।

पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ० मणुसाणु०-आदाव०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-
 उच्चा० सव्वपदा अट्टुचो० । दोआउ०-निण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० सव्वपदा खेत्त-
 भंगो । दोगादि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चो० । अवत्त० खेत्तभंगो । पंचिदि०-अप्पसत्थ०-
 तस-दुस्सर० तिण्णिपदा अट्टु-बारह० । अवत्त० अट्टुचो० । ओरालि० तिण्णिपदा अट्टुचो०
 सव्वलो० । अवत्त० दिवट्टुचो० । वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णिपदा बारह० । अवत्त०
 खेत्तभंगो । उज्जो०-जसगि० सव्वपदा अट्टु-णव० । बादर० तिण्णिपदा अट्टु-तेरह० । अवत्त०
 खेत्तभंगो । सुहुम-अपज्ज०-साधार० तिण्णिपदा लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा ।
 अवत्त० खेत्तभंगो । पुरिसेसु एसेव भंगो । णवरि तित्थ० ओघं । ओरा०-अपचक्खण०४
 अवत्त० छच्चोद० ।

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति, आहारकद्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो गति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुःस्वरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादरप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पुरुषवेदवाले जीवोंमें यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। तथा औदारिकशरीर और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—विहारवत्त्वस्थानकी अपेक्षा कुछ कम आठ राजु और मारणान्तिक समुद्रात की अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्त्रीवेदी जीवोंने स्पर्शन किया है। पाँच ज्ञानावरणादि, स्त्यानगृद्धि आदि सातावेदनीय आदि, मिथ्यात्व और औदारिकशरीरके तीन पदोंकी अपेक्षा तथा सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा इन जीवोंने उक्त क्षेत्रका स्पर्शन किया है, अतः यह उक्त

प्रमाण कहा है। किन्तु स्त्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन सम्भव है, क्योंकि देवियोंके विहारादिके समय इन प्रकृतियों का यह पद सम्भव है। यद्यपि अन्य गतियोंमें भी यह पद होता है पर इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इसीके अन्तर्गत है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। स्त्रीवेद आदिके सब पदोंकी अपेक्षा तथा पञ्चेन्द्रियजाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ निद्रा-प्रचला आदिका अवक्तव्यपद जिस अवस्थामें होता है उस अवस्था सहित उन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसे क्षेत्रके समान कहा है। दो आयु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा तथा दो गति आदि, वैक्रियिकशरीरद्विक और बादर प्रकृतिके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे यह भी क्षेत्रके समान कहा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। देवियोंके विहारादिके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद सम्भव है, इसलिए इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंकी अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन जाता है, इसलिए यह भी उक्तप्रमाण कहा है। नीचे कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय नरकगतिद्विक के तीन पद और ऊपर कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय देव-गतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन कहा है। तथा इन दोनों स्पर्शनोंको मिला देनेपर वैक्रियिकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन प्राप्त होता है, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंके विहारादिके समय तथा तिर्यञ्चो और मनुष्योंके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंके विहारादिके समय तथा ऊपर सात और नीचे छह इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय भी बादर प्रकृतिके तीन पद सम्भव है, अतः इसके इन पदोंकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। सूक्ष्मादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य ही करते हैं और स्त्रीवेदी इन जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण हैं, इसलिए इनके इन तीन पदोंकी अपेक्षा उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है। पहले अयशःकीर्तिको भी स्त्यानगृद्धिद्विकदण्डकके साथ गिना आये हैं। किन्तु उसके अवक्तव्यपदके स्पर्शनमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके स्पर्शनसे फरक है, क्योंकि ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इसका अवक्तव्य पद होता है, देवियोंके विहारादिके समय तो सम्भव है ही, अतः इसके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन अलगसे कहा है। कुछ अपवादको छोड़कर पुरुषवेदवाले जीवोंमें यह स्पर्शन बन जाता है, अतः उनमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदियोंमें एक अपवाद तो तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षासे है। बात यह है कि ओषधमें इस प्रकृतिके तीन पदोंकी अपेक्षा जो कुछ कम आठ राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है वह पुरुषवेदी जीवोंमें ही सम्भव है, क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव देवियोंमें नहीं उत्पन्न होते यह इस स्पर्शनसे स्पष्ट हो जाता है। दूसरा अपवाद अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके स्पर्शनकी अपेक्षा है।

१८८. णवुंसगे ओरा०कायजोगिभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० बारहचोद० ।
 क्रोधादि०४ ओघं । मदि-सुद० ओघं । णवरि देवगदि-देवाणु० तिण्णिपदा पंचचो० ।
 अवत्त० खेत्तभंगो । वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णिपदा एक्कारह० । अवत्त० खेत्तभंगो ।
 ओरालि० अवत्त० एक्कारह० । एवं अब्भव०-मिच्छा० । विभंगे० पंचिदियभंगो । णवरि
 वेउन्वियळक्कं मदि०भंगो । ओरालि० अवत्त० खेत्तभंगो ।

बात यह है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव ऊपर सर्वार्थसिद्धि तक उत्पन्न हो सकते हैं, अतः यहाँ इनके इस पदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है ।

१८८. नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें देवगति और देवगत्यानुपूर्विके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार अर्थात् मत्यज्ञानी जीवोंके समान अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें वैक्रियिकषट्कका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नीचे कुछ कम पाँच और ऊपर कुछ कम सात इसप्रकार कुछ कम बारह राजुका स्पर्शन करते समय बन जाता है । किन्तु औदारिककाययोगी जीवोंमें कुछ कम सात राजुप्रमाण ही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि नारकियोंके औदारिककाययोग सम्भव नहीं है । नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगवालोंकी अपेक्षा इतनी मात्र विशेषता है । अन्य सब कथन एक समान होनेसे नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें कुछ अपवादोंको छोड़कर शेष कथन ओघके समान बन जाता है । जहाँ फरक है उसका खुलासा इसप्रकार है—साधारणतः ये दोनों अज्ञानवाले मनुष्य अन्तिम प्रवैयक तक उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ तिर्यञ्चोंकी मुख्यता है और ऐसे तिर्यञ्चोंका उत्पाद सहस्रार कल्प तक होनेसे वे सहस्रार कल्प तक ही देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात कर सकते हैं । यही कारण है कि यहां देवगतिद्विकके तीन पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ओघसे यह त्रसनालीके कुछ कछ छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि ओघसे देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव लिथे गये हैं । इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । एक फरक तो यह है । दूसरा फरक इसी कारणसे वैक्रियिकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शनमें पड़ता है । बात यह है कि ओघसे वैक्रियिकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-

१८६. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस०-अट्टक०-पुरिस०-भय-दु०-
मणुस०-पंचिदि०- [ओरालि०-] तेजा०-क०-समचदु० - [ओरालि०अंगो०-वज्जरी०]
वण्ण०४- [मणुसाणु०-] अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-
तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० तिण्णिपदा अट्टचो०। अवत्त० खेत्तभंगो। सादासाद०-चदुणोक्क०-
थिरादितिण्णियुग० सव्वपदा अट्टचो०। अपच्चक्खाण०४ तिण्णि पदा अट्टचो०।
अवत्त० छचो०। मणुसाउ० साद०भंगो। देवाउ० आहारदुगं खेत्तभंगो। मणुसगदि-

प्रमाण बतला आये हैं। पर यहाँ उसमेसे ऊपरका एक राजु स्पर्शन कम हो जाता है, अतः यहाँ इनके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इनके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। तीसरा फरक औदारिक-शरीरके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा है। ओघसे यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण बतला आये हैं, क्योंकि वहाँ सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिका भेद न होनेसे नीचेके छह और ऊपरके छह इसप्रकार कुछ कम बारह राजु लिए गये हैं। किन्तु यहाँ नीचेके छह और ऊपर के पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजु ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि बारहवें कल्प तकके देवोंमें ही तिर्यञ्च मरकर उत्पन्न होते हैं। अभव्य और मिथ्यादृष्टियोंमें मत्यज्ञानियोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। विभङ्गज्ञानी पञ्चेन्द्रिय ही होते हैं, इसलिए इनमे साधारणतः पञ्चेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। जो अन्तर है उसका अलगसे निर्देश किया है। बात यह है कि पञ्चेन्द्रियोंमें वैक्रियिकषट्कका भङ्ग ओघके समान बन जाता है और विभङ्गज्ञानी मिथ्यादृष्टि होते हैं, अतः उनमे वह नहीं बनता। किन्तु मत्यज्ञानियों के जो स्पर्शन कहा है वह बनता है, अतः इनमें वैक्रियिकषट्कका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान जाननेकी सूचना की है। दूसरे पञ्चेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारकियों और देवोंके उपपादपदके समय प्राप्त होता है। किन्तु देव और नारकी उपपादपदके समय विभङ्गज्ञानी नहीं होते, क्योंकि उनके यह अज्ञान पर्याप्त होनेपर प्राप्त होता है। अतः जो विभङ्गज्ञानी तिर्यञ्च और मनुष्य औदारिकशरीरका अवक्तव्य पद कर रहे हैं उन्हींकी अपेक्षा यहाँपर औदारिकशरीरके अवक्तव्य-पदका स्पर्शन घटित किया जा सकता है और वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। यही कारण है कि विभङ्गज्ञानमें औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है।

१८६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुसा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। देवायु और आहारकट्टिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्तव्यपदके

पंचगस्स अवत्त० छच्चो० । देवगदि०४ तिण्णि पदा छच्चो० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग्ग०-वेदग्ग०-उवसम० । णवरि खइग्ग०-उवसम० देवगदि०४ खेत्तभंगो । उवसम० तित्थ० खेत्तभंगो ।

बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनवाले, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तथा उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ देवोंमें विहारादिके समय भी पाँच ज्ञानावरणादि और चार अप्रत्याख्यानावरणके तीन पद तथा सातावेदनीय आदि व मनुष्यायुके सब पद बन जाते हैं, इसलिए इनके उक्त पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा जो संयत जीव इनकी बन्धव्युच्छित्ति होनेके बाद मरकर देव होते हैं या लौटकर पुनः इनका बन्ध करते हैं उनके इनका अवक्तव्यपद होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । इतनी विशेषता है कि इनमेंसे तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद दूसरे और तीसरे नरकमें भी बन जाता है । तथा मनुष्यगतिपञ्चकका अवक्तव्यपद जो सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च मरकर देव होते हैं उनके भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसका अलगसे निर्देश किया है । जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य प्रथम नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी इनका अवक्तव्य पद होता है पर इससे उक्त स्पर्शनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । संयत और संयतासंयत जीवोंके असंयतसम्यग्दृष्टि होने पर या ऐसे जीवोंके मरकर देव होनेपर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अवक्तव्य पद होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन भी त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः यह उक्तप्रमाण कहा है । तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद करते हैं, अतः इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा जो देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके इनका अवक्तव्य पद होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः यह क्षेत्रके समान कहा है । यहाँ अवधिदर्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें उक्त तीन प्रकारके ज्ञानवाले जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि जो ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते हैं वे बहुत ही अल्प होते हैं और उनका स्पर्शन क्षेत्र भी सीमित है, इसलिए तो ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें देवगति चतुष्कके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा उपशमसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च तो देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात ही नहीं करते । मनुष्य करते हैं सो जो उपशमश्रेणिवाले ऐसे मनुष्य हैं वे ही करते हैं, इसलिए इनमें भी देवगतिचतुष्कके सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । उपशमसम्यग्दृष्टियोंमें यही बात तीर्थङ्कर प्रकृतिके विषयमें भी जाननी चाहिए ।

१६०. संजदासंजदेसु धुविगाणं तिण्णि पदा छचोद्द० । सादादीणं सच्चपदां छचो० । देवाउ०-तित्थ० खेत्तमंगो । असंजद० ओघं ।

१६१. किण्ण-णील-काउ० धुवियाणं तिण्णि पदा सच्चलो० । गिरयगदि-गिरयाणु०-वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णि पदा छ-चत्तारि-त्रे० । अवत्त० खेत्तमंगो । दोआउ०-देवगदि-देवाणु०-तित्थ० खेत्तमंगो । सेसाणं तिरिक्खोवं । णवरि ओरालि० अवत्त० छचत्तारि-बेचोद्दस० ।

१६०. संयतासंयतोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । असंयत जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है और यह ध्रुवबन्धवाली व इतर प्रकृतियोंके सब पदवालोंके बन जाता है, इसलिए यह उक्तप्रमाण कहा है । मात्र मारणान्तिक समुद्घातके समय आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता और संयतासंयतोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य ही होते हैं । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः इन प्रकृतियोंके सम्भव सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । असंयत जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

१६१. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गो गङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । दो आयु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—कृष्णादि तीन लेश्यावाले जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । कृष्णलेश्यामें सातवें नरक तकके, नील लेश्यामें पाँचवें नरकतकके और कापोत लेश्यामें तीसरे नरक तकके नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी नरकमति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ दो बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । आयुका बन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता । कृष्ण और नीललेश्यामें देवगतिद्विकका बन्ध भी मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन दो लेश्यावाले देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात ही नहीं करते । कापोत लेश्यामें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी देवगतिद्विकका बन्ध सम्भव है पर

१. ता०प्रतौ 'सत्त [व्व] पदा' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पदा चत्तारि बे' इति पाठः ।

१६२. तेउए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-
बादर-पञ्जत्त-पत्तेय-णिमि०-पंचंत० सव्वपदा अट्ट-णव० । श्रीणगिद्विदंडओ साद०-
दंडओ सोधम्मभंगो । अपच्चक्खाण०४-ओरालि० तिण्णि पदा अट्ट-णवचो० । अवत्त०
दिवडुचो० । पच्चक्खाण०४ तिण्णिपदा अट्ट-णव० । अवत्त० खेत्तभंगो । तित्थ० ओघं ।
देवाउ०-आहारदुगं खेत्तभंगो । देवगदि०४ तिण्णि पदा दिवडुचो० । अवत्त० खेत्तभंगो ।
सेसाणं पगदीणं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि अपच्चक्खाण०४-ओरा०-
ओरा०अंगो० अवत्त० देवगदि०४ तिण्णि पदा पंचचो० । सेसाणं सहस्सारभंगो ।

ऐसे जीव केवल भवनत्रिकमें ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं । ऐसी अवस्थामें इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । इसी प्रकार कृष्ण और नील लेश्यामें नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । कापोत लेश्यामें मारणा-
न्तिक समुद्घात करते समय अवश्य ही इस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है पर ऐसे जीव या तो प्रथम नरकमें या प्रथम नरकवाले मनुष्योंमें ही मारणान्तिक समुद्घात करते हैं । और इनका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन दो आयु आदि सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तीर्थञ्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है । मात्र औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद नरकमें उपपाद पदके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छद्द, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

१६२. पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छद्द दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धिदण्डक और सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भाग-
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । देवायु और आहारकट्टिकका भङ्ग क्षेत्रके समान है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । इसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अप्रत्या-
ख्यानावरणचतुष्क, औदारिकशरीर और औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने तथा देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्सार कल्पके समान है ।

१. ता०आ०प्रत्यौः 'णिमि०.....अट्टणव०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अत्त० । देवगदि ४ तिण्णि पदा' इति पाठः ।

विशेषार्थ—पीतलेश्यामें देवोंके विहारके समय त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है और ऐसे समयमें पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पद सम्भव है, अतः इनके सब पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्यानगृद्धिदण्डक और सातावेदनीयदण्डकके स्पर्शनको जो सौधर्म कल्पके समान जाननेकी सूचना की है सो उसका यही अभिप्राय है कि स्त्यानगृद्धिदण्डकके तीन पदवाले जीवोंका और सातावेदनीयदण्डकके चार पदवालोका उक्त प्रकारसे ही स्पर्शन जानना चाहिए। तथा स्त्यानगृद्धिदण्डकका अवक्तव्यपद ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन इसीका सौधर्म कल्पमें कहे गये स्पर्शनके समान त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। स्त्यानगृद्धिदण्डककी प्रकृतियों ये हैं—स्त्यानगृद्धिचक्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र। सातावेदनीयदण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकपाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगल। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके तीन पद भी देवोंके विहारके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव है, इसलिए इनके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन भी त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवोंमें ऐशान कल्प तकके देवोंके उपपादपदके समय ही सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद भी यद्यपि उक्त देवोंमें सम्भव है पर जो संयत मनुष्य मरकर इनमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके यह होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान तथा देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। सौधर्म ऐशान कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए उसका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ शेष प्रकृतियाँ ये हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, ब्रह्म संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्र। इनका ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन्ध नहीं होता, अतः इनके चारों पदवाले जीवोंका स्पर्शन सौधर्म कल्पके समान त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। यहाँ मूलमें इसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार अलग-अलग प्रकृतियोंके सम्भव पदवालोंका स्पर्शन पीतलेश्यामें कहा है उसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी घटित कर लेना चाहिए। पर पद्मलेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन सम्भव नहीं है, इसलिए उसे सर्वत्र छोड़ देना चाहिए। मात्र इनमें अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद सहस्रार कल्प तकके देवोंमें उपपादपदके समय और देवगतिचतुष्कके तीन पद इन्हीं देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवालोका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका विचार सहस्रारकल्पके समान कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

१६३. सुक्काए आणदभंगो^१ । अपच्चम्खाण०४-मणुसगदिपंच० सन्वपदा छ्चो० । देवगदि०४ तिण्णि पदा छ्चो^२० । अवत्त० खेत्तभंगो० । खविगाणं अवत्त० खेत्तभंगो ।

१६४. सासणे धुवियाणं तिण्णि पदा अट्ट-बारह० । सादादीणं तेरसणं सन्वपदा अट्ट-बारह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंध०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णि पदा अट्ट-एकारह० । अवत्त० अट्टचो० । णवरि ओरा०अंगो०

१६३. शुक्ल लेश्यामे आनतकल्पके समान भङ्ग है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और मनुष्यगति पञ्चकके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । क्षपकप्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यावाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है । आनत कल्पके देवोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन बन जाता है, अतः शुक्ललेश्यामें आनत कल्पके समान भङ्ग है यह वचन कहा है । उसमें भी कुछ स्पष्ट करनेके लिए अलगसे निर्देश किया है । आरण कल्पसे लेकर ऊपरके देवोंमें उत्पादके समय भी अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके सब पद और मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद तथा इन देवोंके विहारादिके समय मनुष्यगतिपञ्चकके शेष तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । तिर्यञ्चों और मनुष्योंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद होते हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्य पद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है । अब वहीं पाँच ज्ञानावरणादि शेष क्षपक प्रकृतियों से इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणियों या तो उतरते समय या इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका भङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनके शेष तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन कितना है इसका उत्तर 'आनत कल्पके समान है' इसमें ही हो जाता है । यहाँ ऐसी तीन प्रकृतियों और शेष रहती है जिनके विषयमें अलगसे कुछ नहीं कहा है । वे हैं—देवायु और आहारकद्विक । सो देवायुका बन्ध तो स्वस्थानमें ही होता है और आहारकद्विकका बन्ध केवल अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणवाले मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके चारों पदवाले जीवोंका स्पर्शन यहाँ क्षेत्रके समान प्राप्त होता है ।

१६४. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य-

१ ता०प्रतौ 'सहस्सारभं [गो...आण] दभंगो' आ०प्रतौ 'सहस्सारभंगो ।आणदभंगो' इति पाठः । २, आ०प्रतौ 'देवगदि० ४ छ्चो०' इति पाठः ।

अवत्त० पंचचो० । दोआउ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० सव्वपदा अट्टुचो० । देवाउ०
खेत्तभंगो । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुपु०-दूमग-अणादे० तिण्णि पदा अट्टु-बारह० देसू० ।
अवत्त० [अट्टु] एगा०चो० । देवगदि०४ तिण्णि पदा पंचचो० देसू० । अवत्तव्व०^१
खेत्तभंगो ।

पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग और अनादेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शन कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण बतलाया है । यह दोनों प्रकारका स्पर्शन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन और सातावेदनीय आदिके चार पदोंके बन्धक जीवोंके सम्भव होनेसे उक्तप्रमाण कहा है । स्त्रीवेद आदिके तीन पदोंका बन्ध देवोंके विहार आदिके समय तथा नारकियों और देवोंके तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्घातके समय सम्भव नहीं है । तथा तिर्यञ्चों और मनुष्योंके देवोंमें उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्गका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए यहाँ स्त्रीवेद आदि सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्गके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवोंके विहार आदिके समय भी दो आयु आदिके सब पद सम्भव हैं, अतः इनके चारों पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है । देवोंके विहारादिके समय तथा नारकियों और देवोंके तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी तिर्यञ्चगति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद देवोंमें विहारादिके समय और देवों व नारकियोंके तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तिर्यञ्चों और मनुष्योंके देवोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय भी देवगति चतुष्कके तीन पदोंका बन्ध सम्भव है, अतः इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें नहीं होता, इसलिए इसका भङ्ग क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

१. ता०आ०प्रत्योः 'अवत्त० ए० अंतो० चो०' इति पाठः ।

१६५. सम्मामि० देवगदि०४ तिणिण पदा खेत्तभंगो । सेसाणं पगदीणं सव्व-
पदा अट्टचो० । असणी० खेत्तभंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं फोसणं समत्तं ।

कालपरूवणा

१६६. कालाणु०-दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भय-
दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० तिणिण पदा केवचिरं ?
सव्वद्दा । अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । थीणगि०३-मिच्छ०-अट्टक०-
ओरालि० तिणिण पदा सव्वद्दा । अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० ।
तिणिणआउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अवट्ठि०-अवत्त०
जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । वेउव्वियछ० दोपदा सव्वद्दा । अवट्ठि०-अवत्त०
जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । आहारदुगुं दोपदा सव्वद्दा । अवट्ठि०-अवत्त०

१६५. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंज्ञी जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है और अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ देवगति चतुष्कका तिर्यञ्च और मनुष्य बन्ध करते हैं, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसलिए उनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । असंज्ञियोंमें क्षेत्रके समान और अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

कालप्ररूपणा

१६६. काल दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा काल है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्वदा काल है । तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन आयुओंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वैक्रियिकषट्कके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारकद्विकके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल

१. ता० प्रतौ 'एवं फोसणं समत्तं' इति पाठो नास्ति । २. ता० प्रतौ 'आहारदुगु [गं]' इति पाठः ।

जह० एग०, उक० संखेजसम०^१। तित्थ० देवगदिभंगो। णवरि अवत्त० जह० एग०,
उक० संखेजसम०। सेसाणं चत्तारि पदा सव्वद्दा।

सर्वदा है। तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेष प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है।

विशेषार्थ—पाँच ब्रह्मनावरणादिके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, अतः इनके इन पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद या तो उपशमश्रेणिसे उतरते समय होता है या उपशमश्रेणिसे इनकी बन्ध व्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होनेपर होता है और उपशमश्रेणिपर निरन्तर चढ़नेका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। मात्र उक्त प्रकृतियोंमें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क भी है सो इनके अवक्तव्य-पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल संयत जीवोंको नीचे लाकर प्राप्त करना चाहिए। आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका सर्वदा काल कहा है सो कहीं तो उसका पूर्वोक्त कारण है और कहीं उसका किसी न किसीके निरन्तर बन्ध होना कारण है। इसलिए यह उस प्रकृतिके बन्ध स्वामीका विचार कर ले आना चाहिए। जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल उससे भिन्न है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—पहले स्थानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीवको अपेक्षा एक समय बतला आये हैं। यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य करें तो एक समय तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सासादनसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी राशि पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। उससेसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें आते हैं तो एक समय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है। इसलिए तो इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय कहा है और यदि पूर्वोक्त जीव निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंको प्राप्त हों तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक होंगे। इसलिए इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। प्रत्येक आयुका बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा नरकायु, मनुष्यायु और देवायुका बन्ध एक साथ यदि अधिकसे अधिक जीव करे तो असंख्यात ही कर सकते हैं। तथा भुजगार और अल्पतर पदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात समय है और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यह सब देखकर यहाँ उक्त तीन आयुओंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा शेष दो पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। वैक्रियिकपट्टके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। आहारकट्टिकका बन्ध संख्यात जीव ही करते हैं, इसलिए इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है यह स्पष्ट ही है। किन्तु इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अतः इसके उक्तपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। यहाँ शेष पदसे ये प्रकृतियाँ ली गई हैं—दो वेदनीय, सात नोकपाय,

१६७. गिरएसु ध्रुवियाणं दोपदा सव्वद्धा० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । एवं तित्थयरं । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जस० । पढमाए तित्थ० अवत्त० णत्थि । सेसाणं पगदीणं भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । तिरिक्खाउ० ओघं गिरयाउभंगो । मणुसाउं० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । एवं णेरइगाणं षेदव्वं ।

१६८. तिरिक्खेसु ध्रुवियाणं तिण्णि पदा सवद्धा । सेसाणं ओघं । पंचिदिय-

तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र ।

१६७. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके दो पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार तीर्थङ्करप्रकृतिकी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । मात्र प्रथम पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इनके अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । तिर्यञ्चायुका ओघसे नरकायुके समान भङ्ग है । मनुष्यायुके भुजगार और अल्पतर-पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मनुष्यायुको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । तथा नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका अवस्थितपद सम्भव है और जिन प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य दोनो पद सम्भव हैं उनके इन पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदवाले जीव और मनुष्यायुके अवस्थित और अवक्तव्यपदवाले जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते । यही कारण है कि यहाँपर इन दो प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद प्रथम नरकमें नहीं होता, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए । एक बात और है और वह तिर्यञ्चायुके सम्बन्धमे है । बात यह है कि किसी भी आयुका बन्ध आयुबन्ध के कालमें अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं होता है और नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका सर्वदा काल नहीं बन सकता । यही कारण है कि यहाँ इसका भङ्ग ओघसे नरकायुके समान जाननेकी सूचना की है । सब नारकियोंमें इसीप्रकार अपनी-अपनी प्रकृतियोंका विचारकर काल घटित कर लेना चाहिए ।

१६८. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार

१ ता०प्रतौ 'ज० ए० आवलि०' इति पाठः । १. ता०प्रतौ 'ओघ । गिरयाउभगो मणुसाउ०' इति पाठः ।

तिरिक्खं०३ धुवियाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं० जहं एगं- उक्कं आवलिं० असंखे० । चट्टुणं^३ आउगाणं भुज०-अप्प० जहं एगं, उक्कं पलिदो० असंखे० । अवट्ठिं०-अवत्तं जहं एगं, उक्कं आवलिं० असंखे० । सेसाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं०-अवत्तं जहं एगं, उक्कं आवलिं० असंखे० ।

१६६. पंचिदिं०तिरि०अपज्जं धुवियाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं० जहं एगं, उक्कं आवलिं० असंखे० । दो आउं भुज०-अप्प० जहं एगं, उक्कं पलिदो-वमं असंखे० । अवट्ठिं०-अवत्तं जहं एगं, उक्कं आवलिं० असंखे० । सेसाणं भुज०-अप्प० सव्वद्दा । अवट्ठिं०-अवत्तं-जहं एगं, उक्कं आवलिं० असंखे० । एवं

और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । चार आयुओंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । सो इनके भुजगार आदि तीनों पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । इनके सिवा यहाँ बंधनेवाली शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी ओघप्ररूपणा यहाँ बन जाती है, इसलिए उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक प्रत्येक असंख्यात होते हैं, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सब काल और जिनका अवस्थित पद है या जिनका अवस्थित और अवक्तव्य पद है उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । मात्र चार आयुओंके भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सर्वदा काल नहीं बन सकता, क्योंकि इनका त्रिभागमें अन्तर्मुहूर्त तक ही आयुबन्ध होता है, इसलिए इनके इन दो पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

१६६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । दो आयुओंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय

१. ता०प्रती 'सव्वद्दा [द्दा] सव्वद्दा० । अवट्ठि' इति पाठः । २. आ०प्रती 'एगं आवलिं०' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'चट्टुगाणं' इति पाठः । ४. आप्रती 'अवट्ठिं० जहं' इति पाठः ।

सव्वविगलिंदि० पंचिंदिय-तसअपज्जत्तगाणं पंचकायाणं बादरपज्जत्तगाणं च ।

२००. मणुयेसु धुवियाणं अवट्ठि जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । सेसपदा ओघं । वेउव्वियख्ख० आहारदुगं तित्थ० आहारसरीरभंगो । सेसाणं पंचिंदियतिरिक्ख-भंगो । णवरि दोआउ० गिरय-मणुसाउभंगो । पज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं आहार-सरीरभंगो । चदुआउ० गिरय-मणुसाउभंगो । मणुसअपज्जत्त० धुवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेज्जदिभा० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । एवं सव्वपगदीणं । णवरि अवत्त० अवट्ठिदभंगो । दोआउ० पंचिंदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो ।

है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त और पाँच स्थावरकायिकोंके बादर पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव असंख्यात होते हैं, इसलिए इनमें दोनों आयुओंको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदवाले जीवोंका काल सर्वदा बन जाता है । अब रहा इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके कालका विचार और आयुकर्मके चारों पदोंके कालका विचार सो इस सम्बन्धमें उक्त पदवाले जीवोंकी असंख्यात संख्याके रहते हुए इस सम्बन्धमें यह नियम जानना चाहिए कि जिन पदोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है उनका यहां जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । तथा जिन पदोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात आठ समय, सात समय या एक समय है उनका यहाँ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । यहाँ इसी नियमको ध्यानमें रखकर उक्त काल कहा है । यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

२००. मनुष्योंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिकषट्क, आहारद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि दो आयुओंका भङ्ग नारकियोंमें मनुष्यायुके समान है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग आहारकशरीरके समान है । चार आयुओंका भङ्ग नारकियोंमें मनुष्यायुके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका भङ्ग अवस्थित पदके समान है । दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्य असंख्यात होते हैं । इनमें अन्य सब प्रकृतियोंके पदोंका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान बन जाता है । मात्र इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद

२०१. देवेषु णिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं । णवरि सव्वद्धे मणुसिंभंगो । धुविगाणं अवत्तं णत्थि ।

२०२. एइंदिय-पंचकायाणं मणुसाउ० ओघभंगो । सेसाणं सव्वद्धा^१ । कायजोगि-ओरालि०-णवुंसं०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ओघभंगो । ओरालिय-मि०-मदि-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अभव०-मिच्छा०-असण्णि ति तिरिक्खोघं । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंच० भुज० जह० उक्क० अंतो० ।

भी सम्भव है इसलिए इनमें इनके शेष पदवालोंका काल ओघके समान कहा है । तथा वैक्रियिक-पट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य संख्यात ही होते हैं, इसलिये इनमें इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान जाननेकी सूचना की है । इसी प्रकार यहाँ नरकायु और देवायुका बन्ध करनेवाले मनुष्य भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनका भङ्ग नारकियोंमे मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी ये तो संख्यात होते ही हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान और चार आयुओंका भङ्ग नारकियोंमे मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है । मनुष्य अपर्याप्त सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें इस दृष्टिको ध्यानमे रखकर ध्रुवबन्धवाली और इतर प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२०१. देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सब देवोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है । किन्तु यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है ।

विशेषार्थ—देवो और उनके अवान्तर भेदोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है । मात्र सर्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हैं, इसलिए उनमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । किन्तु मनुष्यिनियोंमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद होता है पर यहाँ नहीं होता, इसलिए उसका निषेध किया है ।

२०२. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमे मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय राशि तो अनन्त है । ही पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें वनस्पति-कायिक भी अनन्त हैं । शेष चार कायवाले असंख्यान हैं फिर भी बहुत हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए उनके सब पदवालोंका सर्वदा काल कहा है । मात्र मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले थोड़े होते हैं, इसलिए इसका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है । काययोगी आदि मार्गणाओंमे ओघरूपणा घटित हो जानेसे उनमें उसके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र जहाँ जो थोड़ी बहुत विशेषता हो उसे जान

१. ता०प्रतौ 'सव्वद्धा (द्वा)' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'जह० एग०, उक्क० अतो०' इति पाठः ।

२०३. वेउ०मि० ध्रुवियाणं भुज० जह० अंतो०, उक्क० पलिदोव० असंखे० ।
सेसाणं भुज० ध्रुवभंगो । णवरि जह० ए० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि०
असंखे० । णवरि तित्थ० ओरा०मिस्सभंगो ।

२०४. आहारमि० ध्रुविगाणं भुज० [जह०] उक्क० अंतो० । एवं सव्वाणं ।
णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० ।

लेना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी आदि सब अनन्त संख्यावाली मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कालप्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है ।

२०३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है । तथा अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोग यह सान्तर मार्गणा है और इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसीसे यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । शेष प्रकृतियोंके भुजगार पदवालोंका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान इसलिए कहा है कि इनके भुजगार पदवाले जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण बन जाता है । पर इनका अवक्तव्यपद भी होता है, इसलिए इनके भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । तथा इनका प्रमाण असंख्यात है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें भी तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात ही हो सकते हैं, इसलिए इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०४. आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ—आहारकमिश्रकाययोगका नाना जीवोंकी अपेक्षा भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । मात्र अन्य प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद भी होता है । किन्तु लगातार भी उसे संख्यात जीव ही कर सकते हैं, इसलिए इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है ।

२०५. कम्मइ० धुवियाणं भुज० सव्वद्धा । मिच्छ० अवत्त० ओघं । सेसाणं भुज०-अवत्त० सव्वद्धा । णवरि देवगदिपंचग० भुज० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । एवं अणाहार० ।

२०६. अवगदवे० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । एवं सुहुमसं० । एसिमसंखेज्जरासीं तेसिं णिरयभंगो । एसिं संखेज्जरासीं तेसिं मणुसिंभंगो । सासण०-सम्मामि० मणुसअपज्जत्तभंगो ।

एवं कालं समत्तं

२०५. कर्मणकाययोगी जीवों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पदके बन्धक जीवों का काल सर्वदा है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का काल ओघके समान है। शेष प्रकृतियों के भुजगार और अवक्तव्यपदका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार अनाहारक जीवों में जानना चाहिए।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगी जीव अनन्त होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के भुजगार पदका काल सर्वदा बन जाता है। मात्र यहाँ मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऐसे ही जीव करते हैं जो कर्मणकाययोगके कालमें ऊपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं। यह सम्भव है कि ऐसे जीव एक समय तक हो और द्वितीयादि समयों में नहीं हों और यह भी सम्भव है कि वे लगातार असंख्यात समय तक होते रहें, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा यहाँ देवगतिपञ्चकके बन्धक जीव एक समयसे लेकर संख्यात समय तक ही हो सकते हैं, इसलिए इनके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। अनाहारके जीवों में यह प्ररूपणा बन जाती है, क्योंकि यहाँ संसार दशामें अनाहाक दशा और कर्मणकाययोगका सहभावी सम्बन्ध है, इसलिए उनमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन सुगम है।

२०६. अपगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। तथा जिन मार्गणाओंमें जीवराशि असंख्यात है उनमें नारकियोंके समान भङ्ग है और जिन मार्गणाओंमें जीवराशि संख्यात है उनमें मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मनुष्यअपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—कर्मबन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१. ता० प्रतौ 'ए० [उक्क०] सखेज्जस०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'एवं (सि) असखेज्जरासी' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'एव (सि) संखेज्जरासिं' इति पाठः । ४. ता० प्रतौ 'एवं काल समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

अंतरपरूवणा

२०७. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छद्रंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-[उप०]-णिमि०-पंचंत० तिण्णि पदा गत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । थीणणि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिण्णि पदा गत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्तरादिदियाणि । एवं अपच्चक्खाण०४ । [णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० चोदस रादिदियाणि । पच्चक्खाण०४ एवं चेव ।] णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० पण्णारसरादिदियाणि । दोवेदणी०-सत्तणोक्क०-तिरिक्खाउ०-दोगदि-पंचजादि-छस्संठा०-ओरा०-अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद० सव्वपदाणं गत्थि अंतरं । तिण्णि-आउगाणं भुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहु० । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० । वेउव्वियछक्कं आहारदुगं दोपदा गत्थि अंतरं । अवट्ठि०

तथा अपगतवेदको लगातार संख्यात समय तक संख्यात मनुष्य ही प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए यहाँ अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । सासादन और सम्यग्मिथ्यात्व ये सान्तर मार्गणाएँ हैं और इनका काल मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है, इसलिए इनमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तरपरूपणा

२०७. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका इसी प्रकार भङ्ग है । इनकी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है । तीन आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वैक्रियिकषटक और आहारकद्विकके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-

१. ता०प्रतौ 'अवत्त० [ज०] ए०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ—'दसउ-(यु०) दोगोद०' इति पाठः ।

जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखे० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो० । ओरालि० तिणिण पदा णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तित्थ भुज० अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखे० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । औदारिकशरीरके तीन पदोका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीर्थकर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि और स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके तीन पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होते हैं, इसलिए इन पदोका अन्तरकाल नहीं कहा है । तथा उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । तदनुसार सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अन्तरकाल भी उतना ही है, इसलिए स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भुजगार आदि तीन पदोंका अन्तरकाल न होनेका वही कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादिके समय कह आये है । तथा उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयतगुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । और उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । तदनुसार कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक चौदह और पन्द्रह दिन-रात तक जीव क्रमसे संयतासंयतसे अविरत अवस्थाको और विरतसे विरताविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे चौदह व पन्द्रह दिन-रात कहा है । दो वेदनीय आदिके चारो पद एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है, नरक, मनुष्य और देवगतिमें यदि कोई भी जीव उत्पन्न न हो तो कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्ततक नहीं उत्पन्न होता । इसके अनुसार इन आयुओंके बन्धमें भी इतना अन्तर पड़ता है, इसलिए इन तीन आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है । मात्र इनके अवस्थितपदका अन्तर योगस्थानोंके अनुसार होता है, इसलिए इस पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । वैक्रियिकषट्क और आहारकद्विकके अवस्थितपदका अन्तरकाल इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा इन छह प्रकृतियोंका नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपद किसी न किसीके होते ही रहते हैं, अतः इनके अन्तरकालका निषेध

२०८. तिरिक्खेसु धुवियाणं तिण्णि पदा णत्थि अंतरं । सेसाणं ओघं । एवं णवुंसग०-क्रोध-माण-माय०-मदि-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि ति ।

२०९. णेरइएसु तित्थ० ओघं । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० । सेसाणं एसिं असंखेज्जरासी तेसिं^१ ओघं देवगदिभंगो । एसिं संखेज्जरासी तेसिं^२ ओघं आहारसरीरभंगो । एइंदिय-पंचकायाणं सव्वाणं णत्थि अंतरं । ओरालियमि० देव-गदि०४ भुज० जह० एग०, उक्क० मासपुध० । तित्थ० भुज० जह० एग०, उक्क० वास-

किया है । तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । औदारिकशरीरके तीन पद एकेन्द्रियादिके भी होते हैं, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा यह परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका नाना जीवोंके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदके अन्तर-कालका निषेध किया है । इसके अवस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर वैक्रियिकषट्कके समान घटित कर लेना चाहिए । कोई भी नया जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व तक बन्धका प्रारम्भ न करे यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । यहाँ काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०८. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार नपुंसकवेदी, क्रोधकषायवाले, मानकषायवाले, मायाकषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादि जीव भी तिर्यञ्च हैं, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके बन्धक जीव सर्वदा पाये जानेसे उनके अन्तरकालका निषेध किया है । तिर्यञ्चोंमें अपनी बन्ध-प्रकृतियोंको ध्यानमें रखकर शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । यहाँ गिनाई गई नपुंसकवेदी आदि अन्य मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा बन जानेसे उनमें तिर्यञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

२०९. नारकियोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्त्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है । शेष मार्गणाओंमें जिनकी राशि असंख्यात है उनमें ओघसे देवगतिके समान भङ्ग है और जिनकी राशि संख्यात है उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है । एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका अन्तरकाल नहीं है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्कके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण है । तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व-

१. ता०प्रतौ 'सेसाणं ९ [सि] असंखेज्जरासी' तेसिं आ०प्रतौ 'सेसाणं असंखेज्जरासीणं तेसिं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'एव (सि) संखेज्जरासी तेसिं' आ०प्रतौ 'एसिं संखेज्जरासिं तेसिं' इति पाठः ।

पुधत्तं० । एवं कम्मइ०-अणाहार० । एवं एदेण वीजेण याव सण्णि त्ति णेदव्वं ।

एवं अंतरं समत्तं^१ ।

भावपरूवणा

२१०. भावाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं भुज०-
अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त०-बंधगे त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग
त्ति णेदव्वं ।

एवं भावो समत्तो^२ ।

अप्पाबहुअपरूवणा

२११. अप्पाबहुगाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंगा०-णवदंसणा०-
मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०
सव्वत्थोवा अवत्तव्वबंधगा । अवट्ठिदबंधगा^३ अणंतगुणो । अप्प०-बं० असंखे०गु० । भुज०

प्रमाण है । इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस
बीजपदके अनुसार संज्ञी मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ कुछ स्फुट सूचनाएँ मात्र दी हैं । नरकमें दूसरे व तीसरेमें जो मिथ्यादृष्टि
से सम्यग्दृष्टि होकर पुनः तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे ऐसा जीव कमसे कम एक समयके
अन्तरसे और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हो सकता
है, इसलिए यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इसीप्रकार अन्य मार्गणाओंमें इस प्रकृतिके अवक्तव्यपद
का जो अन्तर कहा है वह यहाँ उतने अन्तरकालसे होता है ऐसा जानना चाहिए । शेष पररूपणा
विचारकर लगा लेना चाहिए । यहाँ बीजरूपसे कही गई सूचनानुसार विस्तार कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ ।

भाव

२१०. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब
प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है ?
औद्यिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्व

२११. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
पौंच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजस-
शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायके अवक्तव्य-
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे

१. ता०प्रतौ 'एवं अंतरं समत्त' इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रतौ 'एवं भावो समत्तो' इति पाठो
नास्ति । ३. आ०प्रतौ 'अवत्तव्वबंधगा य । अवट्ठिदबंधगा' इति पाठः ।

बं० विसे० । सादासाद०-सत्तणोक०-चदुआउ०-चदुगदि-पंचजादि-वेउच्चिय०-छस्संठा-
दोअंगो०-छस्संप०-चदुआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-
दोगोद० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० ।
आहारदुगं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० संखेज्जगु० । अप्प० संखे०गु० । भुज०
विसे० । तित्थ० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज०
विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा०-लोभक०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

२१२. गिरएसु धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्पद० असं०गु० । भुज०
विसे० । थीणगिद्वि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-तित्थ० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि०
असंखे०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघं साद०भंगो । मणुसाउ०
ओघं आहारसरीरभंगो । एवं सव्वणिरयाणं । णवरि सत्तमाए दोगदि-दोआणु०-
दोगोद० थीणगिद्विभंगो ।

२१३. तिरिक्खेसु धुवियाणं गिरयभंगो । सेसाणं ओघभंगो । सव्वपंचिदि०-
तिरि० गिरयभंगो । णवरि मणुसाउ० ओघं आहारसरीरभंगो ।

अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वैक्रियिक-शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विकके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोमे जानना चाहिए ।

२१२. नारकियोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे सातावेदनीयके समान है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । इसी प्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है ।

२१३. तिर्यञ्चोमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोके समान है । शेष प्रकृतियोंका

२१४. मणुसेसु पंचणा^१०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघं । णवरि संखेज्जरासीणं आहारसरीरभंगो । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । सव्वअपज्जत्त-सव्वदेवाणं सव्वएइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं च णिरयभंगो । णवरि सवट्ठे संखेज्जं कादव्वं ।

२१५. पंचिदि०-त्स०२ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । आहारदुगं ओघं ।

२१६. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-
भङ्ग ओघके समान है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है ।

२१४. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें जिन प्रकृतियोंका संख्यात जीव बन्ध करते हैं उनका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणा करना चाहिए । सब अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात करना चाहिए ।

२१५. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है ।

२१६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर,

१. ता०प्रतौ 'ओघ । मणुसेसु पंचणा०' आ०प्रतौ 'ओघं आहारसरीरभंगो । पंचणा०' इति पाठः ।
२. आ०प्रतौ 'भयदु० तेजाक०' इति पाठः । .

देवग०--ओरालि०--वेउव्वि०--तेजा०-क०--ओरालि०-वेउव्वि०-अंगो०--देवाणु०--अगु०४-
बादर^१-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० ।
अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघभंगो । ओरालियमि० णिरयभंगो । णवरि
मिच्छ० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणंतगु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० ।
वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि० धुवियानं एगपदं । परियत्तमाणिगाणं सव्व-
त्थोवा अवत्त० । भुज० असं०गु० । आहारकायजो० सव्वट्ठु०भंगो । आहारमिस्से परि-
यत्तमाणिगाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखेज्जगु० । कम्मइ० सव्वत्थोवा मिच्छ०
अवत्त० । भुज० अणंतगु० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । भुज० असं०गु० ।

२१७. इत्थिबेदेसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।
अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-
क०-वण्ण०४-णिमि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज०
विसे० । सेसाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज०

कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलघु-
चतुष्क, बादर, पर्याप्त प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक
जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतर
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक
हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारकियों
के समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव
सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे अल्पतर
पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं।
वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली
प्रकृतियोंका एक भुजगारपद है। परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे
स्तोक हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारककाययोगी जीवोंमें
सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य
पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। कार्मण-
काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारपदके
बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे
भुजगार पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

२१७. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानवारण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच
अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। पाँच दर्शनावरण,
मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क
और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके
बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं।

१. आ० प्रती 'तेजाक० वेउव्वि०अंगो देवाणु० अगु-बादर' इति पाठः ।

विसे० । आहारदुगं तित्थ० मणुसि०भंगो । एवं पुरिस० । णवरि तित्थ० ओघभंगो । णवुंसगेसु धुविगाणं अट्टारसपगदीगं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्पद० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघं ।

२१८. एवं कोधे० अट्टारस० माणे सत्तारस० मायाए सोलस० । अवगदवे० सव्वपगदीगं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० संखेज्जगु० । अप्प० संखेज्जगु० । भुज० विसे० ।

२१९. मदि-सुद० धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असंखेज्जगुं० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघं । एवं असंजदं-तिणिले०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । विभंगे धुवियाणं मदि०भंगो । सेसाणं मणजोगिभंगो

२२०. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दु०-दोगदि०-[पंचिदि०-] चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-वज्जरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस४-सुभग-सुरसर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० ।

उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली अठारह प्रकृतियोंके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

२१८. इसी प्रकार क्रोधकषायमे अठारह प्रकृतियोंके, मानकषायमें सत्रह प्रकृतियोंके और मायाकषायमें सोलह प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है ।

२१९. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियों का भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है ।

२२०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, सम-चतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुल्लघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव

१. आ०प्रतौ 'अवत्त० अवट्ठि० असखेज्जगु०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सेसाणं मोह० । एवं असजदा' आ०प्रतौ 'सेसाण मोह० । एवं संजदा' इति पाठः ।

अवट्टि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सादासाद०-चट्टुणोक०-
दोआउ०-थिरादितिणियुग० आहारदुगं ओघभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खइग०-
वेदग०-उवसम० । णवरि मणुसाउ० णिरयभंगो । खइगे दोआउ० मणुसि०भंगो ।
मणपज्जवे आभिणि०भंगो । णवरि संखेज्जं कादच्चं । एवं संजद०-सामाइ०-छेदो०-
परिहार०-सुहुमसं० । संजदासंजदा० ओधि०भंगो । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो ।

२२१. तेउए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-
बादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० सच्चत्थोवा अवट्टि० । अप्प० असं०गु० । भुज०
विसे० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-देवगदि०४-ओरालि०-तित्थ० सच्चत्थोवा
अवत्त० । अवट्टि० असं०गु० । अप्प० असं०गु । भुज० विसे० । सेसाणं सच्चत्थोवा
अवट्टि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु । भुज० विसे० । एवं पस्माए वि ।
णवरि देवगदि०४-ओरा०-ओरा०अंगो०-तित्थ० अट्टक०भंगो ।

असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, दो आयु, स्थिर आदि तीन युगल और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि वेदगसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग नारकियोंके समान है । तथा ज्ञायिक सम्भ्रत्वमें दो आयुओंका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिक-ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । चक्षुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

२२१. पीतलेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात गुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । स्त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, बारह कषाय, देवगतिचतुष्क, औदारिकशरीर और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्क, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्कर प्रकृतिका आठ कषायोंके समान भङ्ग है ।

१. आ०प्रतौ चदुसंज० तेजाक०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अवत्त० असं०गु० भुज० विसे०'
इति पाठः ।

२२२. सुकाए पंचणाणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-दोगदि-
चदुसरीर-दोअंगो०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थोवा
अवत्त० । अवट्ठि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं सादादीणं
एवं चेव । णवरि सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।

२२३. सासणे धुवियाणं णिरयभंगो । देवगदि०४-दोसरीर० तेउ०भंगो । सेसाणं
ओघं । सम्मामि० धुविगाणं सासण०भंगो । सादादीणं ओघं । सण्णी० मणजोगिभंगो ।
अणाहार० कम्मइमभंगो ।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं भुजगारबंधो समत्तो ।

पदणिक्खेवो समुक्कित्तणा

२२४. एत्तो पदणिक्खेवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि
भवन्ति । तं जहा—समुक्कित्तणा सामित्तं अप्पाबहुगे त्ति । समुक्कित्तणाए दुवि०—
जह० उक्क० च । उक्क० पगदं^१ । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं
अत्थि उक्कस्सिया वड्डी उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सयमवट्ठणं^२ । एवं याव अणा-

२२२. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । शेष सातावेदनीय आदिका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है ।

२२३. सासादनसम्यक्त्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । देवगतिचतुष्क और दो शरीरोंका भङ्ग पीतलेश्याके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । सम्यग्मिथ्यात्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सासादनसम्यक्त्वके समान है । सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ ।

पदनिक्षेप समुत्कीर्तना

२२५. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है । यथा—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

१. ता०प्रतौ 'उ० । [उ०] पगद' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'उक्कस्सिया (य) मवट्ठणं' इति पाठः ।

हारग त्ति षोदब्बं । णवरि वेउव्वि०मि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० सव्वपगदीणं अत्थि उक्क० वड्डी । ओरालि०मि० देवगदिपंगच० अत्थि उक्क० वड्डी ।

२२५ जह० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं अत्थि जहण्णिगा वड्डी जहण्णिगा हाणी जह० अवट्ठाणं । एवं याव अणाहारगं त्ति षोदब्बं । णवरि वेउव्वियमिस्स०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० सव्वपगदीणं अत्थि जह० वड्डी । ओरालियमि० देवगदिपंगच० अत्थि जह० वड्डी ।

एवं समुक्कित्तणा समत्ता ।

सामित्तं

२२६. सामित्तं दुविधं-जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०जस०-उच्चा०-पंचत० उक्कस्सिया वड्डी कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो^३ तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्ठाणादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तदो छव्विधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? जो छव्विधबंधगो उक्कस्स-जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णए जोगट्ठाणे^४ पदिदो तस्स उक्क० हाणी ।

इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति-पञ्चककी उत्कृष्ट वृद्धि है ।

२२५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि है । औदारिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी जघन्य वृद्धि है ।

विशेषार्थ—यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी आदि चार कर्मणाओंमें उत्तरोत्तर योगकी वृद्धि होनेसे मात्र वृद्धि सम्भव है । तथा यही बात औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगति-पञ्चकके विषयमें जानना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

स्वामित्व

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनोय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो अनन्तर छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो उत्कृष्ट योगवाला जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

१. ता०प्रतौ 'एवं अणाहारग' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'एव समुक्कित्तणा समत्ता ।' इति पाठो नास्ति ।

३. ता०प्रतौ 'कस्स ? सत्तविधबंधगो' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ '-जहण्णय (ए) जोगट्ठाणे' इति पाठः ।

उक० अवट्टाणं कस्स ? जो छविधबंधगो उकस्सजोगी पडिभगो तप्पाओग्ग-जहण्णगे पडिदो तदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक० अवट्टाणं । उकस्सादो जो जोगट्टाणादो पडिभगो यम्हि^१ जोगट्टाणे पडिदो तं जोगट्टाणं थोवं । जहण्णगादो जोग-ट्टाणादो यम्हि उकस्सगं जोगट्टाणं गच्छदि तं जोगट्टाणमसंखेज्जगुणं^२ । एवं उकस्सगस्स अवट्टाणगस्स साधणं । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-असाद०-णवुंस०-णीचा० उक० वड्डी करस० ? जो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोग-ट्टाणादो उकस्सजोगट्टाणं गदो सत्तविध० जादो तस्स उक० वड्डी । उक० हाणी कस्स ? जो सत्तविधबंधगो उकस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपञ्जत्तगेषु उववण्णो तप्पाओग्गजहण्णगे पडिदो तस्स उक० हाणी । उक० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविध-बंधगो उकस्सजोगी पडिभगो तप्पाओग्गजह० जोगट्टाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक० अवट्टाणं । णिहा-पयला-पच्चक्खाण०४-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं० उक० वड्डी करस० ? जो सम्मा० अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्टाणादो उकस्सं जोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक० वड्डी । उक० हाणी कस्स० ? जो सम्मा० सत्तविधबंधगो उकस्सजोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणे

उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो उत्कृष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ और उसके बाद सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्कृष्ट योगास्थानसे प्रतिभग्न होकर जिस योगस्थानमें पतित हुआ वह योगस्थान स्तोक है, जघन्य योगस्थानसे जिस उत्कृष्ट योगस्थानमें जाता है वह योगस्थान असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यह उत्कृष्ट अवस्थानका साधनपद है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असातावेदनीय, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगवाला जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो उत्कृष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो सम्यग्दृष्टि जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट

१. ता०प्रतौ 'पडिभंगो (गगो) यम्हि' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'जोगट्टाणे पडिदो तं जोगट्टाणम-संखेज्जगुणं' इति पाठः ।

पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणे पदिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि संजदासंजदादो कादच्चं । कोधसंजलणाए उक्क० वड्डी कस्स० ? जो मोहणीयपंचविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणादो उक्कस्सयं जोगट्टाणं गदो तदो मोहणीयस्स चदुविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो मोहणीयस्स चदुविधबंधगो मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणे पदिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? मोहणीयस्स चदुविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणे पदिदो मोहणीयस्स पंचविधबंधगो जादो तस्स उक्कस्सयं अवट्टाणं । माणसं०-मायासं०-लोभसं० उक्क० वड्डी कस्स० ? मोहणीयस्स चदुविधबंधगो तिविधबंधगो दुविधबंधगो तप्पाओग्गजह० जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तदो मोहणीयस्स तिविध० दुविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो मोहणीयस्स तिविध० दुविध० एयविधबंधगो मदो देवो जादो तप्पा-ओग्गजह०जोगट्टाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स ? यो मोहणीय० तिविध० दुविध० एकविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग-

अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगमें पतित हुआ और अनन्तर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयतका अवलम्बन लेकर करना चाहिए । क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह संज्वलन क्रोधकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके और एक प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके और एक प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला तथा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो

जह०जोग० पडिदो तदो मोहणी० चदुविध० तिविध० दुविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टापं । पुरिस० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो मोहणीयस्स णवविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्टाणादो उक्कस्सगं जोगट्टाणं गदो तदो मोहणीयस्स पंचविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो मोहणी० पंचविध-बंध० उक्क०जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजह०जोग० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स ? जो मोहणी० पंचविधबंध० उक्क०जोगी पडिभगो तप्पाओग्ग-जह०जोगट्टाणे पडिदो मोहणी० णवविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं । इत्थिवे० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभगो तप्पाओग्गजह० पडिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्टाणं ।

२२७. अण्णदरे आउगे बंधमाणो पुरदो अंतोमुहुत्तमग्गदो अंतोमुहुत्तं याव

जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे पतित होकर अनन्तर मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

२२७. अन्यतर आयुका बन्ध करनेवाला जीव आगेका जो अन्तर्मुहूर्त है उस अन्तर्मुहूर्त कालके समाप्त होने तक आयुकर्मका बन्ध करता है । इस प्रकार इस कालमें यदि सम्यग्दृष्टि है तो

१. ता०प्रतौ 'जोगट्टाणं पडिदो' इत्थि पाठः । २. ता०प्रतौ 'अंतोमुहुत्तं म (?) गदो' इति पाठः ।

आउगं बंधदि । एवं एदं कालं सम्मादिट्टी सम्मादिट्टी चेव, मिच्छदिट्टी मिच्छादिट्टी चेव, यदि सासणो सासणो चेव, यदि असंजदो असंजदो चेव, यदि संजदासंजदो संजदासंजदो चेव, यदि संजदो संजदो चेव । एदं कारणं अट्टस्स हेदू कित्तिदं । एदं कारणं दंसणावरणस्स च पंचणं पगदीणं मिच्छत्त-वारसकं एदेसिं कम्माणं यथोप-दिट्ठाणं उक्कस्सपदणिकखेवसामित्तसाधणत्थं यो संसयो तं संसयं णिस्संसयं काहिदि ति एदं कारणं हेदू कित्तिदं । चदुणं आउगाणं उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजहणजोगट्ठाणादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो उक्कं जोगी पडिभगो तप्पाओग्गजहं जोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्ठाणं । एवं आउगस्स सव्वत्थ याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

२२८. णिरयगदि-देवगदि-वेउच्चि-वेउ-अंगो-दोआणु- उक्कं वड्डी करसं ? यो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजहं जोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सगादो जोगट्ठाणादो तप्पाओग्गजहणजोगट्ठाणे पडिदो अट्टविधबंधगो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्ठाणं ।

सम्यग्दृष्टि ही रहता है, मिथ्यादृष्टि है तो मिथ्यादृष्टि ही रहता है, यदि सासादनसम्यग्दृष्टि है तो सासादनसम्यग्दृष्टि ही रहता है, यदि असंयतसम्यग्दृष्टि है तो असंयतसम्यग्दृष्टि ही रहता है, यदि संयतासंयत है तो संयतासंयत ही रहता है और यदि संयत है तो संयत ही रहता है । इस कारण विवक्षित विषयका हेतु कहा है । तथा इसी कारण यथोपदिष्ट दर्शनावरणकी पाँच प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व और बारह कषाय इन कर्मोंके उत्कृष्ट पदनिक्षेप सम्बन्धी स्वामित्वको सिद्ध करनेके लिए जो संशय है उस संशयको निःसंशय कर देता है । इस कारण हेतु कहा है । चार आयुओंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वह अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । आयुर्कर्मका सर्वत्र अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार स्वामित्व जानना चाहिए ।

२२८. नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योग-

१. ताप्रतौ 'मिच्छादिट्टी चेव यदि असंजदो असंजदो चेव यदि संजदासंजदा संजदासंजदा चेव' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'च प (पं) चण' इति पाठः । ३. आ०-प्रतौ 'तप्पाओग्गजहणजोगट्ठाणं' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'उक्कस्सगादो पडिदो तप्पाओग्गजहण [जो] गट्ठाणे' आ०प्रतौ 'उक्कस्सगादो जोग-ट्ठाणादो पडिदो तप्पाओग्गजहणजोगट्ठाणे' इति पाठः ।

२२६. तिरिक्खगदिणामाए उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविध० तप्पाओग्ग-जहण्णगादो जोगट्टाणादो उक्कस्सयं जोगट्टाणं गदो तदो तेवीसदिणामाए सह सत्तविध-बंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तगेषु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पडिदो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्कस्स-जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो । ताधे ताओ चेव तेवीसदिणामाए बंधदि णो तीसं । केण^१ कारणेण ? आउगबंधस्स अभासे जाओ चेव णामाओ ताओ चेव बंधदि^२ याव आउगबंधगद्दा पुण्णो त्ति । अण्णं च^३ पुण पुरदो अंतोसुहुत्तमग्गदो अंतोसुहुत्तं णीचा । एदेण कारणेण तेवीसदिणामाओ बंधमाणगस्स उक्कस्सयं अवट्टाणं णो तीसा । एवं ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-अथिर-असुभ-दुभग-अणादे०-अजस०-णिमि० तिरिक्खगदिभंगो कादव्वो ।

२३०. मणुसग० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविधबंधगो जहण्णगादो जोग-

स्थानको प्राप्त हुआ और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

२२६. तिर्यञ्जगति नामकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर तथा तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त कर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है तीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता, क्योंकि आयुकर्मका बन्ध प्रारम्भ होते समय नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका बन्ध करता है, आयु-बन्धके कालके पूर्ण होने तक उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता रहता है । और भी अन्तर्मुहूर्त पूर्वसे अन्तर्मुहूर्त आगे तक उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता है । इस कारणसे नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्जगतिके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला नहीं । इसीप्रकार औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका भङ्ग तिर्यञ्जगतिके समान करना चाहिए ।

२३०. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट प्रदेशवृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी पञ्चीस

१. ता०प्रतौ 'णो ति सकेण' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'जाओ चेव बंधदि' इति पाठः ।

३. ता०प्रतौ 'पुणो त्ति अण्ण च' इति पाठः ।

ड्वाणादो उक्कस्सयं जोगड्वाणं गदो पणुवीसदिणामाए सह सत्तविधबंघगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधबं० उक्क०जोगी मदो मणुसअपञ्जत्तएसु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पडिदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधबंघगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवड्वाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० जोगड्वाणे पडिदो अट्टविधबंघगो जादो । ताधे ताओ चैव पणुवीसदिणामाए बंघदि णो एगुणतीसं । केण कारणेण ? तं चैव कारणं यं तिरिक्खगदिणामाए भणिदं । एदेण कारणेण पणुवीसदिणामाए बंघमाणगस्स उक्क० अवड्वाणं णो एगुणतीसं ।

२३१. एइंदिय-थावर० तिरिक्खगदिभंगो । णवरि^१ हाणी मदो छव्वीसदिणामाए । बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-पंचिंदि०-[तस०] उक्क० वड्डी कस्स० ? मणुसगदिभंगो । णवरि उक्क० हाणी कस्स० ? बेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-पंचिंदिएसु उववण्णो तीसदिणामाए बंघगो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवड्वाणं कस्स० ? यो सत्तविधबंघगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग० पडिदो अट्टविधबंघगो जादो ।

प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और मनुष्य अपर्याप्तकोमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्त हुआ और नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह जीव नामकर्मकी उन्हीं पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता । कारण क्या है ? वही कारण है जो तिर्यञ्चगतिनामके सम्बन्धमें कह आये हैं । इस कारणसे नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला नहीं ।

२३१. एकेन्द्रियजाति, और स्थावर प्रकृतिका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि जो मरनेके बाद नामकर्मको छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? इनका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह उस समय नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका

१. ता०प्रतौ 'एइंदि० थावरतिरिक्खगदि णवरि' इति पाठः ।

ताधेव^१ पणुवीसदिणामाओ बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव । एदं कारणं पणु-
वीसदिणामाओ^२ बंधमाणगस्स उक्क० अवट्टाणं णो तीसं ।

२३२. आहारदुगं उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविधबंधगो । तप्पाओग्गजहं०
जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स
उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? यो सत्तविधबंधं० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग-
जह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं ।

२३३. समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्ट-
विधबंधगो तप्पाओग्ग० उक्क० जोगट्टाणं गदो अट्टावीसदिणामाए सह सत्तविध-
बंधगो जादो तस्स [उक्क०] वड्डी । उक्क० हाणी कस्सं० ? यो सत्तविधबंधं० उक्क०
जोगी मदो देवो जादो तप्पा०जह० पडिदो तीसदिणामाए सह बंधगो जादो
तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क० जोगी पडिभग्गो
तप्पाओग्गजहण्णगे० पडिदो अट्टविधबंधगो^३ जादो । ताधे ताओ चेव अट्टावीसदिणामाए

बन्ध करता है, तीस प्रकृतियोंका नहीं । कारण क्या है ? कारण वही पूर्वोक्त है । इस कारण
नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस
प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव नहीं ।

२३२. आहारकट्टिककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध
करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी
तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट
हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

२३३. समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी उत्कृष्ट
वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग
स्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा
वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हुआ । तथा तत्प्रायोग्य जघन्य
योगको प्राप्तकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्त
हुआ और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।
उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं अट्टाईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, तीसका नहीं । कारण

१. ता०प्रतौ 'ताधे व' इति पाठः । २. आ०प्रतौ, 'पणुवीसदिणामाए' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ
'अपाओ जह०' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'हाणी० उ० (?) कस्स' इति पाठः । ५. ता०प्रतौ 'तीसदि-
णामाए बंधगो' जादो तस्से० उक्क०' इति पाठः । ६. ता०आ०प्रत्योः 'अवट्टिदबंधगो' इति पाठः ।

बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं । एदेण कारणेण अट्टावीसदिणामाओ बंधमाणं उक्कं अवट्ठां णो तीसं बंधदि ।

२३४. चटुसंठां-पंचसंधं उक्कं वड्डी कस्सं ? यो अट्टविधबंधगो तप्पा-ओग्गजहं जोगट्ठाणादो उक्कं जोगट्ठाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध-बंधगो जादो^१ तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो सत्तविधबंधं उक्कं जोगी मदो असण्णिपंचिदियपज्जत्तएसु उववण्णो तप्पाओग्गजहं पडिदो तीसदि-णामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । उक्कं अवट्ठाणं कस्सं ? यो सत्तविधबंधगो उक्कं जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णगे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो । ताधे ताओ चेव एगुणतीसदिणामाओ^२ बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं ।

२३५. ओरालियअंगो-असंपत्तसें उक्कं वड्डी अवट्ठाणं च पंचिदियभंगो । उक्कं हाणी बेइंदियअपज्जत्तगेसु उववण्णो तप्पाजहं जोगट्ठाणे पडिदो तीसदि-णामाए बंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । परं-उस्सा-पज्जत्त-थिर-सुभं उक्कं

क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस कारण नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीसका बन्ध करनेवाला नहीं ।

२३४. चार संस्थान और पाँच संहननकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मर कर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, तीसका बन्ध नहीं करता । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है ।

२३५. औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, और शुभकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । उत्कृष्ट हानिका

१. आ०प्रतौ 'उक्कं असादं णो' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'जहं जोगं गदो उक्कं' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'सत्तविधबंधो (धगो) जादो' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ '-णा [मा] ओ' इति पाठः । ५. ता०आ०प्रत्योः 'जहं जोगी पडिदो' इति पाठः ।

वड्डी अवट्टाणं च पंचिदियभंगो । उक्क० हाणी [कस्स०] ? मदो सुहुमेइंदियपत्तगेसु उववण्णो तप्पा०जह० जोगट्टाणे तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी ।

२३६. आदाव० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविध० तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो छव्वीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? यो सत्तविधब० उक्क० जोगी मदो बादरेइंदियपत्तएसु उववण्णो जहणजोगट्टाणे पडिदो छव्वीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्क० जोगी पडिभग्गो अट्टविधबंधगो जादो । ताधे चेव छव्वीसदिणामाए बंधदि । उज्जोव० उक्क० वड्डी आदावभंगो । उक्क० हाणी० [कस्स] ? मदो बादरएसु उववण्णो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क० जोगी पडिभग्गो अट्टविधबंधगो जादो । ताधे वि नाओ चेव छव्वीसदिणामाओ बंधदि णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं । एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओ बंधभाणगस्स उक्क० अवट्टाणं० णो तीसदि० बंध० ।

स्वामी कौत है ? जो मरकर सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

२३६. आतपकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोमे उत्पन्न होकर जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ तथा नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह आतपके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह उस समय नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है । उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी आतपके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और बादरोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उद्योतकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह उस समय भी नामकर्मकी उन्हीं छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, तीसका नहीं । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस कारणसे नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उद्योतके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव नहीं ।

१. ता०प्रतौ 'हाणी [कस्स ?] मदो' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'यो अवट्टिद० तप्पाओग्गजह०-जोगट्टाणादो' इति पाठः ।

२३७. अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० वड्डी देवगदिभंगो । उक्क० हाणी कस्स० ? मदो पोरइएसु उववण्णो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं समचदु०भंगो । सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० वड्डी तिरिक्खगदिभंगो । हाणी तं चेव पणुवीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स ? यो सत्तविधबं धगो एवं' याव अट्ठविधबं० जादो ताधे वि ताओ चेव तेवीसदिणामाए बंधदि णो पणुवीसं तस्स उक्क० अवट्ठाणं । बादरणामाए उक्क० वड्डी अवट्ठाणं तिरिक्खगदिभंगो । हाणी० ? मदो बादरएइंदियअपज्जत्तएसु उववण्णो तीसदिणामाए बंध० जादो तस्स उक्क० हाणी । पत्तेयसरीरं तिरिक्खगदिभंगो । णवरि णियोद वज्ज पत्तेयसरीरसुहुमेसु उववण्णो । तित्थ० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं णग्गोदभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? जो सत्तविधबं० उक्क० जोगी मदो देव-पोरइएसु उववण्णो तप्पाओग्ग-जह० पडिदो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । एदेण बीजेण पोरइग्ग-देवेसु सव्वपगदीणं उक्क० वड्डी अवट्ठाणं हाणीओ च ओघं देवगदिभंगो । एवं सव्वणिरय-देवाणं ।

२३८. तिरिक्खेसु पंचणा०-दोवेदणी०-दोगोद०-पंचंत० वड्डी-हाणि-अवट्ठाणाणि

२३७. अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी देवगतिके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मरा और नारकियोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग समचतुरस्रसंस्थानके समान है । सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी तिर्यञ्चगतिके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? वही जीव जब नामकर्मकी पञ्चीस प्रकृतियोंका बन्धक हुआ तब उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला इसी प्रकार आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला हुआ वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । वह तब भी नामकर्मकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, पञ्चीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता । बादरनामकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । प्रत्येकशरीरका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि निगोदको छोड़कर जो प्रत्येकशरीरसूक्ष्मोंमें उत्पन्न हुआ ऐसा कहना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी वृद्धि और अवस्थानका स्वामी न्यगोधपरिमण्डल संस्थानके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर देव नारकियोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इस बीजपदके अनुसार नारकी और देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओघसे देवगतिके समान है । इसी प्रकार सब नारकी और देवोंमें जानना चाहिए ।

२३८. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट

१. ता०प्रतौ 'सत्तविधबंध० । एवं' इति पाठः । २. ता०आप्रत्योः 'तेत्तीसदिणामाए' इति पाठः ।

ओघं थीणगिद्धिभंगो^१ । चटुआउ०-वेउच्चिवयल्लक-मणुस०-मणुसाणु०- उच्चा० तिण्णि वि सत्थाणे कादव्वं । ओघेण अट्टावीसाए सह उक्कस्सं तेसिं कम्ममाणं सत्थाणे कादव्वं । तिण्णि वि एसिं सम्मादिट्ठी सामित्तं तेसिं सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं ओघं ।

२३६. पंचिंदियतिरिक्ख०३ पंचणाणावरणदंडओ थीणगिद्धि०३-मिच्छ०- अणंताणु०४-असाद०-णवंसु०-णीचा० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविधवंधगो तप्पाओग्गजहण्णागादो जोगट्टाणादो उक्कस्सगं जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी मदो असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तगेषु उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स ? यो सत्तविध० उक्कस्सजोगी पडिभगो अट्टविधवंधगो^३ जादो तस्स उक्कस्सं अवट्टाणं । छदंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं० उक्क० वड्डी कस्स० ? अट्टविधवंध० तप्पाओग्गजहण्णाजोगट्टाणादो उक्कस्स-जोगट्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? जो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पडिभगो तप्पाओग्गजहण्णाजोगट्टाणे पदिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । अपच्चक्खाण०४ असंजदसम्मादिट्ठि०,

वृद्धि, हानि और अवस्थानका स्वामी ओघसे स्थानगृद्धिके समान है । चार आयु, वैक्रियिकषट्क, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके तीनों पदोंका स्वामित्व स्वस्थानमें करना चाहिए । ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ जिनका उत्कृष्ट है उनका स्वस्थानमें करना चाहिए । जिनके तीनों पदोंका सम्यग्दृष्टि स्वामी है उनका स्वस्थानमें करना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

२३६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण दण्डक, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असातावेदनीय, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । छह दर्शनावरण, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके

१. ता०प्रतौ 'ओघं । थीणगिद्धिभंगो' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'उक्कस्स कम्ममाणं' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'अट्टविधं बंध०' आ०प्रतौ 'अवट्टिदबंधगो' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ '-जोगट्टाणं उक्कस्स-जोगट्टाणं' इति पाठः ।

पञ्चकखाण०४ संजदासंजदस्स । एवं संजलणचत्तारि^१ चदुआउ-चदुगदि-चदुजादि० एदाणि देवगदिभंगो । पंचिंदियजादि-चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संध० उक्क० वड्ढी-हाणि-अवट्टाणाणि गाणावरणभंगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिंदियअपज्जत्तगेसु उववण्णो । चदुसंठा०-चदुसंध० असण्णिपंचिंदियपज्जत्तगेसु उववण्णो ।

२४०. पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णबुंस०-छण्णोक०-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-असंप० उक्क० वड्ढी हाणी अवट्टाणं तिरिक्खगदिभंगो । णवरि हाणी असण्णिपंचिंदिएसु उववण्णो । सेसाणं सत्थाणे वड्ढी हाणी अवट्टाणं कादव्वं । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं । णवरि अप्पण्णो अपज्जत्तगेसु उववण्णो ।

२४१. मणुस०३ तिरिक्खभंगो । णवरि सम्मादिट्ठि-उवसम - खवगपगदीणं वड्ढी अवट्टाणं मूलोघं । हाणी अवट्टाणमिह कादव्वं ।

२४२. एइंदिएसु दोआऊणि मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संध०-मणुसाणु०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० वड्ढी हाणी अवट्टाणं च

सब पदोंका स्वामी असंयतसम्यग्दृष्टि और प्रत्याख्यानवरण चतुष्कके सब पदोंका स्वामी संयता-संयत जीव है । इसी प्रकार चार संज्वलनके स्वामित्वके विषयमें जानना चाहिए । चार आयु, चार गति और चार जाति इनका भङ्ग देवोंके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और छह संहननकी उत्कृष्ट हानि, वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ वह इनकी हानिका स्वामी है । तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ जीव चार संस्थान और चार संहननकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

२४०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषात्क नपुंसकवेद, छह नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासुपाटिकासंहननकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करना चाहिए । इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने अपने अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ जीव स्वामी है ।

२४१. मनुष्यत्रिकमें तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टिसम्बन्धी तथा उपशम और क्षपक प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानिका भङ्ग मूलोघके समान है । हानि अवस्थानमें करनी चाहिए ।

२४२. एकेन्द्रियोंमें दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए । शेष प्रकृतियोंके वृद्धि और

१. ता०प्रतौ 'सजदासंजदस्स एवं । संजलणचत्तारि' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'तिरिक्खगदिभंगो' इति पाठः ।

सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं वड्डी अवट्ठाणं बादरस्स कादव्वं । हाणी मदो सुहुमणिगोदेसु उववण्णो । आदाव० बादरपुढविपज्जत्त० सत्थाणे कादव्वं । एवं पंचकायाणं । विगल्लि-
दियाणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । णवरि पंचणा०-णवदंसणा० - दोवेदणी०-
मिच्छ०--सोलसक०--सत्तणोक०--विगल्लिदियजादि-ओरालि०अंगो०--असंप०--णीचा०-
पंचंत० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं । हाणी मदो अपज्जत्तगेसु उववण्णो० ।
सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वं ।

२४३' पंचिदिएसु सव्वपगदीणं ओघं । णवरि तिरिक्खगदि-चदुजादीणं ओरालि०-
तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०--अगु०--उप०--आदाउज्जो०-थावर-बादर-सुहुम-
पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमिणं एदाणं
वड्डी अवट्ठाणं ओघं । हाणी अवट्ठाणमिह कादव्वं । सेसाणं ओघं । एवं तस०२ ।

२४४. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत०
उक्क० वड्डी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी तप्पाओग्गजहण्णगादो
जोगट्ठाणादो उक्कस्सं जोगट्ठाणं गदो छन्विधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क०
हाणी कस्स० ? जो छन्विधवंधगो उक्कस्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णगे जोग-
ट्ठाणे पदिदो सत्तविध० तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्कस्सगमवट्ठाणं । थीणगि०३-

अवस्थान बादर जीवके करने चाहिए । तथा जो मरकर सूक्ष्म निगोद् जीवोंमें उत्पन्न हुआ उसके
हानि करनी चाहिए । आतपकी उत्कृष्ट वृद्धि आदि बादर पृथिवीकायिक पर्याप्तके स्वस्थानमें करने
चाहिए । इसी प्रकार पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । विकलेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, विकलेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गो-
पाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान
स्वस्थानमें करने चाहिए । तथा जो मरकर अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ वह इनकी उत्कृष्ट हानिका
स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके तीनों ही स्वस्थानमें करने चाहिए ।

२४३. पञ्चेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि
तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क,
तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त,
प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनकी
वृद्धि [और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए ।
शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार त्रसादिकमें जानना चाहिए ।

२४४. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण,
सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात
प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे
उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट
योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और सात प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमें

मिच्छ०-अणंताणु०४- [असाद०-] इत्थि०-णवुंस०-णीचा० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविध० तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्कस्सजोगट्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णगे जोगट्टाणे पडिदो अट्टविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । णिहा-पयला०-छण्णोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? सम्मादि० अट्टविधवंध० तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो अट्टविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । अपच-क्खाण०४ असंजदसम्मादिट्ठिस्स चदुगदियस्स सत्थाणे वड्डी हाणी अवट्टाणं च कादव्वं । पच्चक्खाण०४ संजदासंजदस्स च दुगदियस्स तिण्णि वि सत्थाणेण । चदु संजलणं पुरिस० वड्डी अवट्टाणं ओघभंगो । हाणि-अवट्टाणेसु पढमसमए हाणी विदिय-समए अवट्टाणं णादव्वं । चदुण्णं आउगाणं ओघं । णामाणं सव्वाणं वड्डी हाणी अवट्टाणं ओघभंगो । णवरि हाणी अप्पप्पणो अवट्टाणेसु पढमसमए उक्कस्सिया हाणी विदियसमए उक्कस्सयमवट्टाणं । सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वाणि । एवं ओरालियकायजोगि०-कायजोगी० ओघं ।

उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । स्त्यानगुद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असाता-वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचला और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा और वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्कके चार गतिके असंयतसम्यग्दृष्टिके स्वस्थानमें वृद्धि, हानि और अवस्थान करने चाहिए । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीनों ही पद दो गतिके संयतासंयत जीवके स्वस्थानमें करने चाहिए । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । अपने अवस्थानमें प्रथम समयमें उत्कृष्ट हानि होगी और द्वितीय समयमें अवस्थान होगा । चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । नामकर्मकी सब प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि हानि और अपने अपने अवस्थान इनमेंसे उत्कृष्ट हानि प्रथम

१. आ०प्रतौ 'ओरालियकाजोगि ओघ' इति पाठः ?

२४५. ओरालियमि० पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-
णवुंस०-णीचा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो सत्तविधवं तप्पाओग्गजहण्णगादो
जोगट्टाणादो उक्कस्सजोगट्टाणं गदो से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि त्ति तरस उक्क०
वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी मदो सुहुमणिगोद-
अपज्जत्तगेषु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पदिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं
कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी पडिभग्गो अट्टविधवंधगो जादो तप्पाओग्ग-
जह० जोगट्टाणे पदिदो तस्सेव से काले उक्कस्सयं अवट्टाणं । छदंस०-बारसक०-सत्त-
णोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो सम्मादिट्ठी तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्टाणादो
[उक्कस्सयं जोगट्टाणं गदो] तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी अवट्टाणं णाणा०-
भंगो । आयु० दो वि ओघं । णवरि अण्णदरस्स पंचिंदिय० सण्णि त्ति भणिदव्वं ।
णामाणं वड्डी णाणाव०भंगो । हाणी अवट्टाणं च अप्पणो ओघं । णवरि देवगदि०४
उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादि० तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगट्टाणादो
उक्कस्सजोगट्टाणं गदो से काले सरीरपज्जत्ति जाहिदि त्ति तस्स० उक्क० वड्डी । समचदु०-

समयमें होती है और दूसरे समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । शेष प्रकृतियोंके स्वस्थानमें तीनों ही करने चाहिए । इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । काययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

२४५. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त करेगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दृष्टि तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । तथा इनकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दोनों आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञीके कहना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंकी वृद्धिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा हानि और अवस्थानका भङ्ग अपने अपने ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह उनकी वृद्धिका स्वामी है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर

१. आ०प्रतौ 'सम्मादिट्ठि ति० तप्पाओग्गजह ण्णगादो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'जोगट्टाणादो जोगट्टाणं (?) उक्क० जोगट्टाणं' इति पाठः ।

पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० वड्डी हाणी अवट्टाणं च णिहाए भंगो । णवरि हाणी असण्णीसु उववण्णो । चदुसंठा०-पंचसंघ० वड्डी अवट्टाणं ओघं । हाणी असण्णीसु उववण्णो । तित्थयरं देवगदिभंगो । एवं सेसाणं वड्ढि-हाणि-अवट्टाणाणि णाणा०भंगो ।

२४६. वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि० पंचणा० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० मिच्छादि० तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो से काले सरीर-पज्जत्ति गाहिदि त्ति तस्स उक्क० वड्डी । एवं थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४ णउंस०-दोगोद०-पंचंत० । णवरि पंचणा०-दोवेदणी०-उच्चा०-पंचंत० सम्मादिट्ठिस्स वा मिच्छादिट्ठिस्स वा कादव्वं । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक० वड्डी कस्स० ? यो अण्णद० सम्मादि० तप्पाओ०जहण्णजोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । एवं सव्वपगदीणं । आहार०-आहारमि० मणजोगिभंगो । णवरि आहारमि० से काले सरीरपज्जत्ति गाहिदि त्ति ।

२४७. कम्मइगे पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०^३ णउंस०-णीचा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? तप्पाओग्गजह० जोगट्टाणादो उक्क०

और आदेयकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग निद्राके समान है। इतनी विशेषता है कि हानि असंज्ञियोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए। चार संस्थान और पाँच संहननकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है। इनकी हानि असंज्ञियोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है।

२४६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी सम्यग्दृष्टि भी है और मिथ्यादृष्टि भी है। छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जानना चाहिए। आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जो अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको ग्रहण करेगा ऐसा और कहना चाहिए।

२४७. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? जो तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी

१. आ०प्रतौ 'देवगदिभंगो' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'उक्क० वड्डी ।.....दोवेदणी०' इति पाठः । ३. ताप्रतौ 'अणंता । इत्थि०' इति पाठः ।

जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । छदंस०-वारसक०-सत्तणोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादिट्ठि० तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । तिरिक्खगदिणामाए उक्क० वड्डी कस्स० ? यो तेवीसदिणामाए तप्पाओग्गजह० जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क० - हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर०-वादर-सुहुम-पत्तेय०-साधार०अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमिण त्ति । मणुसगदिणामाए उक्क० वड्डी कस्स० ? यो पणुवीसदिणामाए तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्कस्सं जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । एवं मणुसगदिभंगो चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंप०-मणुसाणु०-पर०-उस्सा०-तस-पञ्जत्त०-थिर-सुभ-जस० । देवगदि० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो सम्मादिट्ठि तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । एवं देवगदि०४ । एवं चेव तित्थय० । णवरि एगुणतीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स० उक्क० वड्डी । चदुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० वड्डी कस्स० ? एगुणतीसदिणामाए बंधगो तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । आदाउओ० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो छवीसदिणामाए बंधगो

उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इस प्रकार तिर्यञ्चगतिके समान एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान चार जाति, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, त्रस, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । देवगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सम्यग्दृष्टि जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वी और वैक्रियिकद्विक इन तीन प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्धक है वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रा-योग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है ।

तप्पाओग्गजहण्णादो जोगट्टाणादो उक्कस्सजोगट्टाणं गदो तस्स उक्कं वड्डी । एवं अणाहारगेसु ।

२४८. इत्थिवेदेसु पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवे०-णीचा०-पंचंत० उक्कं वड्डी कस्सं ? जो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजह०-जोगट्टाणादो उक्कं जोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कं वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? यो सत्तविधबंधगो उक्कंजोगी मदो असणीसु उववण्णो तप्पाओग्गजह० जोगट्टाणे पडिदो तस्स उक्कं हाणी । उक्कं अवट्टाणं कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कंजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणे पडिदो अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्कं अवट्टाणं । णिद्दा-पयला-छण्णोक० उक्कं वड्डी कस्सं ? अण्णदरस्स सम्मादिट्ठि० यो अट्टविधबंधगो तप्पाओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्कंजोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्कस्सिगा वड्डी । उक्कं हाणी कस्सं ? जो सत्तविधबंधगो उक्कंजोगी पणिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगट्टाणे पडिदो^१ अट्टविधबंधगो जादो तस्स उक्कं हाणी । तस्सेव से काले उक्कं अवट्टाणं । एवं अपच्चक्खाण०४ असंजद० पच्चक्खाण०४ संजदा-

आतप और उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छब्बीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२४८. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और असंज्ञियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । निद्रा, प्रचला और छह नोकषायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही जीव अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदि पदोंका स्वामित्व असंयत-सम्यग्दृष्टिके तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि आदि पदोंका स्वामित्व संयतासंयत

१. ता०प्रतौ '—जोगट्टाणं पडिदो' इति पाठः ।

संजद० । णवुंस० तिण्णि वि मणुसभंगो । चदुदंसणा० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो छव्विध-
बन्धगो तप्पाओग्गजह०जोग०^१ उक्क० जोगट्ठाणं गदो चदुविधबन्धगो जादो तस्स उक्क०
वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो चदुविधबन्धगो^२ उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग-
जह०जोगट्ठाणे पदिदो छव्विधबन्धगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क०
अवट्ठाणं । चदुसंजल० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अण्णद० पमत्तसंजदस्स अट्ठविध-
बन्धगो जादो तप्पाओग्गजह०जोगट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो तदो सत्तविधबन्धगो
जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधबन्ध० पडिभग्गो अट्ठविध-
बन्धगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । पुरिस० उक्क०
वड्डी अवट्ठाणं ओघं । हाणी अवट्ठाणम्मिहं कादव्वं । चदुआउ० ओघं । णामाणं सव्वाणं
जोणिणिभंगो । णवरि तिरिक्खग० अण्णदर० दुगदि० । एवं सव्वाओ णामाओ ।
पुरिस० इत्थिवेदभंगो । णवरि सम्मादिट्ठिपगदीणं । हाणी मदो अण्णदरीए गदीए
उववण्णो तप्पा०जह०पगदीदो तस्स उक्क० हाणी । सेसाणं हाणी अवट्ठाणम्मि कादव्वं ।

जीवके कहना चाहिए । नपुंसकवेदके तीनों ही पदोका भङ्ग मनुष्योंके समान है । चार दर्शना-
वरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाला जो जीव
तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर चार प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध
करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? चार
प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य
जघन्य योगस्थानमें गिरा और छह प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट
हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । चार
संखलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर
प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी
कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करकेवाला जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका
बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा अनन्तर समयमें वही जीव उनके
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ओघके समान
है । हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए । अर्थात् अवस्थानका स्वामित्व घटित करते समय
पूर्व समयमें हानि होती है और अनन्तर समयमें अवस्थान होता है । चार आयुओंका भङ्ग ओघके
समान है । नामकर्मकी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है । इतनी
विशेषता है कि तिर्यञ्चगतिका भङ्ग अन्यतर दो गतिके जीवके कहना चाहिए । इसी प्रकार नाम-
कर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग
है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व कहते समय
जो जीव मरा और अन्यतर गतिमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि अवस्थानमें करनी चाहिए ।

१. ता०प्रतौ [त] प्पाओग्गजह० जोग०' इति पाठः ! २. आ०प्रतौ 'जो छव्विधबन्धगो' इति पाठः ।
३. ता०आ०प्रत्योः 'हाणी अवट्ठाणं हि' इति पाठः ।

२४६. णवुंसगे पंचणा० वड्डी अवट्टाणं सत्थाणे । हाणी मदो सुहुमणिगोद-
जीवेसु उववण्णो । सम्मादिट्टिपगदीणं वड्डी अवट्टाणं सत्थाणे । हाणी अण्णदरस्स मदस्स
वा सत्थाणे । णवरि णिहा-पयला०-अट्टक०-छण्णोक्क० ओघं । सेसाणं सत्थाणे । णामाणं
ओघभंगो । अवगदवेदे ओघभंगो । णवरि सत्थाणे हाणी । कोधादि०३ सत्तण्णं' क०
णवुंसगभंगो । णामाणं ओघभंगो । लोभे ओघं ।

२५०. मदि-सुद० पंचणा० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविधबंधगो तप्पा-
ओग्गजह०जोगट्टाणादो उक्क० जोगट्टाणं गदो सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी ।
उक्क० हाणी' कस्स० ? जो सत्तविधबंधगो उक्क० जोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तएसु
उववण्णो तप्पाओग्गजह०जोग० पडि० तस्स० उक्क० हाणी । अवट्टाणं सत्थाणे
णेद्वं । णवदंसणा०-सादासाद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-दोगोद०-चदुआउ०
सन्वाओ णामपगदीओ ओघो भवदि । एवं मदि०भंगो अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि
त्ति विभंगे पंचणाणावरणादीणं तिण्णि वि सत्थाणे कादव्वाणि ।

२५१. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा०-पंचंत०

२४६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने
चाहिए । तथा उत्कृष्ट हानि जो जीव मरकर सूक्ष्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके करनी
चाहिए । सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए ।
तथा उत्कृष्ट हानि अन्यतर मरे हुए जीवके अथवा स्वस्थानमें करनी चाहिए । इतनी विशेषता है
कि निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और छह नोकषायका भङ्ग ओघके समान है । शेषका स्वामित्व
स्वस्थानमें करना चाहिए । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । अपगतवेदी जीवोंमें
ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें करनी चाहिए । क्रोधादि तीन
कषायवाले जीवोंमें सात कर्मों का भङ्ग नपुंसकवेदवाले जीवोंके समान है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका
भङ्ग ओघके समान है । लोभ कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

२५०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन
है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट
योगस्थानको प्राप्त हो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी
है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट
योगसे युक्त जो जीव मरा और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य
योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी
स्वस्थानमें ले जाना चाहिए । नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह
कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र, चार आयु और सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ इनका भङ्ग ओघके
समान है । इसी प्रकार मत्यज्ञानियोंके समान अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना
चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके तीनों ही पद स्वस्थानमें करने चाहिए ।

२५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार
दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और

१. आ०प्रतौ 'कोधादि०४सत्तण्ण' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'तस्स उक्क० । हाणी' इति पाठः ।
३. ता०प्रतौ 'दोगदि० चदुआउ०' इति पाठः ।

उक्क० वड्डी हाणी अवट्ठाणं ओघं । णिहा-पचला-असादा०-छण्णोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० यो अट्टविधबं० तप्पाओग्गजह०जोगट्ठाणादो उक्कस्सजोगट्ठाणं गदो सत्तविधबं० धगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? सत्तविधबं० धगो मदो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? यो सत्तविधबं० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो अट्टविधबं० धगो जादो तस्स उक्क० अवट्ठाणं । अवच्चक्खाण०४ असंजद० पच्चक्खाण०४ संजदासंजदस्स । चदुसंजल०-पुरिस०-दोआउ०, ओघभंगो । मणुसग० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अट्टविधबं० तप्पाओग्गजह०जोगट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधबं० धगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधबं० धगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो अट्टविधबं० धगो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । एवं ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० । देवगदि०४ मूलोघं । पंचिदि० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं देवगदिभंगो । हाणी मदो देवेसु उववण्णो एगुणतीसदिणामाए सह सत्त-

अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोंका स्वामित्व असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंका स्वामित्व संयतासंयत जीवके करना चाहिए । चार संज्वलन, पुरुषवेद और दो आयुका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्तकर नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी वृद्धि आदि तीन पदोंका स्वामित्व जानना चाहिए । देवगतिचतुष्कका भङ्ग मूलोघके समान है । पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग देवगतिके समान है । उत्कृष्ट हानि—जो जीव मरा और देवोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह

१. ता०प्रतौ 'अवट्ठाण० [क० ?] यो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अवट्ठाण० । [क्रमागतताडपत्रस्या-
ज्ञानुपलब्धिः । अक्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते ।] एवं' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'मणुसाणु० देवगदि४ मूलोघं'
इति पाठः

विधबन्धगो जादो तस्स उक्क० हाणी^१ । एवं सव्वाओ णामाओ । णवरि आहारदुग्गं तित्थ० ओघं । अथिर-असुभ-अजस० तिण्णि वि पंचिदियभंगो । णवरि सत्तविधबन्धगस्स कादव्वं । एवं ओधिदंस०-सम्मा०^२-खड्ग०-वेदगस०-उवसमसम्मादिट्ठीसु । मणुस-गदिपंचगस्स वड्डी हाणी अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं ।

२५२. मणपञ्जवे० सत्तण्णं क० मणुसगदिभंगो । णामाणं देवगदिआदियाणं वड्डी हाणी अवट्ठाणं आभिणि०भंगो । णवरि सत्थाणे हाणी णेदव्वं । एवं सव्वाणं णामाणं । अथिर-असुभ-अजस० सत्तविधबन्ध० कादव्वं । एवं संजद-सामाह०-छेदो-परिहार० ।

२५३. सुहुमसं० छण्णं^३ क० उक्क० वड्डी कस्स० ? यो तप्पाओग्गजह०जोग-ट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? उक्कस्सगादो जोगट्ठाणादो पडिभग्गो तप्पाओग्गजह०जोगट्ठाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अत्रट्ठाणं । संजदासंजद० परिहारभंगो ।

२५४. असंजदेसु पंचणा०-थीणगि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु४-इत्थि०-

पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार नामकर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आहारकद्रिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके तीनों ही पदोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके करना चाहिए । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यगतिपञ्चककी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए ।

२५२. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है । नामकर्मकी देवगति आदिकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें ले जानी चाहिए । इसी प्रकार नामकर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए । अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी वृद्धि आदि सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके करनी चाहिए । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदेपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए ।

२५३. सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ है वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभ्रम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है ।

२५४. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके

१. ता०प्रतौ 'उक्कसि [या] हाणी ।' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'एवं ओधिदं० । सम्मा०' इति पाठः । ३. ताप्रतौ 'परिहार० सुहुमसं० छण्णं' इति पाठः ।

णवुंस०-दोगोद०-पंचंत० मदि०भंगो । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सम्मादिट्ठिस्स अट्ठविधबं० तप्पाओग्गजह० [उक्क०] जोगट्ठाणं गदो सत्तविध-बं०धगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सम्मादिट्ठी उक्क०जोगी मदो अण्णदरीए गदीए उववण्णो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? यो सत्तविधबं० उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग-जहण्णगे जोगट्ठाणे पदिदो' अट्ठविधबं०धगो जादो तस्स० उक्क० अवट्ठाणं । णामाणं मदि०भंगो । णवरि देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० ओघं ।

२५५. चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । णवरि चदुरिंदियपज्जत्तेसु उववण्णो० । अचक्खु० ओघं । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेऊए पंचणा०-थीणाणि०३-[दोवेद०-] मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवेद-दोगोद-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स अट्ठविधबं०धगो सत्तविधबं०धगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ! यो सत्तविधबं०धगो उक्क०जोगी मदो देवो जादो तस्स उक्क० हाणी । णवरि थीणाणिदि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थिवे० दुगदियस्स' । अवट्ठाणं सत्थाणे० । छदंस०-सत्त-

समान है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगवाला सम्यग्दृष्टि जीव मरा और अन्यतर गतिमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्टि हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदियका भङ्ग ओघके समान है ।

२५५. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहना चाहिए । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । कृण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें असंयत जीवोंके समान भङ्ग है । पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हो गया वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेद इनका भङ्ग दो गतिवाले जीवके कहना चाहिए । तथा इनके अवस्थानका स्वामित्व

१. ता०प्रतौ 'तप्पाओग्गजहणं जोगट्ठाणं पडिदो' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'इत्थिवे० सेसाणं दुगदियस्स,' इति पाठः ।

णोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० सम्मादिट्ठि० अट्ठविधवं० सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क०जोगी मदो जह०जोगट्ठाणे पदिदो तस्स उक्क० हाणी । अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं । अपच्चक्खाण०४- [पच्चक्खाण०४] ओघं । संजलणं पमत्तसंजदस्स कादव्वं । तिण्णिआउ० ओघं० । तिरिक्खगदिणामाए पणुवीसं संजुत्ताणं च । मणुसगदिपंचगं^१ आदाउज्जोवं सोधम्मभंगो । देवगदि०४ सत्थाणे कादव्वं । आहारदुगं ओघं । पंचिंदियणामाए वड्डी अवट्ठाणं देवगदिभंगो । हाणी मदो देवो जादो तीसदिणामाए बंधगो जादो तप्पाओग्गजह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । एवं समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० । णवुंसं० सत्थाणे कादव्वं । चदुसंठा०-पंचसंध०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० सोधम्मसंगो । एवं पम्माए वि । णवरि णामाणं तिरिक्खगदि-मणुसगदिसंजुत्ताणं सहस्सारभंगो । एवं देवगदिसंजुत्ताणं आभिणि०भंगो । एवं सुक्काए वि । णवरि सम्मत्तपगदीणं ओघभंगो । सेसाणं आणदभंगो । अट्ठावीसदिसंजुत्ताणं आभिणि०भंगो । भवसिद्धिया० ओघभंगो ।

स्वस्थानमें करना चाहिए । छह दर्शनावरण और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगवाला जीव मरा और जघन्य योगस्थानमें गिर पड़ा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनका उत्कृष्ट अवस्थान स्वस्थानमें करना चाहिए । अप्रत्यख्यानवरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । संज्वलनका भङ्ग प्रमत्तसंयतके करना चाहिए । तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामित्व नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोंसे संयुक्त हुए जीवके होता है । मनुष्यगतिपञ्चक, आतप और उद्योतका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है । देवगतचतुष्कका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए । आहारकट्टिकका भङ्ग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रियजातिकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग देवोंके समान है । तथा उत्कृष्ट हानि—जो जीव मरा और देव होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ बन्धक होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी अपेक्षा जानना चाहिए । नपुंसकवेदका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिसंयुक्त नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कल्पके समान है । इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सन्यक्त्वप्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आनतकल्पके समान है । देवगति आदि अट्ठाईस संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है । भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

१. ता०प्रतौ—संजुत्ताणं च मणुसगदिपंचगं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'आदे० णवुंस०' इति पाठः ।

२५६. सासणे तिण्णिआऊणि देवगदि०४ तिण्णि वड्डी हाणी अवड्डाणं सत्थाणे कादव्वं । सेसाणं वड्डी अवड्डाणं सत्थाणे० । हाणी अण्णदरो मदो अण्णदरेसु एइंदिएसु उववण्णो तप्पा० जह० पडिदो तस्स उक्क० हाणी । सम्मामि० सव्वाणं पगदीणं सत्थाणे कादव्वं । देवगदिअट्ठावीससंजुत्ताणं मणुसगदिपंचगस्स एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगस्स । सण्णी० ओघं । णवरि थावर-विगलिंदियसंजुत्ताओ सत्थाणे कादव्वाओ । असण्णि० तिरिक्खोघं । णवरि सव्वाओ पगदीओ मिच्छादिट्ठिस्स कादव्वाओ । आहारा० ओघं ।

एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

२५७. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णिरयाउ-देवाउ-णिरय-गदि-देवगदि-वेउव्वि०-आहार०-दोअंगो०-दोआणु०-तित्थ० जह० वड्डी कस्स० ? यो वा सो वा यत्तो वा तत्तो वा हेट्ठिमाणंतरजोगट्ठाणादो उवरिमाणंतरजोगट्ठाणं गदो तस्स जह० वड्डी । जद० हाणी कस्स० ? यो वा सो वा यत्तो वा तत्तो वा उवरिमाणंतर-जोगट्ठाणादो हेट्ठिमाणंतरं जोगट्ठाणं गदो तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवड्डाणं । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० वड्डी कस्स० ? यो वा सो वा परंपरपज्जत्तगो वा परंपरअपज्जत्तगो वा

२५६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीन आयु और देवगतिचतुष्ककी तीनों ही वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए । शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए । हानि—जो अन्यतर जीव मरा और अन्यतर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट वृद्धि आदि तीनों पद स्वस्थानमें करने चाहिए । देवगति आदि अट्ठाईस संयुक्त प्रकृतियोंका और मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवके करना चाहिए । संज्ञी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्थावर और त्रिकलेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए । असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंका भङ्ग मिथ्यादृष्टिके करना चाहिए । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

२५७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे नर-कायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो कोई जीव जहाँ कहींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपरिम अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो कोई जीव जहाँ कहींसे उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है । शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो कोई परम्परा पर्याप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव

१. ताप्रतौ 'सो [वा] यत्तो' इति पाठः । २ ता. प्रतौ 'उवरिमाणंतरं जोगट्ठाणादो' इति पाठः ।

यत्तो वा तत्तो वा हेट्टिमाणंतरजोगट्टाणादो उवरिमाणंतरजोगट्टाणं गदो तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? यो वा सो वा परंपरपज्जत्तगो वा परंपरअपज्जत्तगो वा यत्तो वा तत्तो वा उवरिमाणंतरादो जो०ट्टाणादो हेट्टिमाणंतरजोगट्टाणं गदो तस्स जह० हाणी । एकदरत्थमवट्टाणं । एवं ओघभंगो सव्वतिरिक्ख--सव्वमणुस-सव्वएइंदिय-सव्व-विगलिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तापज्जत्त-पंचकाय-सव्वतसकाय-कायजोगि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-आभिणि०-सुद-ओधि०-असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अभवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग त्ति ।

२५८. णेरइएसु सव्वपगदीणं ओघं णिरयगदिभंगो । एवं सव्वणिरय-सव्वदेव पंचमण०-पंचवचि०-ओरालिय०-वेउव्वियका०--आहारका०-अवगद०--विभंग०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०--संजदासंज०-उवसम०-सासण०-सम्माभि० । ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स जह० वड्डी क० ? अण्णदरस्स दुसमयओरालियकाय-जोगिस्स । सेसाणं ओघो । वेउव्वियमिस्स० सव्वपगदीणं जह० वड्डी क० ? अण्ण-दरस्स दुसमयवेउव्वियका०मिस्सगस्स । एवं आहारमि० । कम्मइग०-अणाहारगेषु सव्व-

जहाँ कहींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो कोई परम्परा पर्याप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव जहाँ कहींसे उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है । इस प्रकार ओघके समान सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय व पर्याप्त और अपर्याप्त, पाँच स्थावरकायिक, सब त्रसकायिक, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्त्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२५८. नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे नरकगतिके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब देव, पाँच मनयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेदी, विभङ्गज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोप-स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूत्रमसाम्यरायसंयत, संयतासंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसे औदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसे वैक्रियिकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए दो समय हुए हैं ऐसा अन्यतर जीव उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका

पगदीणं जह० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स सुहुम० दुसमय-विग्गहगदिसमावण्णस्स तस्स जह० वड्डी एगमेवपदं । णवरि देवगदिपंचगस्स ओरालियमिस्सभंगो । णवरि ओघो० । किंचि विसेसो ।

एवं जहण्यं समत्तं ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

अप्पाबहुअं

२५६. अप्पाबहुगं दुविधं—जहण्यं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० चदुआउ० वेउच्चियल्लकं आहारदुगं सच्चत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि तुल्लाणि विसेसाधियाणि । सेसाणं पगदीणं सच्चत्थोवा उक्क० वड्डी । उक्क० अवट्ठाणं विसेसाधियं । उक्क० हाणी१ विसे० । एवं ओघभंगो१ पंचिदिय-तस० २-कायजोगि१-क्रोधादि०-४-मदि०-सुद०-आभिणि०-सुद-ओधि०-असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-तिण्णिले०-तेउ-पम्म-सुकले०-भवसि०-अब्भवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग ति । णवरि एदेसिं सव्वेसिं असतीस अप्पाबहुगं । एसिं पगदीणं मरणं णत्थि० तेसिं आउग-भंगो कादव्वो ।

स्वामी कौन है ? जिसे विग्रहगतिको प्राप्त हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर सूक्ष्म जीव सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है । यहाँ एक ही पद है । इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिपञ्चकका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि ओघसे कुछ विशेषता है ।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्व

२५६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चार आयु, वैक्रियिकषट्क और आहारकद्विककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों परस्परमें तुल्य होकर भी विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । इस प्रकार ओघके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताङ्गनी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, असंयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, कृष्णादि तीन लेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन सबमें अल्पबहुत्व है । तथा जिन प्रकृतियोंके बन्धके समय मरण नहीं है उनका भङ्ग आयुर्कर्मके समान करना चाहिए ।

१. ता०प्रतौ 'मिस्सभंगो णवरि । ओघो' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'विसेसाधियं । हाणी' इति पाठः

३. ता०प्रतौ 'विसेसाधि० । ओघभंगो' इति पाठः । ४. आ०प्रतौ 'तस० कायजोगि०' इति पाठः ।

२६०. सव्वणोरइ०-देव०-पंचमण०-पंचवचि०-ओरा०-वेउ०-आहार०-अवगदवे०-विभंग०-मणपज्ज०-संजद-समाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-संजदासंजद-सम्मामिच्छा० एदेसिं वि याओ पगदीओ अत्थि तेसिं मूलोघं यथा आहारसरीरं तथा कादव्वं । ओरालियमि० दोआउ० ओघं । देवगदिपंचगं वज्ज । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क० अवट्ठाणं । उक्कहाणी विसे० । उक्क० वड्डी असंखेज्जगु० । वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु हाणी अवट्ठाणं च णत्थि । एकमेव वड्डी ।

एवं उक्कस्सयं अप्पावहुगं समत्तं ।

२६१. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं जह० वड्डी जह० हाणी जह० अवट्ठाणं च तिण्णि वि तुल्लाणि । एस कमो याव अणाहारग त्ति । णवरि वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० जह० वड्डी । हाणी अवट्ठाणं णत्थि । ओरालियमिस्स० देवगदिपंचगस्स एकमेव पदं वड्डी अत्थि । सेसं णत्थि ।

एवं जहण्णं अप्पावहुगं समत्तं ।

२६२. एसिं पगदीणं अणंतभागवड्डी अणंतभागहाणी वा तेसिं पगदीणं तम्मिह चेव समए अजहण्णिया वड्डी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा होज्ज, ण पुण एरिसलक्खणं पोत्तगम्मिह ।

२६०. सब नारकी, सब देव, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेदवाले, विभङ्गज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन मार्गणाओंमें जो प्रकृतियाँ हैं उनका अल्पबहुत्व मूलोघसे जिस प्रकार आहारकशरीरका कहा है उस प्रकार करना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है । तथा देवगतिपञ्चकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें हानि और अवस्थान नहीं है । एकमात्र वृद्धि है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

२६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही तुल्य हैं । यह क्रम अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जघन्य वृद्धि है । हानि और अवस्थान नहीं हैं । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकका एकमात्र वृद्धिपद है, शेष दो पद नहीं हैं ।

इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

२६२. जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि या अनन्तभागहानि होती है उन प्रकृतियोंकी उसी समयमें अजघन्य वृद्धि, हानि या अवस्थान होवे पर इस प्रकारका लक्षण प्रत्येकमें नहीं है ।

१. ता०प्रती 'हाणि-अवट्ठाण णत्थि' इति पाठः । २. ताप्रती 'जह० वड्डीहाणिअवट्ठाण णत्थि' इति पाठः ।

वृद्धिबंधो समुक्तिता

२६३. एत्तो वृद्धिबंधे चि तत्थ इमाणि तेरस अणियोगहाराणि । तं जहा—
समुक्तिता याव अप्पाबहुगे चि १३ । समुक्तिताए दुविधो णिदेसो—ओघे० आदे० ।
ओघे० पंचणा०-थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-चदुआउ०-पंचंत०
अत्थि [असंखेज्जभागवद्धि - हाणी संखेज्जभागवद्धि - हाणी संखेज्जगुणवद्धि-हाणी
असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि
अणंतभागवद्धि-हाणी असंखेज्जभागवद्धि-हाणी संखेज्जभागवद्धि-हाणी संखेज्जगुणवद्धि-
हाणी असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । दोवेदणीयं सव्वाओ
णामपगदीओ दोगोदं अत्थि चत्तारिवद्धि-हाणी अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य । एवं
ओघभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओरालिय०-
चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सुकले०-भवसि०-सण्णि-आहारग चि ।

२६४. णिरएमु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि पंचवद्धी पंचहाणी अवट्ठा० ।
सेसाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवद्धी चत्तारिहाणी अवट्ठिदबंधगा य । सेसाणं परि-
यत्तमाणियाणं पगदीणं अत्थि चत्तारिवद्धी चत्तारिहाणी अवट्ठाणं अवत्तव्वबंधगा य ।
एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-वेउव्वि०-असंजद०-पंचलेस्सा० ।

वृद्धिबन्ध समुत्कीर्तना

२६३. आगे वृद्धिबन्धका प्रकरण है । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं । यथा—
समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक १३ । समुत्कीर्तनाका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद,
नपुंसकवेद, चार आयु और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यात-
भागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-
गुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और
सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि,
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि,
असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । दो वेदनीय, नामकर्मकी सब
प्रकृतियाँ और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।
इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी,
काययोगी, औदारिककाययोगी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और
आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२६४. नारकियोंमें छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी पाँच वृद्धि, पाँच
हानि और अवस्थान पदके बन्धक जीव हैं । शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि
और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अव-

१. ता०प्रतौ 'सम (मु) क्कित्ता' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अत्थि सखेज्जभागवद्धि संखेज्जभाग-
वद्धिहाणि' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'अवट्ठा (द्विद) अवत्तव्वबंधगा' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'अवट्ठा
(द्विद०) । सेसाणं' इति पाठः ।

२६५. सव्वअपज्जत्तगाणं तसाणं थावराणं च सव्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंच-कायाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्ठिदबंधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्ठि० अवत्तव्वबंधगा य ।

२६६. ओरालियमि० अपज्जत्तभंगो । णवरि देवगदिपंचगस्स अत्थि असंखेज्ज-गुणवट्ठिबंधगा य । सेसाणं णत्थि । वेउत्तियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेषु धुविगाणं एकवड्डी । सेसाणं परियत्तमाणियाणं अत्थि असंखेज्जगुणवट्ठि० अवत्तव्व-बंधगा य ।

२६७. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधेसु पंचणाणावरणीयाणं चदुदं०-चदुसंज०-पंचंत० अवत्त० णत्थि । सेसपदा अत्थि । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं माणे । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-तिणिसंज०-पंचंत० । एवं मायाए । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-दोसंज०-पंचंत० । एवं लोभे । णवरि पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-चदुसंज०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्ठिद० अवत्तव्वबंधगा य ।

स्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और पाँच लेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए ।

२६५. त्रस और स्थावरके सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

२६६. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तक जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव नहीं हैं । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक वृद्धि है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

२६७. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और क्रोधकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्य पद नहीं है । शेष पद हैं । तथा इनमें शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मानकषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार मायाकषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार लोभकषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है । अवगतवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

१. ता०प्रती 'पंचलेस्सा सव्वअपज्जत्तगाणं तसाणं थावराणं च । सव्वएइंदिय--' इति पाठः ।

२६८. मदि-सुद० धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्टिदबंधगा य । सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य । एवं विभंग०-अभव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि मदि-सुद० विभंग०भंगो । मिच्छा० सादभंगो^१ ।

२६९. आभिणि-सुद-ओधि० चदुदंस०-अट्टक० अत्थि पंचवड्डी पंचहाणी अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम० त्ति । णवरि वेदगे धुविगाणं अवत्तव्वं णत्थि । छदंसणा० णाणा०भंगो ।

२७०. मणपज्जेवे सव्वपगदीणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य । चदुदंसणा० अत्थि पंचवड्डी पंचहाणी अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० - संजदासंजद० - सासण० । सम्मामि० धुविगाणं अत्थि चत्तारिवट्टि-हाणी अवट्टाणं । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्डी चत्तारिहाणी अवट्टिद० अवत्तव्वबंधगा य ।

एवं समुक्तिना समत्ता

२६८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इस प्रकार विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । तथा मिथ्यात्वका भङ्ग सातावेदनीयके समान है ।

२६९. आभिनिबोधकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दर्शनावरण और आठ कषायकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है । तथा छह दर्शनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है ।

२७०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । चार दर्शनावरणकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

१. आ०प्रतौ 'असादभंगो' इति पाठः ।

सामित्तं

२७१. सामित्ताणुगमेण दुविधो णिद्देशो—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप० - णिमि० - पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिदबंधगो कस्स० ? अण्णदरस्स । अवत्तव्वबंध० कस्स० ? अण्णद० उवसमग० परिवदसाण० मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंतानु०४ चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवड्ढिदबंध० कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणगस्स पढम-समयमिच्छादिड्डिस्स वा सासणसम्मादिड्डिस्स वा । णवरि मिच्छा० अवत्त० सासण-सम्मत्तादो वा त्ति भणिदव्वं । णिदा-पयला-भय-दुगं० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्व० णाणा०भंगो । अणंतभागवड्ढी कस्स० ? अण्ण० पढम-समयसम्मादिड्डि० संजदासंजद० संजदस्स वा । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० सम्मत्तादो परिवदमाणगस्स पढमसमयमिच्छा० [सासण०] । चदुदंस० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढी कस्स ? अण्णद० पढमसमयअसंजदसम्मा० संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा पढमसमए वड्ढमाणगस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० अपुव्व-

स्वामित्व

२७१. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य और मनुष्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव उनके अवक्तव्यबन्धके स्वामी है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । उनके अवक्तव्यबन्धका स्वामी कौन है ? संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हुआ है वह उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यबन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यबन्धका सासादनसम्यक्त्वसे च्युत होकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है वह जीव भी स्वामी है ऐसा कहना चाहिए । निद्रा, प्रचला, भय और जुगुप्साकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव है वह उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी है । चार दर्शनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है । उनकी अनन्त-

१. ता०प्रतौ 'अणु (ण्ण०)' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'णवरि अवत्त० अणंतभागवड्ढी' इति पाठः ।

करणस्स वा णिहा-पयलाणं पढमसमयबंधगस्स पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स [सासण०] वा । सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो । दोवेदणी० सव्वाओ णामपगदीओ दोगोद० चत्तारि-वद्धि-हाणि-अवट्टि० कस्स० ? अण्णद० । अवत्तव्वं कस्स० ? अण्णद० परियत्तमाणगस्स पढमसमयबंधगस्स । अपच्चक्खाण०४ अणंतभागवद्धी कस्स ? अण्ण० पढमसमय० असंजदस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० सम्मत्तादो परिवदमाणपढमसमय-मिच्छादि० वा सासणसम्मादिट्टिस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो । पच्चक्खाण०४ अणंतभागवद्धी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयअसंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा । हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवदमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिट्टिस्स वा असंजदसम्मादिट्टिस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणावरणभंगो । णवरि अट्टक० अवत्तव्वं भुजगारभंगो । चदुसंजलणार्णं अणंतभागवद्धी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयअसंजदसम्मा० वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा । हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिट्टिस्स वा सासण० वा सम्मामि० वा असंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो । चदुण्णं आउगाणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवट्टि० कस्स० ?

भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर लौटते हुए निद्रा और प्रचलका बन्ध करनेवाला ऐसा प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण जीव और प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । दो वैदनीय, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । उनके अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावर्तमान प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । उनकी अनन्त-भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंके अवक्तव्यपदका भङ्ग भुजगारके समान है । चार संवलनोंकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्त-भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है । शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । चार आयुओंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन

१. ता०प्रतौ 'णदा [णं] णाणावरण-भंगो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'चदुसंजलणणा (णं)' इति पाठः ।

अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० पढमसमयआउगबन्धमाणगस्स । एवं ओघ-
भंगो मणुस०३-पंचिदि०-त्स०२-पंचमण०-पंचवचि० - काययोगि-ओरालि०-चक्खु०-
अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति । णवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि० ओरा०
अवत्त० देवो ति ण भाणिद्वं ।

२७२. गिरएसु धुवियाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० ।
छदंस०-वारसक०-सत्तणोक० अणंतभागवड्ढी कस्स० ? अण्णद० पढमसमयसम्मादिट्ठिस्स ।
अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० पदिमाण० पढमसमयमिच्छादिट्ठि० वा सासण-
सम्मा० वा । सेसाणं भुजगारभंगो । एवं सत्तसु पुढवीसु । सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-
वेउव्वियका०-असंजद०-किण्ण-णील-काऊणं गिरयभंगो । णवरि तिरिक्खेसु अणंत-
भागवड्ढि-हाणी० संजदासंजदादो अत्थि ति णाद्वं ।

२७३. सव्वअपज्जत्तगेसु^१ धुवियाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० ।
सेसाणं परियत्तियाणं ओघभंगो । एवं सव्वअपज्जत्तगाणं एइंदिय-विगलंदिय-पंच-
कायाणं च ।

है ? प्रथम समयमें आयुबन्ध करनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, चन्द्रदर्शनी, अचन्द्रदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें अवक्तव्यपदका स्वामी देव है ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ ओघसे सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका स्वामी कहा है । मात्र तीन वेद और चार नोकषायोंके सम्भव पदोंका स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता सो जान कर घटित कर लेना चाहिए ।

२७२. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्वारके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सब तिर्यञ्च, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और क्लपोतलेश्यावाले जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि संयतासंयतके सम्पर्कसे भी होती है । अर्थात् संयतासंयतमें भी अनन्तभागवृद्धि होता है और उससे गिरनेवाले जीवके भी अनन्तभागहानि होती है ऐसा जानना चाहिए ।

२७३. सब अपर्याप्तक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग

१. आ० प्रतौ 'त्स० पंचमण पंचवचि० ओरा० अवत्त०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'सव्वा (व) अपज्जत्तगेसु' इति पाठः ।

२७४. ओरालियमि० ध्रुविगाणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० कस्स० ? अण्णद० ।
सेसाणं परियत्तमाणिगाणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० कस्स० ? अण्णद० । अवत्त०
कस्स० ? अण्णद० परियत्तमाण० पढमसमयबंधगस्स । देवगदिपंचग० संखेज्जगुणवद्धि०
कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० ।

२७५. वेउच्चियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-
तेजा०-क०-वण्ण०-४-अगु०-४-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० असंखेज्जगुणवद्धि
कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं असंखेज्जगुणवद्धि कस्स ? अण्णद० । अवत्त० कस्स० ?
अण्णद० परियत्तमाणपढमसमयपढमबंधगस्स । एवं आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेषु ।
णवरि अप्पणो ध्रुविगाओ णादव्वाओ ।

२७६. इत्थिवेदगेषु ओघं । णवरि अवत्त० मणुसि०भंगो । एवं णवुंसगे । पुरिस०
ओघं । अवगदवेदे ओघं । णवरि अवत्त० परिवदमाण० उवसम० पढमसमयबंधगस्स ।
एवं सुहुमसं० । णवरि अवत्त० णत्थि । कोधादि०४ ओघं । णवरि अप्पणो ध्रुवि-
गाओ णादव्वाओ ।

ओघके समान है । इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए ।

२७४. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावर्तमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । देवगतिपञ्चककी संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है ।

२७५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरु-लघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? परावर्तमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मण-काययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए ।

२७६. स्त्रीवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य-पदका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । पुरुष-वेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें जो उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला जीव प्रथम समयमें बन्ध करता है वह उनके अवक्तव्यपदका स्वामी है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी

१. आ० प्रतौ 'पढमसमयबंधगस्स' इति पाठः ।

२७७. आभिणि^१-सुद-ओधि० चदुदंस० अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्ण० अपुव्व-
करणस्स णिद्दा-पयलाबंधवोच्छिण्णपढमसमयबंधगस्स^२ । अणंतभागहाणी कस्स^३० ?
अण्ण० अपुव्वकरणस्स णिद्दा-पयलापढमसमयबंधगस्स । पच्चक्खाण०४ अणंतभागवड्डी
कस्स० ? अण्णदरस्स संजदासंजदस्स पढमसमयबंधमाणगस्स । हाणी कस्स० ? अण्णद०
संजमासंजमादो परिवदमाण० पढमसमयबंध० असंजदसम्मादिट्ठि० । चदुसंज० अणंत-
भागवड्डी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयसंजदासंजदस्स [संजदस्स] वा । अणंतभागहाणी
कस्स० ? अण्ण० संजमादो संजमासंजमादो वा परिवदमाणपढमसमयअसंजद० वा संजदा-
संजदस्स वा । सेसाणं ओघं । णवरि अणंतभागवड्डी-हाणी णत्थि । एवं ओधिदंस०-
सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० । मणज्जव^४० ओघं । णवरि चदुदंस० अणंतभाग-
वड्डी-हाणी अत्थि । सेसाणं णत्थि । ताओ वि पगदीओ ओधि० भंगो । एवं संजद-
सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० । णवरि एदाणं दोण्णं अणंतभागवड्डी-हाणी

विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है । क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए ।

२७७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ?^१ निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्तिके प्रथम समयमें विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? उतरते समय प्रथम समयमें निद्रा और प्रचलाका बन्ध करनेवाला अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चढ़ते समय प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमासंयमसे गिरनेवाला और प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर असंयत-सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । चार संज्वलनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चढ़ते समय प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव और संयत जीव स्वामी है । उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंमेंसे किसीकी भी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानि नहीं है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है तथा शेषकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है । फिर भी उन प्रकृतियोंका भंग अवधिज्ञानी जीवों-समान है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अन्तके इन दोनों संयमोंमें

१. ता० प्रतौ 'ध्रुविगाओ । आभिणि०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ '-वोच्छिण्णा पढमसमयबंधगं' इति पाठः । ३. आ० प्रतौ 'अणंतभागवड्डी कस्स०' इति पाठः । ४. ता० प्रतौ 'उवसमा (म०) मणज्जव०' इति पाठः ।

पत्थि । एदेण कमेण सामित्तं णेदव्वं ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

कालो

२७८. कालाणुगमेण—दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपगदीणं असंखेज्जगुण-
वद्धि-हाणिबं० केवचिरं कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । असंखेज्ज-
भागवद्धि-हाणि-संखेज्जभागवद्धि-हाणि-संखेज्जगुणवद्धि-हाणिबंधकालं केवचिरं कालादो
होदि ? जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अवद्धि०बंध० जह० एग०, उक्क०
पवाइज्जंतेण उवदेसेण एकारससमयं । अणोण पुण उवदेसेण पणारससमयं । एसिं
कम्माणं अणंतभागवद्धि-हाणी अत्थि तेसिं सव्वेसिं च अवत्त० सव्वत्थ कालो एयसमयं ।
दोणं आउगाणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवत्त० णाणा०भंगो । अवद्धिदबंध० केवचिरं
कालादो० ? जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि
ओरालियमिस्स० देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवद्धी केवचिरं कालादो० ? जह० उक्क०
अंतोमु० । वेउव्वियमि० सव्वपगदीणं० असंखेज्जगुणवद्धिबंधकालो केवचिरं० ? जह०

अनन्तभागवद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है । इस प्रकार इस क्रमसे स्वामित्व ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

काल

२७८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार ग्यारह समय है और अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है । जिन कर्मोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उन दोनों पदोंका तथा सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका सर्वत्र एक समय काल है । दो आयुओंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवस्थितबन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि बन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

१. ता०प्रतौ 'एवं सामित्तं समत्तं' इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रतौ 'एगमम [यं दोणं] आउगाण' इति पाठः ।

एग०, उक्क० अंतोमु० । एवं आहारमि० । णवरि एसिं अवत्त० अत्थि तेसिं एयसमयं । कम्मइ०-अणाहारगेषु सव्वपगदीणं असंखेज्जगुणवड्डी जह० एग०, उक्क० तिण्णिसमयं । देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवड्डी जह० एग०, उक्क० बेसमयं । एसिं० अवत्त० अत्थि तेसिं एगसमयं । णवरि अवगद० कोधसंजलणाए अवड्ढिदबंधकालं जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं । सेसाणं अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० एकारससमयं । सुहुमसं० अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं । उवसम० णिहा-पयला-अपचक्खणाण०४ सव्वाओ णाम-पगदीओ जसगित्ति वज्ज अवड्ढिं० जह० उक्क० सत्तसमयं । सेसाणं अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० एकारससमयं । अथवा पण्णारससमयं ।

एवं कालं समत्तं ।

अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिनका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । तथा इनमें जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंमें क्रोधसंज्वलनके अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थित-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्यारह समय है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है । उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और यशःकीर्तिको छोड़कर नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ इनके अवस्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल सात समय है । शेष प्रकृतियोंके अवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्यारह समय अथवा पन्द्रह समय है ।

विशेषार्थ—यहाँ ओघसे जिस प्रकृतिके जितने पद बतलाये हैं उनमेंसे प्रत्येक एक समय तक हों और दूसरे समयमें अन्य पदों हों यह सम्भव है, इसलिए सबका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । जैसा कि स्वामित्वसे विदित होता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि जिन प्रकृतियोंकी होती है एक समयके लिए ही होती है, इसलिए इसके कालके समान उत्कृष्ट काल भी एक समय कहा है । अवस्थितपदके उत्कृष्ट कालके विषयमें दो उपदेश मिलते हैं—एक ग्यारह समयका और दूसरा पन्द्रह समयका, इसलिए यहाँ इन दोनों उपदेशोंका संकलन कर दिया है । उनमेंसे ग्यारह समयवाला उपदेश प्रवर्तमान बतलाया है । और पन्द्रह समयवाले उपदेशको अन्य कहा है । अवक्तव्यपद तो बन्धके प्रथम समयमें ही होता है, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल भी एक समय है यह स्पष्ट ही है । यह ओघप्ररूपणा अनाहारक मागणा तक अपने-अपने पदोंके

१. ता० प्रतौ 'ए० अंतो० (?) उ० अंतो०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'ए (ए) सिं' इति पाठः ।

३. ता० प्रतौ 'वज्ज । अवड्ढिं०' इति पाठः । ४. ता० प्रतौ 'एव काल समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

अंतरं

२७६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-तेजा०-क०-
वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० दोवद्धि-हाणिबंधंतरं केवचिरं कालादो० ? जह०
एग०, उक्क० अंतो० । दोवद्धि-हाणि-अवट्टिदबंधंतरं केवचिरं ? जह० एग०, उक्क०
सेटीए असंखेज्ज० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्दपोग्गल० । थीणगिद्धि०३-
मिच्छ०-अणंताणु०४ असंखेज्जभागवद्धि-हाणि-असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क०
वेळावद्धि० देसू० । दोवद्धि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० णाणा०भंगो । छदंस०-चटुसंज०-

अनुसार सर्वत्र बन जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार जानना चाहिए यह कहा है । मात्र जिन मार्गणाओंमें कुछ विशेषता है उनमें उसका अलगसे निर्देश किया है । यथा—औदारिकमिश्रकाययोगी मार्गणामें अन्य प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काल तो ओघके समान बन जाता है पर देवगतिपञ्चककी मात्र असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, और इस मार्गणाका जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें इन पाँच प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें यद्यपि सामान्यसे सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है पर यह काल परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जानना चाहिए । ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त यहाँ भी है । आहारक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें भी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है, इसलिए उनमें 'इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए' यह कहा है । इन दोनों मार्गणाओंमें जिनका अवक्तव्यपद है उनके उस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । कर्मणकाययोग और अनाहारक मार्गणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है । मात्र देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीवोंका इन मार्गणाओंमें उत्कृष्ट काल दो समय ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इनकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । तथा यहाँ जिनका अवक्तव्यपद है उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह भी स्पष्ट है । इसी प्रकार अन्य मार्गणाओमें जो विशेषता बतलाई है उसे जानकर घटित कर लेनी चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

२७६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके दो वृद्धिबन्ध और दो हानिबन्धका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितबन्धका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्द्यासठ सागरप्रमाण है । दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय और जुगुप्साकी अनन्तभागवृद्धि,

भय-दु० अणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । सेसपदा
 णाणा०भंगो । सादासाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०दोवद्धि-हाणि०-जह० एग०,
 उक्क० अंतो० । मज्झिम्माओ वद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेठीए असंखे० ।
 अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । अट्टक० अणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह०
 अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । असंखेअगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी
 देसु० । दोणिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणा०भंगो । इत्थि० मिच्छ०भंगो । णवरि अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० बेछावद्धि० देसु० । णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-
 दुस्सर-अणादे० दोवद्धि-हाणि० अंतिल्लाओ० जह० एग०, उक्क० बेछावद्धिसाग० सादि०
 तिण्णि पलिदो० देसु० । मज्झिम्माओ दोवद्धि-हाणि-अवद्धि० णाणा०भंगो । अवत्त०
 जह० अंतो०, उक्क० बेछावद्धि० सादि० तिण्णि पलिदो० देसु० । पुरिस० अणंत-
 भागवद्धि-हाणि० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०
 बेछावद्धि० सादि० । सेसाणं साद०भंगो । तिण्णिआउ० वेउव्वियच्छकं चत्तारिवद्धि-चत्तारि
 हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त०३ जह० अंतो०, उक्क० सव्वाणं अणंतकालं ।

अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मध्यकी वृद्धि और हानिका तथा अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी अन्तकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक छथासठ सागरप्रमाण है । मध्यकी दो वृद्धि और दो हानिका तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागर है । पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । तीन आयु और वैक्रियिक षट्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका

१. ता०प्रतौ 'अवत्त० उक्क० अंतो०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अत्थिल्लाओ' इति पाठः ।
 ३. ता०आ०प्रत्योः 'ज० ए० उ० अवत्त०' इति पाठः ।

तिरिक्खाउ० दोवड्डि-हाणि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसद-
पुधत्तं० । दोणिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० । तिरिक्ख-
तिरिक्खाणु०-उज्जो० दोवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० तेवड्डिसागरोवमसदं । दोणिव-
वड्डि-हाणि-अवड्डि० साद०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा ।
णवरि उज्जो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवड्डिसागरोवमसदं । मणुसग०-मणुसाणु०-
उच्चा० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा । अवत्त० जह०
अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ दोवड्डि-हाणि० जह०
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । दोणिवड्डि-हाणि०-
अवट्टाणं णाणाभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि०
णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-
ओरालि०अंगो०-वज्जरि० दोवड्डि-हाणि० अंतिमाओ जह० एग०, उक्क० तिण्णि-
पलिदो० सादि० । दोणिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० ।

जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्चायुकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । तथा इसकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । तथा दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है । औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वज्रर्पभनाराच संहननकी अन्तिम दो वृद्धि, और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । औदारिकशरीरके अवक्तव्य

१ आ०प्रतौ 'उज्जो० जह०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पंचसागरोवमसदं' इति पाठः । ३. आ०प्रतौ 'तस० ३ चत्तारिवड्डि' इति पाठः ।

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालमसंखे० । ओरालि०अंगो०-वज्जरि० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । आहारदुगं चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० चत्तारिवट्ठि-हाणि-[अवट्ठि०] णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० वेळावट्ठि० सादि० तिण्णिपलिदो० देस० । तित्थ० दोवट्ठि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० [जह०] अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । णीचा० णवुंसगभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा ।

पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग और वज्रर्षभनाराच संहननके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । आहारकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं । इनका अवक्तव्य बन्धका अन्तर दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके इन प्रकृतियोंका अबन्धक होकर और पुनः बन्ध करानेपर ही सम्भव है और इस प्रकार दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़कर दो बार अबन्धक होनेके बाद पुनः बन्धक होनेका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा इनकी शेष वृद्धि, हानि और अवस्थितपद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए तो उनका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । आगे भी सब प्रकृतियोंकी इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अब रहा इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर सो इनमेंसे दो वृद्धियों और दो हानियोंकी प्राप्ति यदि अधिकसे अधिक कालमें हो तो वह नियमसे अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और शेष वृद्धियाँ, हानियाँ व अवस्थित पद यदि अधिकसे अधिक कालमें प्राप्त हों तो उनकी दो बार प्राप्तिके मध्य अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालका अन्तर पड़ सकता है, क्योंकि सब योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं, अतः इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । स्थानगृह्णिक आदि आठ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर

कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण होनेसे यहाँ असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए इसके स्वामित्वका विचार कर घटित कर लेना चाहिए। छह दर्शनावरण आदि बारह प्रकृतियोंके स्वामित्वके अनुसार अवक्तव्यपदके समान अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं और अवक्तव्यपदके समान इन दोनों पदोंका भी जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंके इन तीनों पदोंका यह अन्तर काल अपने-अपने स्वामित्वके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका विचार करके ही घटित करना चाहिए। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय आदि यद्यपि परावर्तमान प्रकृतियों हैं फिर भी योगस्थानोंके अनुसार इनकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा मध्यकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके बन्धका एक बार प्रारम्भ होकर व्युच्छित्ति हो जाने पर पुनः दूसरी बार बन्धका प्रारम्भ होनेमें कमसे कम और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त लगता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। आठ कषायोंकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जो स्वामी कहा है उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होनेसे इन पदोंका भी जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इन आठ कषायोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया है, इसलिए यहाँ असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात-गुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। स्त्रीवेदका बन्धान्तर मिथ्यात्वके समान प्राप्त होनेसे इसका भङ्ग मिथ्यात्वके समान कहा है। किन्तु यह परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वके समान नहीं प्राप्त होनेसे उसका निर्देश अलगसे किया है। नपुंसकवेद आदि पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इसकी दोनों छोरकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्तप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि का जो स्वामी है उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होनेसे पुरुषवेदके इन दोनों पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है। तथा पुरुषवेदका बन्ध साधिक दो छयासठ सागर तक निरन्तर होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा यह परा-वर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके शेष पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। तीन आयु आदिका बन्ध अनन्त काल तक न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चायुका अधिकसे अधिक सौ सागर पृथक्त्व काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्जगति आदि तीनका बन्ध एक सौ त्रेसठ सागर काल तक न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका

२८०. गिरएसु धुविगणं असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोणिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देख्ठ० । एसिं अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देख्ठ० । एवं

उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । तिर्यञ्चगतिद्विकका अग्निकायिक और वायुकायिक जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । पर यह बात उद्योतके विषयमें नहीं है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर इसकी दो वृद्धियों और दो हानियोंके उत्कृष्ट अन्तरके समान एक सौ त्रेसठ सागर कहा है । इन तीनों प्रकृतियोंका शेष भङ्ग सातावेदनीयके समान है यह स्पष्ट ही है । अग्निकायिक और वायुकायिक जीव मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । चार जाति आदिका एक सौ पचासी सागर प्रमाण काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका निरन्तर बन्ध एक सौ पचासी सागर तक होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । औदारिकशरीर आदि तीन प्रकृतियोंका साधिक तीन पत्य तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो छोर की दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । तथा औदारिक शरीरका अनन्त काल तक निरन्तर बन्ध होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग व ब्रह्मर्षभ नाराचसंहननका साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इन दोनोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । आहारकद्विकका कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । समचतुरस्रसंस्थान आदिका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट बन्धकाल साधिक तेतीस सागर काल सम्भव है, इसलिए इसमें मध्यकी दो वृद्धियों, दो हानियों, अवस्थित और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । नीचगोत्रका अग्निकायिक और वायुकायिक जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है । इसके शेष पदोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है यह स्पष्ट ही है ।

२८०. नारिकयोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर

एदेण बीदेण भुजगारभंगो कादव्वो । णवरि असंखेज्जभागवद्धि-हाणि० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० भुजगार-अप्पदरभंगो कादव्वो । दोणिवद्धि-हाणि०-अवद्धिदस्स अवद्धिदंतरं कादव्वं । एसि अणंतभागवद्धि-हाणि० अत्थि तेसिं पगदिअंतरं कादव्वं । एवं सव्वणोरइगाणं ।

२८१. तिरिक्खेसु सव्वपगदी० भुजगारभंगो । णवरि एसिं पगदीणं अणंतभाग-वद्धि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोगल० । असंखेज्ज [भागवद्धि-हाणि० असंखेज्ज०] गुणवद्धि-हाणि० भुजगार-अप्पदरं कादव्वं । दोणिवद्धि-हाणि०-अवद्धि०

है । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारपद और अल्पतरपदके समान करना चाहिए । तथा दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका अन्तर काल भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काल करना चाहिए । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी मध्यकी दो हानि, दो वृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । इन प्रकृतियोंका शेष भङ्ग सुगम है । यहाँ छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि सम्यक्त्व प्राप्तिके प्रथम समयमें होती है । तथा इनकी अनन्त-भागहानि गिरते समय मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होती है । यतः यह अवस्था दो बार कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । यहाँ इनके शेष पदोंका तथा शेष प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी सूचना करके भी यहाँके किस पदका अन्तर काल भुजगारके किस पदके समान है इसका स्पष्ट निर्देश मूलमें ही कर दिया है । तात्पर्य यह है कि इन प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारके भुजगार और अल्पतर पदके समान है, इसलिए उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । तथा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि तथा अवस्थितपदका अन्तर काल भुजगारके अवस्थित पदके समान होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । सम्यग्दृष्टिके जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता उनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है, इसलिए विशेष ज्ञान करानेके लिए मूलमें यह कहा है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं होती उनमें प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काल जान लेना चाहिए । इसी प्रकार अपनी अपनी भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सब नरकोंमें वहाँ बँधनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तर काल ले आना चाहिए ।

२८१. तिर्यच्चोमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । असंख्यातभागवद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल भुजगार और अल्पतरके समान करना चाहिए । दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदका अन्तरकाल

भुजगारअवट्टिदंतरं कादव्वं । अवत्त० भुजगारअवत्तव्वगंतरं कादव्वं ।

२८२. सव्वपंचिदियतिरिक्खेसु सव्वपगदीणं भुजगार०भंगो । णवरि एसि अणंतभागवट्टिहाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडि-पुधत्तं० । असंखेज्जगुणवट्टिहाणि० भुजगार-अप्पदरं कादव्वं । तिण्णिवट्टिहाणि० अवट्टिदस्स अवट्टिदंतरं कादव्वं । एसि अवत्तव्वं अत्थि तेसिं अवत्तव्वंतरं कादव्वं ।

२८३. सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वपगदीणं चत्तारिवट्टि - हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एसि अवत्त० अत्थि तेसिं जह० उक्क० अंतो० ।

२८४. मणुसेसु सव्वपगदीणं भुजगारभंगो कादव्वो । णवरि विसेसो अणंत-भागवट्टिहाणि० छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पलि०

भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए । तथा अवक्तव्य पदका अन्तर भुजगारके अवक्तव्य पदके अन्तरकालके समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें यह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है । तथा तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध-पुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८२. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है । इतनी विशेषता है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल भुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तरकाल भुजगारके अवस्थित पदके समान करना चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है उनके उस पदका अन्तरकाल भुजगारके अवक्तव्य के समान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२८३. सब अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्य-पद है उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति ही अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है । तथा अवक्तव्य पदका सर्वत्र जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तसे कम नहीं बनता, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका यह पद सम्भव है उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है ।

२८४. मनुष्योंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन

पुव्वकोट्टिपुध० । सेसाणं असंखेज्जगुणवङ्कित्वाणि० भुज०-अप्प०अंतरंभंगो । तिण्णिवङ्कित्वाणि-अवट्ठि० अवट्ठिदंतरं कादव्वं । अवत्त० अवत्तव्वगंतरं कादव्वं ।

२८५. देवेषु भुजगारभंगो । णवरि एसिं अणंतभागवङ्कित्वाणि० अत्थि तेसिं पगदीणं अंतरं कादव्वं । असंखेज्जगुणवङ्कित्वाणि० भुजगार-अप्पदरंतरं कादव्वं । सेसाणं अवट्ठिदभंगो कादव्वो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं ।

२८६. सव्वएइंदिय-विगल्लिंदिय-पंचकायाणं भुजगारभंगो कादव्वो । पंचिदि०-तस०२ सव्वपगदीणं भुजगारभंगो । णवरि एसिं अणंतभागवङ्कित्वाणि० अत्थि तेसिं अंतरं सगट्ठिदि० कादव्वं । असंखेज्जगुणवङ्कित्वाणि० भुज०-अप्पदरंतरं कादव्वं । तिण्णि वङ्कित्वाणि-अवट्ठिदस्स अवट्ठिदंतरं कादव्वं । सव्वपगदीणं अवत्त० अप्पप्पणो भुजगार-अवत्त०भंगो कादव्वो ।

पल्य है । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तर भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान है । तथा अवक्तव्यपदका अन्तर भुजगारके अवक्तव्यके समान है ।

विशेषार्थ—मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमें ब्रह्म दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८५. देवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कर लेना चाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए । तथा शेष पदोंका भुजगारके अवस्थितके समान अन्तर करना चाहिए । इसी प्रकार सब देवोंमें अपना अपना अन्तर करना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें उत्कृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर है, इसलिए इनमें जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

२८६. सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनका अन्तर अपनी अपनी स्थितिके अनुसार करना चाहिए । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भुजगारके अल्पतरके समान अन्तर कर लेना चाहिए । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितका अवस्थितके समान अन्तर कर लेना चाहिए । तथा सब प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका अपने अपने भुजगारके अवक्तव्यके समान अन्तर कर लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियोंकी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है । तथा त्रसकायिक जीवोंकी

२८७. पंचपण०-पंचवचि० पंचणा० चत्वारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० गत्थि अंतरं । एवं थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-चदुआउ० सव्वाओ णामपगदीओ गोद-पंचंतरं । णवरि दोवेदणीयादिपरियत्त-माणिगाणं भुजगारभंगो कादव्वो । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० एवं चेव । णवरि अणंतभागवद्धि-हाणि० गत्थि अंतरं ।

२८८. कायजोगीसु पंचणा० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिणिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेठीए असंखेज्जदिभा० । अवत्त० गत्थि अंतरं । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि-पंचंत० णाणा०भंगो । छदंस०-बारसक०-भय-दु० णाणा०भंगो । णवरि

कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंकी कायस्थिति दो हजार सागर प्रमाण है । यहाँ इस कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाल ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

२८७. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यपदका अन्तर काल नहीं है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए । छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तर-काल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ मूलमें जो यह कहा है कि वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए सो उसका अभिप्राय इतना ही है कि भुजगार-बन्धमें इनके अवक्तव्यबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तर्मुहूर्त कहा है वह यहाँ इनके अवक्तव्यबन्धका जानना चाहिए । तथा यहाँ छह दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके निषेधका यह कारण है कि इन मार्गणाओंका काल अल्प होनेसे इनमें उक्त प्रकृतियोंकी अन्तर देकर दो बार अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

२८८. काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवर्गे भाग-प्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुसाका

अणंतभागवट्टि-हाणि० णत्थि अंतरं । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-पंचजादि-
छस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-पर० - उस्सा० - आदाउज्जो०[दोविहा०-] तस-
थावरादिदसयुगल-[णीचा०] णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० ।
पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० एवं चेव । णवरि अणंतभागवट्टि-हाणि० णत्थि अंतरं ।
दोआउ० वेउन्वियळ्ळकं० आहारदुगं० तित्थि० चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह०
एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । तिरिक्खाउ० असंखेज्जगुणवट्टि-हाणि
जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वाससहस्साणि सादि० । तिण्णि
वट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० । मणुसाउ० चत्तारिवट्टि-
हाणि-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० [जह०] अंतो०, उक्क० अणंतकालं० । तिरिक्ख-
तिरिक्खाणु०-णीचा० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा
लोगा । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग-
हानिका अन्तर काल नहीं है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच जाति, छह संस्थान,
औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-
स्थावर आदि दस युगल और नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है
कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति
और शोकका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-
भागहानिका अन्तर काल नहीं है । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी
चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तमुहूर्त है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । तिर्यञ्चायुकी असंख्यातगुणवृद्धि
और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त
है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अव-
स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । मनुष्यायुकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है,
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । तिर्यञ्च
गति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है
कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-
प्रमाण है । मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

विशेषार्थ—काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यसे
काययोग ही पाया जाता है, इसलिए इसमें पाँच ज्ञानावरणके विवक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तर-
काल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, अतः यह उक्त

२८६. ओरालियका० पंचणाणावरणादीणं असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एग०, उक्क० बावीसं वास-सहस्साणि देसू० । अवत्त० गत्थि अंतरं । एवं थीणगि० ३-मिच्छ०-अणंताणु० ४-

कालप्रमाण कहा है । काययोगमें एक बार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेके बाद पुनः उसके प्राप्त करनेमें कमसे कम भी जितना काल लगता है उस कालके भीतर यह योग बदल जाता है, इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है । स्त्यानगृद्धिन्निक आदिके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इसे ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । तथा छह दर्शनावरण आदिका भङ्ग भी ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है । पर इनके उक्त पदोंका यहाँ अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके अन्तरकालमें जितना समय लगता है उस कालके भीतर काययोग बदल जाता है । दो वेदनीय आदि प्रकृतियोंका अन्य भङ्ग तो ज्ञानावरणके ही समान है । मात्र यहाँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तर काल बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । यतः ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । पुरुषवेद आदिका सब भङ्ग सातावेदनीयके समान है, इसलिए उसे सातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु इन पाँच प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है । पर इनका इस योगमें अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । कारणका निर्देश पहले कर आये हैं । नरकायु, देवायु और वैक्रियिकषट्क आदिका बन्ध पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं और इनमें काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यके सिवा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्य-पद होता है पर एक बार इनका बन्ध प्रारम्भ होकर बन्धव्युच्छित्तिके बाद पुनः इनका बन्ध प्रारम्भ होनेमें कमसे कम जितना काल लगता है उसमें यह योग बदल जाता है, अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकालका निषेध किया है । काययोग चालू रहते हुए तिर्यञ्चायुका दो बार बन्ध होनेमें साधिक बाईस हजार वर्षका उत्कृष्ट अन्तर पड़ता है, इसलिए इसके विवक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । तथा इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि लगातार यदि कोई जीव तिर्यञ्च होता रहे तो वह तिर्यञ्चायुका बन्ध करते समय अधिकसे अधिक इतने कालतक उक्त पद न करे यह सम्भव है । मनुष्यायुका तिर्यञ्च अनन्त कालतक बन्ध न करें यह सम्भव है, इसलिए इसके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । अग्निकायिक और वायु-कायिक जीव तिर्यञ्चगतिद्विक और नीचगोत्रका उत्कृष्टसे असंख्यात लोकप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है । इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । तथा अग्निकायिक और वायुकायिक जीव मनुष्यगतिद्विकका बन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर-काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२८६. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात-गुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार स्त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-

ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत । छदंसं० बारसक० - भय - दु०
 एवं चेव । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-
 दोगदि-पंचजादि-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-
 दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगोद० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क०
 अंतो० । पंचणोको० एवं चेव । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणीणं णत्थि अंतरं । दोआउ०-
 वेउव्वियल०-आहारदुगं तित्थ० मणजोगिभंगो । दोआउ० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवट्ठि०
 जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सव्वपदाणं सत्तवाससहस्साणि सादि० ।

बन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण
 और पाँच अन्तरायका सब पदोंकी अपेक्षा अन्तरकाल जानना चाहिए । छह दर्शनावरण, बारह
 कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी
 अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, दो
 गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात,
 उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोत्रका भङ्ग ज्ञानावरण
 के समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त
 है । पाँच नोकषायका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभाग
 वृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकट्टिक और
 तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है । दो आयुकी चार वृद्धि, चार हानि और
 अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और
 सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है ।

विशेषार्थ—औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है । यहाँ

असंख्यातगुणवृद्धि आदि पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और शेषका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम
 बाईस हजार वर्षप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा इनका यहाँ
 अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर दूसरी बार इस पदके प्राप्त होनेके पहले यह योग बदल जाता है,
 इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके इस पदके अन्तरकालका निषेध किया है । आगे दूसरे दण्डकमें
 कही गई स्त्यानगृद्धिन्निक आदिके सब पदोंका भङ्ग इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसीके
 समान जाननेकी सूचना की है । तीसरे दण्डकमें कही गई छह दर्शनावरण आदिका और चौथे
 दण्डकमें कही गई दो वेदनीय आदिका भङ्ग भी इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे पाँच
 ज्ञानावरणके समान ही जाननेकी सूचना की है । साथ ही इन दो दण्डकोंमें जो विशेषता है
 उसका अलगसे निर्देश किया है । बात यह है कि छह दर्शनावरण आदिकी यहाँ अनन्तभागवृद्धि
 और अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर उनका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि पञ्चेन्द्रियोंमें
 इनके अन्तरकालकी अपेक्षा इस योगका काल छोटा है इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका निर्देश
 करके उनके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे
 उनके अवक्तव्यपदके साथ उसका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए इस विशेषताका अलगसे
 निर्देश किया है । पाँच नोकषायका अन्य सब भङ्ग तो दो वेदनीय आदिके समान बन जाता है,

१. ता०प्रतौ 'अणंताणु०४ । ओरा०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'पंचंत० छदंस०' इति पाठः ।
 ३. आ०प्रतौ 'बारसक० एव' इति पाठः ।

२६०. ओरालियमि० ध्रुविगाणं चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० [एग०],
उक्क० अंतो० । सेसाणं चत्तारिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त०
जह० उक्क० अंतो० । देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवट्टी० णत्थि अंतरं ।

२६१. वेउव्विय०-आहारका० मणजोगिभंगो । वेउव्वियमि० ध्रुविगाणं
असंखेज्जगुणवट्टी० णत्थि अंतरं । सेसाणं पि असंखेज्जगुणवट्टीणं णत्थि
अंतरं । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवरि मिच्छ० अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं
आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० । णवरि एदाणं अवत्त० णत्थि अंतरं ।

क्योंकि ये भी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उसे दो वेदनीय आदिके समान जाननेकी सूचना की है। पर इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है। नरकायु, देवायु और वैक्रियिकषट्क आदिका बन्ध पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है, इसलिए उत्कृष्ट त्रिभागका ख्यालकर यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक सात हजार वर्ष कहा है।

२६०. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—जिन औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है उनके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए यहाँ इसके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२६१. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंकी भी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—पर्याप्त योगोंको छोड़कर शेष योगोंमें उत्तरोत्तर वृद्धिगत योगस्थान होता है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक मात्र असंख्यातगुणवृद्धि होनेसे उसके अन्तरकालका निषेध किया है। पर जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल केवल वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें ही बनता है, इसलिए वहाँ उसका विधान कर अन्यत्र निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२६२. इत्थिवेदोसु पंचणा० असंखेज्जगुणवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० पल्लिदोवमसदपुधत्तं । एवं पंचंत० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०-४ असंखेज्ज[गुण]वड्डि-हाणि०^१ जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पल्लिदो० देसू० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायड्डिदी० । णिदा-पयला-भय-दुगुं० णाणा०भंगो । णवरि अणंत-भागवड्डि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० कायड्डिदी० । अवत्त० णत्थि अंतरं । चदुदस०-चदुसंज० एवं चेव । णवरि अवत्त० णत्थि । दोवेदणी०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्टकसा० असंखेज्जगुणवड्डि-हाणी०^२ जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडि० देसूणं । सेसाणं थीणगिद्विभंगो । णवरि अणंत-भागवड्डि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० कायड्डिदी० । इत्थि०-णवुंस० असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पल्लिदो० देसू० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० कायड्डिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पल्लिदो० देसू० । तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंध०-तिरिक्खाणु०-आदाउजो०-अप्पसत्थ०-

२६२. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्यपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानु-बन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । निद्रा, प्रचला, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । चार दर्शनावरण और चार संवृत्तनका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है । दो वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग स्थानगृद्धिके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है । तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत,

१. आ०प्रतौ, असंखेज्ज वड्डि हाणि' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'अट्टकस (सा०) असंखेज्जगुणवड्डि हाणि०' आ०प्रतौ 'अट्टकसा० संखेज्जगुणवड्डि-हाणि' इति पाठः ।

थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० इत्थि०भंगो । पुरिस० णिहाए भंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । एवं हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं । णवरि अवत्त० साद०भंगो । णिरयाउ० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० पगदि-अंतरं कादव्वं । [दो] आउ० चत्तारिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्ठिदी० । देवाउ० असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अट्ठावण्णं पलिदो० पुव्वकोट्ठिपुधत्तं । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । दोगदि-तिण्णिजादि-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-दोआणु०-सुहुम०-अपज्जत्त-साधारणं असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सणट्ठिदी० । मणुसगदि०४ असंखेज्जगुणवट्ठि-हाणी० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपलि० देसू० । तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० कायट्ठिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसू० । एवं ओरालि० । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० सादि० । पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्सर-

अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । पुरुषवेदका भङ्ग निद्राके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है । नरकायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका प्रकृति-बन्धके समान अन्तरकाल करना चाहिए । दो आयुकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक अट्ठावन पल्य है । तथा इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । दो गति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । मनुष्यगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है । इसी प्रकार औदारिकशरीरका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस,

आदे०-उच्चा० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० मणुसगदिभंगो । आहारदुगं चत्तारिवद्धि-
हाणि-अवद्धि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायट्टिदी० । पर०-उस्सा०-
बादर-पज्ज०-पत्तेय० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवद्धि-
हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सगट्टिदी० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवणं
पलिदो० सादिरे० । तित्थ० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । अवत्त० णत्थि अंतरं ।
[ध्रुवियाणं सेसाणं भुजगारभंगो ।]

सुभग,सुस्वर,आदेय और उच्चगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनीविशेषता है कि इनके अव-
क्तव्यपदका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है । आहारकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका
उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येककी असंख्यात-
गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।
तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी
स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक
पचवन पत्य है । तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवक्तव्य-
पदका अन्तरकाल नहीं है । ध्रुवबन्धवाली शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेदी जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पत्यपृथक्त्व प्रमाण है, इसलिए यहाँ
पाँच ज्ञानावरणके विवक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । पाँच अन्तरायोगका
भङ्ग पाँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए उनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा
है । स्त्रीवेदी जीवोंमें स्त्यानगृह्णिक आदिका कुछ कम पचवन पत्य तक बन्ध न हो यह सम्भव
है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त
कालप्रमाण कहा है । तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।
निद्रादिक चार प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह भी स्पष्ट ही है । मात्र इनकी यहाँ
अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके साथ उनका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए उसका
अलगसे उल्लेख किया है । स्त्रीवेदी जीवके अन्तर्मुहूर्त कालमें दो बार सम्यक्त्वपूर्वक मिथ्यात्वकी
प्राप्ति सम्भव है इसलिए तो यहाँ उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और यह विधि
कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसलिए इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर
कायस्थितिप्रमाण कहा है । निद्रादिकका अवक्तव्यपद उतरते समय आठवें गुणस्थानमें सम्भव है
पर स्त्रीवेदी जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ते समय नौवें गुणस्थानमें अपगतवेदी हो जाता है, इसलिए
स्त्रीवेदके रहते हुए उपशमश्रेणिका चढ़ना और उतरना सम्भव न होनेसे यहाँ इनके अवक्तव्यपदके
अन्तरकालका निषेध किया है । चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका अन्य सब भङ्ग निद्रादिक
के समान बन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन आठ प्रकृतियोंका
अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय दसवें गुणस्थानमें होता है पर ऐसा जीव स्त्रीवेदी नहीं
होता, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका निषेध किया है । दो वेदनीय आदिका अन्य सब भङ्ग
ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । पर परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे यहाँ इनका अवक्तव्यपद

और उसका अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए उसे अलगसे कहा है। आठ कषायोंका यहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग स्यान्-गृद्धिके समान है यह स्पष्ट ही है। पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये दो पद तथा उनका अन्तरकाल सम्भव होनेसे इसका अलगसे उल्लेख किया है। इनके उक्त दोनों पदोंके अन्तरकालका खुलासा निद्रादिकके इन्हीं पदोंके अन्तरकालके समान कर लेना चाहिए। स्वामित्वकी विशेषता अलगसे जान लेनी चाहिए। सम्यग्दृष्टिके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सम्यग्दृष्टि जीवके तिर्यञ्चगति आदिका भी बन्ध नहीं होता, इसलिए इनका भङ्ग स्त्रीवेदके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदका अन्य सब भङ्ग निद्राके समान बन जाता है पर इसके अवक्तव्यपदका यहाँ अन्तरकाल सम्भव होनेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है। पुरुषवेदके इस पदके अन्तरकालका खुलासा स्पष्ट ही है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके एकमात्र पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। हास्य आदि चार प्रकृतियोंका अन्य सब भङ्ग तो पुरुषवेदके ही समान है फरक केवल अवक्तव्य पदके अन्तरकालमें है। बात यह है कि एक तो ये सप्रतपिक्ष प्रकृतियाँ हैं और दूसरे सम्यग्दृष्टिके भी इनका बन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। नरकायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर करना चाहिए यह सामान्य कथन है। विशेषरूपसे इसकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके सब पद कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। अद्वावन पल्य और पूर्वकोटिपृथक्त्वके आदिमें और अन्तमें देवायुका बन्ध हो यह सम्भव है, क्योंकि जो जीव पचवन पल्यकी देवायु बाँधकर देवियोंमें उत्पन्न होता है। पुनः वहाँसे च्युत होकर और पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्यके अन्तमें पुनः देवायुका बन्ध करता है उसके दो बार देवायुका बन्ध होनेसे उक्त कालप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त-कालप्रमाण कहा है। तथा शेष पद कायस्थितिके आदिमें और मध्यमें देवायुका बन्ध करते समय हों और मध्यमें न हों यह सम्भव है, इसलिए इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। स्त्रीवेदी जीवोंके दो गति आदि प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक साधिक पचवन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। स्त्रीवेदी जीवोंके मनुष्यगति आदिका अधिकसे अधिक कुछ कम तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनका देवियोंमें सम्यक्त्वदशामें कुछ कम पचवन पल्य तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इस कालके आगे पीछे अवक्तव्यपद करानेसे अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। औदारिकशरीरका भङ्ग इसी प्रकार है। मात्र देवीके

२६३. पुरिसेसु^१ पंचणा० असंखेज्जगुणवृद्धि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसदपुध० । एवं पंचंत० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ एकवृद्धि-हाणी० जह० एग०, उक्क० वेखावट्ठि० देसू० । तिण्णिवृद्धि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी० । णिहा-पयला० अणंतभागवृद्धि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगट्ठिदी० । सेसपदा० आभिणि० भंगो । एवं भय-दु० । चदुदंस०-चदुसंज० एवं चेव । णवरि अवत्त० णत्थि ।

इस प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है । पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद सम्भव है जो कि मनुष्यगतिके समान प्राप्त होता है, इसलिए उसका भङ्ग मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है । आहारकद्विकके सब पद कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है । परघात आदि ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और इनका मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि सबके बन्ध सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तथा सम्यग्दृष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है और आगे पीछे भी इनका बन्ध सम्भव है इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है । इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । तीर्थङ्कर-प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ होनेपर उसकी अबन्धक दशा इतनी नहीं प्राप्त होती जिससे उसकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्तसे अधिक बन सके अतः इसके इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है । तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें कुछ कम एक पूर्व-कोटि कालतक ही इसका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके सिवा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कालप्रमाण कहा है । उपशमश्रेणियोंमें नौवेके आगे जीवके स्त्रीवेद नहीं रहता, अतः स्त्रीवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

२६३. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपुक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार पाँच अन्तरायका भङ्ग जानना चाहिए । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । निद्रा और प्रचलाकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष पदोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार भय और जुगुप्साका भङ्ग समझना चाहिए । चार दर्शनावरण

१. ता०आ०प्रत्योः अवत्त० णत्थि अंतरं इत्यतः पश्चात् पुरिसेसु इतः प्राक् 'पुरिसेसु पंचणाणा० असंखेज्जगुणवृद्धिहाणि० ज० ए० उक्क० अंतो० । तिण्णिवृद्धिहाणिअवट्ठि० ज० ए० उ० सगट्ठिदी० अवत्त० ज० अतो० उ० पणवणं पलि० सादि० । तिथ्थ० असंखेज्जगुणवृद्धिहाणि ज० ए० उ० अंतो० । तिण्णिवृद्धि-हाणिअवट्ठि० ज० ए० उ० पुव्वकोडिदे० अवत्त० णत्थि अतरं । इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ।

दोवेदणी०-थिरादितिणियुग० गाणा०भंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । अट्टक० ओघं । णवरि सगट्टिदी० । इत्थि० थीणगिट्ठिभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेछावट्टि० देसू० । एदेण कमेण भुजगारभंगो सव्वाणं । णवरि असंखेज्ज-गुणवट्टि-हाणी० [भुज०-अप्पदरभंगो । तिणिवट्टि-तिणिहाणि-अवट्टिद०] अवट्टि० दभंगो । अवत्त० अप्पप्पणो अवत्त०भंगो ।

और चार संज्वलनका भङ्ग भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है। दो वेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कषायोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए। स्त्रीवेदका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है। इस क्रमसे सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारपदके समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारके अल्पतरपदके समान करना चाहिये। तीन वृद्धि, तीन हानि, और अवस्थितपदका भङ्ग भुजगारके अवस्थितपदके समान करना चाहिए। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग अपने अपने अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए।

विशेषार्थ—एक तो पाँच ज्ञानावरण ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। दूसरे पुरुषवेदी जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण कहा है। पाँच अन्तरायका भङ्ग इसी प्रकार है, इसलिए उसे पाँच ज्ञाना-वरणके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदी जीवके कुछ कम दो छथासठ सागर काल तक स्त्यानगृद्धिप्रिक आदिका बन्धन करे यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। निद्राद्विककी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणहानि और अवक्तव्यपद अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है और अपनी कायस्थितिके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। निद्राद्विकके समान भय और जुगुप्साका भी भङ्ग होता है, इसलिए इसे निद्राद्विकके समान जाननेकी सूचना की है। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका अन्य सब भङ्ग तो निद्राद्विकके ही समान है। मात्र इन प्रकृतियोंका पुरुषवेदी जीवके अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, क्योंकि निद्राद्विक, भय और जुगुप्साकी बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणमें होती है, इसलिए इन जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय कराके और पुनः अन्तर्मुहूर्तमें उपशमश्रेणिपर चढ़ाकर अपूर्वकरणमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न होनेपर पुनः अवक्तव्यबन्ध करानेसे यहाँ इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद भी बन जाता है और उसका अन्तर काल भी घटित हो जाता है। यह क्रिया यदि अन्तर्मुहूर्तके भीतर कराते हैं तो अन्तर्मुहूर्त अन्तर काल आ जाता है और कायस्थितिके प्रारम्भमें एक बार अवक्तव्यपद तथा कायस्थितिके अन्तमें दूसरी बार अवक्तव्यपद करानेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरकाल आ जाता है। पर चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति अपगतवेदी होनेपर होती है, इसलिए पुरुषवेदीके उनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। दो वेदनीय आदि

२६४. णवुंसगवेदेसु सव्वपगदीणं भुजगारभंगो । क्रोधादि०४- मदि-सुद-विभंग० भुजगारभंगो ।

२६५. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणाणा० - णिहा-पयला-पुरिस०-भय-दुगुं०- पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०- णिमि०-उच्चा०-पंचंत० असंखेज्जगुणवृद्धि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णि- वृद्धि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावट्ठिसाग० सादि० ।

सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। आठ कषायोंका भङ्ग ओषधके समान यहाँ बन जाता है पर अपनी कायस्थिति कालतक ही पुरुषवेद रहता है, इसलिए जिन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पुरुषवेदकी कायस्थितिसे अधिक कहा है वह पुरुषवेदकी कायस्थितिप्रमाण है इस बातका ज्ञान करानेके लिए उसकी अलगसे सूचना की है। पुरुषवेदी जीवके स्त्रीवेदका बन्ध कुछ कम दो छयासठ सागर कालतक न हो यह सम्भव है, क्योंकि इसके बाद यदि जीव मिथ्यात्वमें आता है तो उसका बन्ध नियमसे होने लगता है, इसलिए यहाँ अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदका शेष भङ्ग स्थानगुद्धित्रिकके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ तक कुछ प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अलग-अलग अन्तरकाल कहा है। इनके सिवा जो प्रकृतियाँ रह जाती हैं उनका अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित हो जाता है। मात्र यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगार और अल्पतरपदके समान प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होनेपर जैसे उसके भुजगार और अल्पतरका नियम है उसी प्रकार असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भी नियम है। तथा जिस प्रकार भुजगारके अवस्थितपदका नियम है उसी प्रकार यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका नियम है। तथा जिस प्रकार भुजगारके अवक्तव्यपदका नियम है उसी प्रकार यहाँ भी अवक्तव्यपदका नियम है, इसलिए यहाँ अनुयोगद्वारके समान जाननेकी सूचना करके इन विशेषताओंका अलगसे उल्लेख किया है।

२६४. नपुंसकवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है। क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—पूर्व पुरुषवेदी जीवोंमें असंख्यातगुणवृद्धि आदि किन पदोंका भुजगार अनुयोगद्वारके किन पदोंके साथ साम्य है इस बातको जानकर यहाँ सब प्रकृतियोंका इन मार्ग-णाओंमें कहे गये भुजगार अनुयोगद्वारके समान अन्तरकाल घटित हो जाता है, इसलिए उसे भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है।

२६५. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है

१. ता०प्रतौ 'णवुंसके (ग) वेदेसु' इति पाठः ।

चदुदंस०-चदुसंज० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०,
 उक्क० छावट्टि० सादि० । साद०दंडओ णाणा०भंगो । णवरि अवत्तः जह० उक्क०
 अंतो० । अपच्चक्खाण०४ एकवद्धि-हाणी० ओघं । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवट्टि० णाणा०-
 भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । एवं पच्चक्खाण०४ । णवरि
 अणंतभागवद्धि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० छावट्टिसाग० सादि० । मणुसाउ० असंखेज्ज-
 गुणवद्धि-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।
 तिण्णिवद्धि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० छावट्टि० सादि० । एवं देवाउ० । णवरि
 छावट्टिसागरो० देसू० । मणुसगदिपंचगस्स असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी० जह० एग०,
 उक्क० पुव्वकोडी सादि० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० छावट्टि०
 सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४ असंखेज्जगुणवद्धि-
 हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । तिण्णिवद्धि-
 हाणि-अवट्टि० जह० एग०, उक्क० छावट्टिसाग० सादि० । एवं आहारदुगं ।
 तित्थ० ओघं ।

और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इस दण्डकके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका भङ्ग ओघके समान है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । मनुष्यायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार देवायुका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम छयासठ सागर कहना चाहिए । मनुष्यगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । देव-गतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । इसी प्रकार आहारकद्विकका भङ्ग जानना चाहिए । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है ।

विशेषार्थ—आभिनिबोधिकज्ञानो आदि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका केवल उपशम-श्रेणिमें ही बन्धका अन्तर पड़ता है, वैसे अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्ति तक उनका निरन्तर बन्ध होता रहता है। उपशमश्रेणिमें भी अन्तर होकर वह अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं होता, इसलिए यहाँ इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा यहाँ इनका साधिक छयासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, अतः इतने कालका अन्तर देकर इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़ाकर और दो बार अवक्तव्यबन्ध कराकर ले आना चाहिए। चार दर्शनावरण और चार संज्ञरत्नका अन्य सब भङ्ग ज्ञानावरणके समान है पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं इसलिए इनके अवक्तव्यपदके साथ उक्त पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। सातावेदनीयदण्डकमें सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है। शेष भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुछ कम एक पूर्व कोटि तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान बन जानेसे वह ओघके समान कहा है। इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका अवक्तव्य पद अन्तर्मुहूर्तमें भी दो बार सम्भव है और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी दो बार सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सब भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके समान बन जानेसे उसके समान कहा है। मात्र यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदों का अन्तरकाल अलगसे कहा है। चौथेसे पाँचवेंमें जानेपर अनन्तभागवृद्धि होती है और पाँचवेंसे चौथेमें आनेपर अनन्तभागहानि होती है। दो बार यह क्रिया अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे भी सम्भव है और साधिक छयासठ सागरके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त दो पदों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ मनुष्यायुका दो बार बन्ध होनेमें साधिक तेतीस सागरका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा आभिनिबोधिकज्ञानी आदि जीवोंके साधिक छयासठ सागर कालके भीतर अपने बन्धकालके योग्य समयके प्राप्त होने पर कई बार मनुष्यायु का बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ आरम्भमें और अन्तमें आयुबन्धके समय विवक्षित पद कराके उसका अन्तर ले आना चाहिए। सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिए। देवायुका भङ्ग इसी प्रकार है। विशेष बात इतनी है कि यहाँ कुछ कम छयासठ सागरके भीतर ही यथासम्भव देवायुका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर कहा है। यहाँ मनुष्यगतिपञ्चकका एक पूर्वकोटि कालतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। इन मार्गणाओंका उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर कहा है। तथा तेतीस सागरकी आयुवाले विजयादिकके देवने भवके प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद किया। पुनः तेतीस

२६६. मणपञ्जव०-संजदा० भुजगारभंगो । णवरि अणंतभागवद्धि-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० ।

२६७. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० मणपञ्जव०-भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । सेसाणं मणपञ्जव०भंगो । तिण्णिसंज०-देवगदिअट्टावीसं सव्वपदा णाणाभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । परिहार० भुजगारभंगो । सुहुमसंप० सव्वपगदीणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । संजदासंजद०

सागर काल तक इनका निरन्तर बन्ध करता रहा । पुनः एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर इनका अबन्धक हो गया और दूसरी बार देव होनेपर भवके प्रथम समयमें पुनः इनका अवक्तव्य बन्ध किया । इस प्रकार इनके अवक्तव्यबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा सप्रतिपक्ष प्रकृतियों होनेसे इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता । देवपर्यायमें तो होता ही नहीं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मनुष्य पर्यायमें यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक सम्यक्त्व रखनेके पूर्व मिथ्यात्वमें इनका अवक्तव्यपद कराकर यह अन्तर लावे । इन मार्गणाओका उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । आहारकट्टिकका भङ्ग इसी प्रकार प्राप्त होने से उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है । ओघमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकाल इन्हीं मार्गणाओंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

२६६. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

विशेषार्थ—यहाँ चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है । तथा इनके ये पद अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है, क्योंकि अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर आरोहण कराने और उतारनेसे अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे ये दोनों पद बन जाते हैं, इस लिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है और प्रारम्भमें व अन्तमें उपशम-श्रेणिपर आरोहण करानेसे और उतारनेसे कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे भी ये पद बन जाते हैं, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

२६७. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोभसंज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर इनका अवक्तव्यपद नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है । तीन संज्वलन और देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है । सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय

परिहार०भंगो । असंजद-चक्खु०-अचक्खु० ओघं । ओधिदं०^१ ओधिणा०भंगो ।

२६८. किण्णाए पंचणा० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु-उप०-णिमि०-पंचंत०
असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह०
एग०, उक्क० तेत्तीसं सादि० । एवं सव्वपगदीणं भुजगारभंगो । णवरि दोआउ०-दोगदि-
चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरादि०४-तित्थ० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अवत्त० णत्थि अंतरं । ओरा०-ओरा०अंगो० एकवड्डि-हाणि० जह०
एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं देसु० ।
अवत्त० णत्थि अंतरं । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ एकवड्डि-हाणि० जह० एग०,

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है । असंयत, चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौवै गुणस्थान तक होते हैं, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध किया है । तथा यहाँ तीन संज्वलन और देवगति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद तो होता है, क्योंकि इन मार्गणाओंके कालके भीतर ही इनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए लौटते समय इनका अवक्तव्यपद बन जाता है । पर इन मार्गणाओंके कालके भीतर दो बार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । इन मार्गणाओंमें शेष कथन स्पष्ट ही है । परिहारविशुद्धिसंयत छठे और सातवें गुणस्थानमें होता है, इसलिए भुजगार अनुयोगद्वारासे यहाँ कोई विशेषता नहीं आती, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है । सूक्ष्मसाम्परायसंयतका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके यहाँ सम्भव सब पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है । यहाँ जिन मार्गणाओंमें जिनके समान जाननेकी सूचना की है वह स्पष्ट ही है, इसलिए उस विषयमें विशेष नहीं लिखा जाता है ।

२६८. कृष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका भुजगार अनुयोगद्वाराके समान भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो आयु, दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । औदारिकशरीर और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, और त्रसचतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर

१. आ०प्रतौ 'अचक्खु० ओधिदं०' इति पाठः ।

उक्त० अंतो० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्त० तेत्तीस० सादि० । अवत्त० गत्थि अंतरं । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिवद्धि-तिण्णिहाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्त० अंतो० । असंखेज्जगुणवद्धि-हाणि० जह० एग०, उक्त० वावीसं० सादि० । अवत्त० भुजगारभंगो । एवं णील-काऊणं । णवरि काउए तित्थ० णिरयभंगो । तिण्णि लेस्साणं एसिं अणंतभागवद्धि-हाणी अत्थि तेसिं अंतरं जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरो० देसु० । सेसाणं भुजगारभंगो ।

अन्तमुर्हूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । वैक्रियिक-शरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर है । इनके अवक्तव्यबन्धका भङ्ग भुजगारके समान है । इसी प्रकार नीललेश्या और कापोतलेश्यामें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान है । तीन लेश्याओमें जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोका जघन्य अन्तर अन्तमुर्हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है । शेष पदोंका भङ्ग भुजगारके समान है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण आदि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी असंख्यात-गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुर्हूर्त बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । तथा इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । इस प्रकार यद्यपि भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अलगसे उसके निर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी कुछ प्रकृतियोंमें विशेषताका ज्ञान करानेके लिए मूलमें उनके विषयमें अलगसे सूचना की है । यथा—मनुष्यों और तिर्यञ्चोंमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तमुर्हूर्त है, इसलिए यहाँ नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदको छोड़कर सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त कहा है । यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है, पर इनके दूसरी बार अवक्तव्यपदके प्राप्त होने तक लेश्या बदल जाती है, इसलिए इस लेश्यामें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य-पदके अन्तरकालका निषेध किया है । नरकमें औदारिकशरीरद्विकका निरन्तर बन्ध होता रहता है और तिर्यञ्चों व मनुष्योंमें यथासम्भव ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुर्हूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । नरकमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसके प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त दोनों प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद हों तथा मध्यमें न हों यह सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । नरकमें तो इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, तिर्यञ्चों और मनुष्योंके सम्भव है पर इन जीवोंके इस लेश्याके कालमें दो बार अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः यहाँ इनके अवक्तव्यपदके

२६६. तेऊए पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पञ्जत्त-पत्ते०-णिमि०-
पंचंत० एकवट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवट्टि-हाणि-अवट्टि० जह०
एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । एसिं अणंत० वट्टि-हाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०,
उक्क० बेसाग० सादि० । देवगदि०४ तिण्णिवट्टि-चत्तारिहाणि-अवट्टि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । असंखेज्जगुणवट्टी० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । ओरालि०

अन्तरकालका निषेध किया है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि एक तो सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं। दूसरे इनका निरन्तर बन्ध भी सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा नरकमें व वहाँ जानेके पूर्व और बादमें अन्तर्मुहूर्त कालतक इनका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनकी आदि और अन्तमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका प्राप्त होना सम्भव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके भी अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं होता इसका खुलासा पूर्वके समान जानकर कर लेना चाहिए। तीर्थञ्च और मनुष्य वैक्रियिकद्विकका बन्ध करते हैं और इनके कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अब एक ऐसा जीव लो जिसने नरकमें जानेके पूर्व इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की। बादमें वह छटे नरकमें उत्पन्न हुआ। सातवमें तो इसलिए नहीं उत्पन्न कराया है कि वहाँसे निकलनेके बाद भी वह अन्तर्मुहूर्त कालतक औदारिकद्विकका ही बन्ध करता है और उसके बाद लेश्या बदल जाती है। परन्तु छटे नरकके लिए ऐसा नियम इसलिए नहीं है, क्योंकि वहाँसे सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं और ऐसे जीवोंके यहाँ उत्पन्न होनेपर प्रथम समयसे ही इस लेश्याके रहते हुए वैक्रियिकद्विकका बन्ध होने लगता है। यतः प्रारम्भमें अवक्तव्यपद होकर असंख्यातगुणवृद्धि और अन्तमें परिमाणयोगस्थान होनेपर असंख्यातगुणहानि होती है। इसके बाद लेश्या बदल जाती है, इसलिए यहाँ इन दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर कहा है। इनके भुजगार अनुयोगद्वारमें अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर प्राप्त होता है। वह वहाँ भी बन जाता है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका भङ्ग भुजगारके समान कहा है। इसी प्रकार नील और कापोतलेश्यामें अपने अपने कालके अनुसार यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें कृष्णलेश्याके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र कापोतलेश्यामें तीर्थञ्च प्रकृतिका भङ्ग नारकियोंके समान बन जानेसे उसमें इसके सम्बन्धमें नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। इन तीन लेश्याओंमें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं उन प्रकृतियोंके इन पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्वारके समान है यह स्पष्ट ही है।

२६६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुण-वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। औदारिकशरीरकः

णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं एदेण सच्चम्ममाणं भुजगारभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि एसिं अणंतभागवद्धि-हाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० अट्टारस सागरो० सादि० । देवगदि०४ असंखेज्जगुणवद्धी० जह० एग०, उक्क० अट्टारस साग० सादि० । ओरालि०अंगो० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णत्थि अंतरं ।

भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार इस विधिसे सब कर्मोंका भङ्ग भुजगारके समान है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—पीत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी एक वृद्धि और एक हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । तथा इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है, अतः यहाँ इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । इस लेश्यामें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है उनका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर बन जाता है, इसलिए यह उक्त कालप्रमाण कहा है । इन पदोंके अन्तरकालका खुलासा पहले अनेक बार कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । मात्र पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी उस कालके भीतर प्राप्त किया जा सकता है इस बातको ध्यानमें रखकर उक्तप्रमाण कहा है । देवगतिचतुष्कका बन्ध तिर्यञ्च और मनुष्य करते हैं और इनके पीतलेश्याका काल अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा किसी जीवने देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्व इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की और वहाँसे आकर पुनः मनुष्योंमें इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की यह सम्भव है, क्योंकि देवोंमें से आनेके बाद औदारिकमिश्रकाययोगमें इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है और देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्व भी यह सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है औदारिकशरीरका बन्ध तिर्यञ्चों और मनुष्योंके भी होता है और देवोंमें यह ध्रुवबन्धिनी है, इसलिए इसका भङ्ग ज्ञानावरण के समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इसका अवक्तव्यपद या तो देवोंके प्रथम समयमें सम्भव है या तिर्यञ्चों और मनुष्योंके सम्भव है । पर इस लेश्याके रहते हुए यह पद दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तरकालका निषेध किया है । इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल कहा है उसे ध्यानमें रखकर शेष प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए यहाँ शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान घटित कर लेनेकी सूचना की है । पद्मलेश्यामें भी इसी विधिसे अन्तरकाल ले आना चाहिए मात्र इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक अठारह सागर है इसलिए इस कालको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए । यही कारण है कि यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है । तथा यहाँ एकेद्रियजातिसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध न होनेके कारण देवोंमें औदारिकआङ्गो-

३००. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०क०-वण्ण०-
 ४-अगु०४-तसु०४-णिमि०-पंचंत० एकवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
 तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवत्त० णत्थि
 अंतरं । एसिं अणंतभागवड्डि-हाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं० देसु० ।
 मणुसगदि०४ धुविगाण भंगो । णवरि तेत्तीसं० देसु० । देवगदि०४ असंखेज्जगुणवड्डि०
 जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । सेसपदाणं जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त०
 जह० अट्टारससाग० सादि०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । एवं० भुजगारभंगो कादव्वो ।

पाङ्ग भी ध्रुवबन्धिनी प्रकृति हो जाती है, अतः इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु यहाँ औदारिक आङ्गोपाङ्गका अवक्तव्यपद भी सम्भव है, पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तर-कालका निषेध किया है । खुलासा पहले औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध करते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए ।

३००. शुक्लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । मनुष्यगतिचतुष्कका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इनके शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक अटारह सागर है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इस प्रकार भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग करना चाहिए ।

विशेषार्थ—शुक्लेश्यामें उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके बादके कालको छोड़कर पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध होता रहता है । इसलिए यहाँ इनकी एक वृद्धि और एक हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । तथा इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । यह सम्भव है कि इसके कालके प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद हों तथा मध्यमें न हों, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । यहाँ उपशम-श्रेणिसे उतरते समय यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है पर इस लेश्याके उसी कालमें दूसरी बार उपशमश्रेणिपर चढ़ना और उतरना सम्भव नहीं है, क्योंकि उपशमश्रेणिसे उतरकर सातवें गुणस्थानमें आनेपर लेश्या बदल जाती है । इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, अतः उसका निषेध किया है । यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त तो पूर्ववत् घटित कर लेना चाहिए । पर उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम इकतीस सागर बतलाया

३०१. भवसि०-अभवसि०-सम्मा०-खड्ग०-वेदग० भुजगारभंगो । णवरि
अणंतभागवद्धि-हाणि०अंतरं ओधि०भंगो । अप्पप्पणो द्विदी कादव्वं ।

३०२. उवसम० चदुदंस०-चदुसंज० चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०,
उक्क० अंतो० । अणंतभागवद्धि-हाणि-अवत्त० णत्थि अंतरं । पच्चक्खण०४ अणंत-
भागवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं भुजगारभंगो । सासण०-

है उसका कारण यह है कि इकतीस सागरसे अधिक स्थितिवाले देव नियमसे सम्यग्दृष्टि होते हैं और ऐसे देवोंके उक्त प्रकृतियोंके उक्त दोनों पद नहीं बनते । अतः यहाँ इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । एक मनुष्यने उपशमश्रेणिपर आरोहण करते समय देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि की । उसके बाद उतरते समय इनका अवक्तव्यबन्ध किया और मरकर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव हो गया । पुनः वहाँसे च्युत होकर प्रथम समयमें अवक्तव्यबन्ध करके द्वितीय समयमें असंख्यातगुणवृद्धि की । इस प्रकार इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इनके शेष पद तिर्यश्चों और मनुष्योंमें होते हैं और वहाँ इस लेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । अब रहा एक अवक्तव्यपद सो मनुष्योंमें इनका अवक्तव्यपद करावे । बादमें देवोंमें उत्पन्न करावे और वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होनेपर पुनः अवक्तव्यपद करावे और अन्तरकाल ले आवे । यतः यहाँ इस प्रकार दो बार अवक्तव्यपद प्राप्त करनेमें कमसे कम साधिक अठारह सागर और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल लगता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य अन्तरकाल साधिक अठारह सागर और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है । इस प्रकार यहाँ तक जो अन्तरकाल कहा है उसके आगे शेष प्रकृतियोंका उनके अपने अपने पदोंके अनुसार अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वार को लक्ष्यमें रखकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उसे भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है ।

३०१. भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तर अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । मात्र सर्वत्र अपनी-अपनी स्थिति करनी चाहिए । अर्थात् जिस मार्गणाका जो उत्कृष्ट काल है उसे जानकर उत्कृष्ट अन्तरकाल लाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ अभव्य मार्गणामें किसी भी प्रकृतिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानि सम्भव नहीं है । शेषमें सम्भव है सो अवधिज्ञानमार्गणाके अनुसार वह घटित कर लेना चाहिए । पर जिसकी जो कायस्थिति हो उसे जानकर घटित करना चाहिए । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि भव्य मार्गणामें मिथ्यात्वादि सब गुणस्थान सम्भव हैं, इसलिए इसमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका भङ्ग ओघके समान बन जाता है ।

३०२. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनन्त-भागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

सम्मामि० - मिच्छादि० - सण्णि-असण्णि - आहारका० - अणाहार ति भुजगारभंगो कादव्वो । .

एवं अंतरं समत्तं । .

णाणाजीवेहि भंगविचओ

३०३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णियमा अत्थि । अवत्तव्वगा भयणिज्जा^१ । तिण्णि भंगो । तिण्णिआउगाणं सव्वपदा भयणिज्जा । वेउव्वियल्लक्कं आहारदुगं तिथि० असंखेज्जगुणवद्धि-हाणी० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा णियमा अत्थि । णवरि छदंस०-चारसक०-सत्तणोक० चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० णियमा अत्थि । अणंतभागवद्धि-हाणिवंधगा भयणिज्जाणि । ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालिका० - ओरालि० मि० - णवुंसग०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें चार दर्शनावरण और चार संव्वलनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्य पद तो सम्भव हैं पर ये पद यहाँ दो बार नहीं हो सकते, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र उपशमसम्यक्त्वके कालमें संयमासंयम और संयमकी दो बार प्राप्ति और दो बार च्युति सम्भव है, इसलिए यहाँ प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद दो बार बन जानेसे उनका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय

३०३. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भङ्गविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, काम्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भजनीय है । भङ्ग तीन होते हैं । तीन आयुओंके सब पद भजनीय हैं । वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानि नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । शेष प्रकृतियोंके सब पद नियमसे हैं । इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद नियमसे हैं । अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव भजनीय हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय-

१. आ०प्रतौ 'अवत्तव्वगा य भयणिज्जा' इति पाठः ।

तिणिणले०-भवसि०-अभवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहारग ति । णवरि ओरालि०मि०
देवगदिपंचगस्स असंखेज्जगुणवड्ढिबंधगा भयणिज्जा । एवं कम्मइ०-अणाहारगेसु ।

योगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव भजनीय हैं । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव अनन्त हैं । इन प्रकृतियोंका उक्त पदोंके साथ नाना जीव निरन्तर बन्ध करते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके बन्धक जीव नियमसे हैं यह कहा है । किन्तु इनमेंसे बहुतसी प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें प्राप्त होता है । स्त्यानगृद्धिद्विक और अनन्तानु-बन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद उपशम सम्यग्दृष्टिके सासादनमें या मिथ्यात्वमें आनेपर प्राप्त होता है । मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद उपरिम गुणस्थानवालोके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर होता है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद पञ्चमादि गुणस्थानवाले जीवोंके नीचेके गुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर होता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद संयत जीवोंके पञ्चमादि गुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर होता है और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद असंज्ञी आदि जीवोंके इसके बन्धके प्रथम समयमें प्राप्त होता है । यतः ऐसे जीव जो इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद कर रहे हैं सर्वदा नहीं पाये जाते, अतः इस पदवाले भजनीय कहे हैं । उसमे भी उक्त प्रकृतियोंका इस पदवाला कभी एक भी जीव नहीं होता, कभी एक जीव होता है और कभी नाना जीव होते हैं, इसलिए इस पदवाले जीवोंकी अपेक्षा तीन भङ्ग कहे हैं । नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके बन्धवाले जीव ही जब सर्वदा नहीं पाये जाते ऐसी अवस्थामें इसके सब पदवाले जीव सर्वदा पाये जावेंगे यह सम्भव ही नहीं है, इसलिए इनके सब पद भजनीय कहे हैं । वैक्रियिक-षट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं यह स्पष्ट ही है । उसमें भी बहुलतासे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि ही होती हैं, इसलिए इनका नैरन्तर्य सम्भव होनेसे इनके ये पद नियमसे हैं यह कहा है । तथा इनके शेष पदोंके विषयमें यह स्थिति नहीं है, इसलिए उन्हें भजनीय कहा है । शेष प्रकृतियोंका सब पदोंकी अपेक्षा नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए उनके सब पदवाले जीव नियमसे हैं यह कहा है । मात्र छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानिके विषयमें यह बात नहीं है, क्योंकि अधस्तन गुणस्थानोसे उपरिम गुणस्थानोंमें जाते समय अपने अपने योग्य स्थानमें इनकी अनन्तभागवृद्धि होती है और उपरिम गुणस्थानोंसे नीचे आते समय अपने अपने योग्य स्थानमें इनकी अनन्तभागहानि होती है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पद भी भजनीय कहे हैं । शेष कथन सुगम है । यह ओघप्ररूपणा है जो मूलमें निर्दिष्ट सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गणाओंमें बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि सर्वदा सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी सम्यग्दृष्टिके इस योगको प्राप्त होनेपर यथासम्भव इनका बन्ध होता है । परन्तु ऐसी योग्यतावाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंका निरन्तर होना सम्भव नहीं है, इसलिए इस योगमें उक्त प्रकृतियोंके इस पदवाले जीव भजनीय कहे हैं । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंकी स्थिति औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान ही है, इसलिए उनमें औदारिकमिश्र-काययोगी जीवोंके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है ।

३०४. णिरएसु असंखेज्जगुणवड्डि-हाणी णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । मणुसअपज्जत्त-वेउच्चि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सव्वपगदीणं सव्वपदा भयणिज्जा । एदेण कमेण षेदव्वं ।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं ।

भागाभागो

३०५. भागाभागानुगमेण दुवि०-ओवे० आदे० । ओघेण पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० असंखेज्जगुणवड्डिवंधगा सव्वजीवाणं केवड्डियो भागो ? दुभागो सादिरेयो । असंखेज्जगुणहाणिबंधगा सव्वजीवाणं केवड्डियो भागो ? दुभागो देसुणो । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्डि० सव्वजीवाणं केवड्डियो भागो ? असंखेज्जदिभागो । अवत्त०बंध० सव्वजीवाणं केवडि० ? अणंतभागो । एसिं' अणंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं सव्वजीवाणं केवड्डियो भागो ? अणंतभागो । सेसाणं पगदीणं एकवड्डि० के० ? दुभागो सादिरेगो । एकहाणि० दुभागो देसु० । सेसपदा सव्वजीवाणं केवड्डियो भागो ? असंखेज्जदिभागो ।

३०४. नारकियोंमें असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय है । मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय है । इस क्रमसे ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त आदि सान्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय होना स्वाभाविक है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

भागाभाग

३०५. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । असंख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं ? तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग-प्रमाण हैं । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंकी एक वृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं । एक हानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके बन्धक

१. ता०प्रतौ 'केवडि ? अणंतभागो । एसिं अणंतभागो एसिं' आ०प्रतौ 'केवडि ? अणंत भागा । एसिं अणंतभागो एसिं' इति पाठः ।

एवं आहारदुर्गं । णवरि संखेज्जं कादव्वं । तित्थय० णाणा० भंगो । णवरि अवत्त० साद०-
भंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोर्धं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-णवुंस०-
कोधादि०४-मदि-सुद०-असंजद - अचक्खु०-तिणिले०-भवसि०-अब्भव सि०-मिच्छादि०-
असण्णि०-आहारग त्ति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स एकवड्ढि० । कम्मइ०-
अणाहारग० एसिं अवत्त० अत्थि तेसिं असंखेज्जगुणवड्ढि० असंखेज्जा भागा । अवत्त०
असंखेज्जदिभागो । सेसाणं गिरयादीणं एसिं असंखेज्जजीवा तेसिं ओघं साद०भंगो ।
एसिं संखेज्जजीविगा तेसिं ओघं आहारसरीरभंगो^१ । एवं णेदव्वं ।

एवं भागाभागं समत्तं^२ ।

जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भागाभाग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए । तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भागाभाग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्स्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी एक वृद्धि है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जिनका अवक्तव्यपद है उनकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष नरकादि मार्गणाओंमें जिनका परिमाण असंख्यात है उनका ओघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है और जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है । इस प्रकार ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो कुल जीवराशि है उसमें सब प्रकृतियोंके सम्भव सब पदोंके बन्धकोंका यदि बटवारा किया जाय तो कितना हिस्सा किसे मिलेगा इसका विचार भागाभागमें किया गया है । तदनुसार पांच ज्ञानावरणादिकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव आघेसे कुछ अधिक प्राप्त होते हैं । असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव आघेसे कुछ कम प्राप्त होते हैं । फिर भी इन दोनों पदोंके बन्धक जीवोंका कुल परिमाण मिलाकर सम्पूर्ण जीव राशि नहीं होता है । जो परिमाण बच रहता है उसमें शेष पदोंके बन्धक जीव होते हैं । भागाभागकी दृष्टिसे उनका विचार करनेपर तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव सब जीव राशिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं । अर्थात् सब जीवराशियोंमें असंख्यातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने इन पदोंके बन्धक जीव होते हैं और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्तवें भाग-प्रमाण होते हैं । अर्थात् सब जीवराशियोंमें अनन्तका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने इस पदके बन्धक जीव होते हैं । कारणका विचार पहले कर आये हैं । यहां इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि आगे परिमाण अनुयोगद्वारमें जो प्रत्येक प्रकृतिके विवक्षित पदके बन्धक जीवोंका परिमाण बतलाया है उसे प्रतिभाग बनाकर यहां सर्वत्र भागहार प्राप्त करना चाहिए । पांच ज्ञानावरणादिमें पांच नोकषायोंको छोड़कर शेष ऐसी प्रकृतियां भी सम्मिलित हैं जिनकी

१. ता० प्रतौ 'असंखेज्जजीविगा तेसिं ओघं । आहारसरीरभंगो' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'एवं भागाभागं समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

परिमाणं

३०६. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघेण पंचणा०-छदंसणा०-
[पञ्चकखाण०४]-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०
चत्तारिवृद्धि-हाणि-अवट्ठि० केत्तिया ? अणंता । अवत्तव्व० केत्तिया ? संखेज्जा । थीण-
गिद्धि०३-मिच्छ०-अट्ठक०-ओरालि० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० केत्तिया ?

अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है । पाँच नोकषायोंके साथ उनके इन पदवालोंका भागाभाग कितना है यह बतलानेके लिए उसकी अलगसे सूचना की है । ये पाँच ज्ञानावरणादि सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं । अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्तिके पूर्व इनका सब जीव नियमसे बन्ध करते हैं । इनमें औदारिकशरीर ऐसा है जो सप्रतिपक्ष प्रकृति कही जा सकती है परन्तु सब अपर्याप्तक और एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे बन्ध करते हैं, इसलिए उन जीवोंकी अपेक्षा वह भी ध्रुवबन्धिनी है । अब शेष जो प्रकृतियां रहती हैं, वे परावर्तमान हैं, इसलिए उनके अवक्तव्य पदकी परिगणना तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके साथ की गई है, अतः पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदवालोंका भागाभाग जो अलगसे कहा गया है उसे यहाँ अलगसे नहीं दिखलाया गया है । मात्र आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके विषयमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि आहारकद्विकका बन्ध करनेवाले जीव ही संख्यात होते हैं, इसलिए असंख्यातवें भागप्रमाणके स्थानमें यहाँ संख्यातवें भागप्रममाण होते हैं ऐसा करनेकी सूचना की गई है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृति ध्रुवबन्धिनी ही है यह दिखलानेके लिए उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है पर इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है, क्योंकि तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात होते हैं और इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात होते हैं इसलिए यहाँ इस पदकी अपेक्षा भागाभाग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि कुछ अन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । उसका कारण इतना ही है कि ये सब मार्गणाएँ अनन्त संख्यावाली हैं, इसलिए उनमें ओघप्ररूपणा बन जाती है । मात्र अपनी अपनी बन्धयोग्य प्रकृतियोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए । किन्तु उनमें औदारिकमिश्रकाययोग एक ऐसी मार्गणा है जिसमें देवगतिपञ्चककी एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि होती है, इसलिए यहाँ इसका भागाभाग सम्भव नहीं है । कर्मणकाययोगी और अनाहारक ये दो ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए इनका भागाभाग सम्भव नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी अवश्य ही असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपद होते हैं, इसलिए इनका भागाभाग अलगसे कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

परिमाण

३०६. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-शरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कषाय और औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ।

असंखेजा । तिण्णिआउगाणं वेउव्वियल्लकं तित्थ० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० केत्तिया ? असंखेजा । णवरि तित्थ० अवत्त० केत्तिया ? संखेजा । आहारदुगस्स सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? अणंता । एसिं अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेसिं असंखेजा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोधादि०-४-मदि-सुद०-असंजद-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड्ढि० केत्तिया ? संखेजा । कम्मइग०-अणाहार० सव्वपदा केत्तिया ? अणंता । णवरि धुविगाणं एगपदं अणंता । णवरि मिच्छ० अवत्त० केत्तिया ? असंखेजा । एदेण बीजेण णोदव्वं याव अणाहारग ति ।

असंख्यात हैं । तीन आयु, वैक्रियिकषट्क और तीर्थङ्करप्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध अन्यतर जीव करते हैं और सब जीवराशि अनन्त है, अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है । परन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणियोंमें ही सम्भव है, अतः इनके इस पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । स्थानगृद्धि आदिके विषयमें यही बात है, अतः उनका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । मात्र उनके अवक्तव्यपदके स्वामित्वमें विशेषता है । बात यह है कि इनका अवक्तव्यपद यथायोग्य प्रथम गुणस्थानसे पाँचवें गुणस्थान तक होता है । यथा—गिरते समय स्थानगृद्धिका पहले और दूसरे गुणस्थानमें, मिथ्यात्वका पहले गुणस्थानमें, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि चारमें प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि पाँचमें और औदारिकशरीरका असंज्ञी आदि जीवोंके अवक्तव्यपद होता है और ऐसे जीवोंका परिमाण असंख्यात सम्भव है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । तीन आयुके उदयवाले जीव असंख्यात हैं । इस न्यायसे इनका बन्ध करनेवाले जीव भी असंख्यात होते हैं । यही कारण है कि यहाँ इनके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है । वैक्रियिकषट्कका असंज्ञी आदि जीव और

३०७. णेररएसु ध्रुविगाणं चत्तारिवद्धि-हाणि-अवद्धि० केत्तिया ? असंखेज्जा । मणुसाउ० सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा असंखेज्जा । एसिं अणंतभागवद्धि-हाणि० अत्थि तेसिं असंखेज्जा । णवरि तित्थि० अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । एवं सव्वणेरइय-देव-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-अपज्ज०-सव्वविगलिंदिय-सव्वपुढ०-आउ० - तेउ-वाउ० - बादरपज्जत्तपत्ते०-वेउव्विय०-[वेउव्वियमि० - इत्थिवे०-पुरिसवे०-विभंग०-सासणसम्मदिट्ठि त्ति ।] णवरिं पंचिंदियतिरिक्ख०-विभंग०-सासणे^३ देवाउ०

तीर्थङ्करप्रकृतिका सम्यग्दृष्टि कुल्ल जीव बन्ध करते हैं। यतः ये जीव भी असंख्यात हैं, अतः इनके सब पदोंके बन्धक जीव भी असंख्यात कहे हैं। मात्र तीर्थङ्करप्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रेणिमें सम्भव है, दूसरे आठवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो जीव मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें सम्भव है और तीसरे जो इसका बन्ध करनेवाले जीव दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके सम्भव है। यतः ये मिलकर भी संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। आहारकद्रिकके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है यह स्पष्ट ही है। अब रहीं शेष परावर्तमान प्रकृतियों सो उनके सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है। यहाँ छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है पर उनके इन पदवालोंका परिमाण अभी तक नहीं कहा गया था, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि ये पद भी यथासम्भव गुणस्थान चढ़ते समय और उतरते समय होते हैं। चढ़ते समय अनन्तभागवृद्धि होती है और उतरते समय अनन्तभागहानि। विशेष जानकारी स्वामित्वको देखकर कर लेनी चाहिए। यतः ऐसे जीव असंख्यात हो सकते हैं, अतः उक्त प्रकृतियोंके इन पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। यहाँ मूलमें गिनाई गई सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य मार्गणाओमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तथा इनके साथ कर्मण-काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं और यहाँ इनकी एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका एक असंख्यातगुणवृद्धि पद और शेषके असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्य ये दो पद होते हैं तथा इनका परिमाण अनन्त है यह स्पष्ट ही है।

३०७. नारकियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, देव, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, बादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें

१ ता०प्रतौ 'बादर० पत्ते० वेउव्विय'...[सासण० स] म्मामि० णवरि' आ० प्रतौ बादर पज्जत्तपत्ते० वेउव्विय०... सासण० सम्मामि० । णवरि' इति पाठः । २ ता०प्रतौ 'विभंग० । सासणे' इति पाठः ।

असंखेजा । केसिं च मणुसाउ० सव्वपदा असंखेजा । सेसाणं संखेजा । वेउव्वियसि० धुविगाणं एगपदं असंखेजा । सेसाणं असंखेज्जगुणवद्धि-अवत्त० असंखेज्जा । तित्थ० एयपदं संखेजा । [इत्थि० तित्थ० सव्वपदा संखेजा ।]

३०८. मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-

जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव किन्हींमें असंख्यात हैं और शेषमें संख्यात है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिके एक पदके बन्धक जीव संख्यात हैं । तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—नारकियोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके यथा-सम्भव पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बन जाता है । मात्र इसके दो अपवाद हैं— एक तो मनुष्यायुके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीव और दूसरे तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य-पदका बन्ध करनेवाले जीव । नारकी जीव गर्भज मनुष्योंकी आयुका ही बन्ध करते हैं और गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसलिए नारकियोंमें मनुष्यायुके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उन्हींके वहाँ सम्यग्दर्शन होनेपर तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद होता है । यतः ऐसे जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अतः नारकियोंमें इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । यहाँ गिनाई गई सब नारकी आदि मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन मार्गणाओंमेंसे तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवायुका भी बन्ध होता है, इसलिए इनमें देवायुके सब पदवाले जीवोंका कितना परिमाण होता है यह अलगसे बतलाया है । तथा इन सब मार्गणाओंमें यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध होता है पर उनमेंसे वैक्रियिककाययोगी और सासादनसम्यग्दृष्टि इन दो मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही इस आयुका बन्ध करते हैं किन्तु अन्य मार्गणाओंमें असंख्यात जीव मनुष्यायुका बन्ध करते हैं, इसलिए उक्त मार्गणाओंमें मनुष्यायुसम्बन्धी उक्त विशेषताका उल्लेख करनेके लिए इसकी प्ररूपणा भी अलगसे की है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके एक पदवाले जीव और तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके दो पदवाले जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है । मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मर कर देव होते हैं और प्रथम नरकके नारकी होते हैं उन्हींके इस योगमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है । ऐसे जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा मनुष्योंमें ही स्त्रीवेदी जीव तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करते हैं, इसलिए इस मार्गणामें इसके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अलगसे कहा है ।

३०८. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच

तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि० असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । एसिं अणंतभागवड्डि-[हाणि० अत्थि तेसिं संखेज्जा । दोआउ०-वेउव्वियल्लक्कं] आहारदुगं तित्थयं० सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । सेसाणं सव्व-पगदीणं सव्वपदा असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं सव्वड्डु०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० ।

३०६. एइंदि०-वणप्फदि-णिगोद० सव्वपगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? अणंता । णवरि मणुसाउ० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।

अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं। यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनमें इन पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं। दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसी प्रकार अर्थात् मनुष्य पर्याप्त जीवोंके समान सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंका परिमाण असंख्यात है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य भी पाँच ज्ञानावरणदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। परन्तु इनका अवक्तव्यपद लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंके सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। यहाँ विवक्षित प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये पद भी लब्ध्य-पर्याप्तक मनुष्योंके नहीं होते, इसलिए इन पदवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है। दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य यथासम्भव करते हैं यह स्पष्ट ही है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष सब प्रकृतियों और उनके सब पदोंका बन्ध मनुष्योंमें यथायोग्य सबके सम्भव है, इसलिए उनके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी इनका परिमाण ही संख्यात है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके सम्भव सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। यहाँ गिनाई गई अन्य सब मार्गणाओंमें जीवोंका परिमाण संख्यात है, इसलिए उनमें अन्तके इन दो प्रकारके मनुष्योंके समान जाननेकी सूचना की है।

३०६. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? अनन्त हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं।

विशेषार्थ—इन तीन मार्गणाओंमें परिमाण अनन्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके

१ ता०प्रतौ 'अणंतभागव [ड्डि.....आहारदुगं] तित्थयं' आ०प्रतौ अणंतभागवड्डि.....आहारदुगं तित्थयं' इति पाठः ।

३१०. एदेण कमेण आभिणि-सुद०-[ओधि० पंचणा०-देवग०-पंचिदि०-
वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०-अंगो०-वण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०४-पसत्थ०-
तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० - णिमि०-तित्थ० - उच्चा०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि-
अवड्ढि० केत्तिया ? असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । एवं णिहा-पयला-पुरिस०-भय-दु० ।
एवं चदुदंसणा० । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० संखेज्जा । चदुसंज०-पच्चक्खाण०४
णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० केत्तिया ? असंखेज्जा । [दोवेदणी०-
अपच्चक्खाण०४-चदुणो०-देवाउ०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-
मणुसाणु०-थिरादितिणियुग० सव्वपदा० केत्तिया ?] असंखेज्जा । मणुसाउ०-
आहारदुगं सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग० ।

सब पदवाले जीवोंका परिमाण अनन्त बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । पर कुल मनुष्य ही असंख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीव कहीं असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते । यही कारण है कि यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है ।

३१०. इस क्रमसे आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार निद्रा, प्रचला, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार चार दर्शनावरणका भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । चार संज्वलन और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार नोकषाय, देवायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यायु और आहारकट्टिकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ये तीन मार्गणावाले जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं । परन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उक्त पदके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं । निद्रादिक पाँचका भङ्ग इसी प्रकार है, इसलिए उनके विषयमें पाँच ज्ञानावरणादिके समान जाननेकी सूचना की है । चार दर्शनावरणका भङ्ग भी इसीप्रकार बन जाता है । मात्र इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव होनेसे इन पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अलगसे कहा

१ ता०प्रतौ 'अभिणिसुद'.....[केवल०] पंचिं' आ० प्रतौ 'आभिणिसुद०'.....केवल० पंचिदि०' इति पाठः । २ आ०प्रतौ 'वण्ण० देवाणुपु० अगु० पसत्थ०' इति पाठः । ३ ता०प्रतौ 'केत्ति० १ असं [खेज्जा ।.....असंखेज्जा] । मणुसाउ०' आ०प्रतौ 'केत्तिया ? असंखेज्जा ।.....असंखेज्जा । मणुसाउ०' इति पाठः ।

३११. संजदासंजद^१० सव्वपगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । णवरि
तित्थ० सव्वपदा संखेज्जा ।

३१२. तेउ०-पम्म० [पच्चक्खाण०४-] देवगदि०४-तित्थ० अवत्त० केत्तिया ?
संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । सेसपगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।
[मणुसाउ०-आहारदु० सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा ।]

है जो संख्यात प्राप्त होता है, क्यों कि यहाँ इनके ये दो पद उपशमश्रेणिमें ही सम्भव हैं। चार संख्यलन और प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये दो पद चौथेसे पाँचवेंमें जाते समय और ऊपरके गुणस्थानोंसे चौथेमें आते समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका परिमाण असंख्यात कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग पाँच ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। दो वेदनीय आदि कुछ तो परावर्तमान प्रकृतियों है, अप्रत्याख्यानावरणका चतुर्थ गुणस्थानमें बन्ध होता है तथा मनुष्यगतिद्विक, औदारिक-शरीरद्विक और वज्रर्षभनाराचसंहननका अविरतसम्यग्दृष्टि सब देव और नारकी बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात है यह स्पष्ट ही है। अवधिदर्शनवाले आदि मूलमें गही गई तीन मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें आभिनिबोधिकज्ञानी आदि जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है।

३११. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंमें मनुष्य ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं, इसलिए इनमें इस प्रकृतिके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

३१२. पीत और पद्मलेश्यामें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, देवगतिचतुष्क, और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है। शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात है ? तथा मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं।

विशेषार्थ—जो संयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानोंमें आते हैं या मरकर देव होते हैं उनके ही प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद होता है, इसलिए तो इन लेश्याओंमें अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा देव और नारकियोंके तो देवगतिचतुष्कका बन्ध ही नहीं होता, इसलिए वहाँ इनके अवक्तव्यपदकी बात ही नहीं। जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गतियोंमें उत्पन्न होते हैं उनके भी इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए वहाँ भी इनके अवक्तव्य पदकी बात नहीं। हाँ जो उक्त लेश्यावाले सम्यग्दृष्टि देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके देवगतिचतुष्कका अवक्तव्यपद मुख्यरूपसे सम्भव है और ऐसे जीव संख्यात होते हैं, इसलिए यहाँ देवगतिचतुष्कके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा इन लेश्याओंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्योंमें ही सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं। यहाँ इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके तथा मनुष्यायु और आहारकद्विकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके

१. ता०प्रतौ 'वेदग० संजदासंजदा' इति पाठः । २. आ०प्रतौ देवगदि ४ मिच्छ० अवत्त०' इति पाठः ।

३१३. सुक्काए ध्रुविगाणं चत्तारि [वड्ढि-हाणि-अवड्ढि केत्तिया० । असंखेज्जा । अवत्त० केत्तिया० । संखेज्जा । दोआउ०-आहार० सव्वपदा केत्तिया० ? संखेज्जा । सेसाणं सव्वप० के० असंखेज्जा] । णवरि^१ मणुसगादिपंच०-देवगदि४-तित्थ० अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । [खइय० एवमेव ।]

३१४. उवसम० ध्रुविगाणं मणुसगादिपंचग०-देवगदि०४ अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । चदुदंस० अणंतभागवड्ढि-हाणि० संखेज्जा । सेसपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । आहारदुगं तित्थ० सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।

सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है । यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं यह भी स्पष्ट है ।

३१३. शुक्ललेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपञ्चक, देवगतिचतुष्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है । तथा शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय होता है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले जीव संख्यात कहे हैं । जो शुक्ललेश्यावाले उपशमश्रेणिसे उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करते हैं उनके इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद होता है और जो मरकर देव होते हैं उनके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद होता है । यतः ये जीव संख्यात होते हैं, अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शुक्ललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ एक तो मनुष्य करते हैं । दूसरे उपशमश्रेणिमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो मर कर देव होते हैं या नीचे उतर आते हैं वे भी इसके बन्धको पुनः प्रारम्भ करते हैं । अतः ये संख्यात होते हैं, अतः इस लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं । शेष कथन सुगम है । यहाँ मूलमें कुछ पाठ त्रुटित है और गड़बड़ी भी है । सुधारकर पाठ बनानेका प्रयत्न किया है । ज्ञायिकसम्यक्त्वमें प्रायः शुक्ललेश्याके समान भङ्ग बन जाता है, इसलिए उसमें भी शुक्ललेश्याके समान जाननेकी सूचना कर दी है । जो विशेषता है उसे जान लेना चाहिये ।

३१४. उपशमसम्यक्त्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और मनुष्यगति पञ्चक तथा देवगति चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेष पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात है । शेष प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

१ ता० प्रती 'चत्तारि [वड्ढि हाणि]एवमेव णवरि' आ० प्रती 'चत्तारि.....एवमेव णवरि' इति पाठः ।

३१५. सासण०-सम्मामि० सव्वपगदीणं सव्वपदा असंखेज्जा । णवरि सासणे मणुसाउ० सव्वपदा संखेज्जा ।

एवं परिमाणं समत्तं ।

खेत्तं

३१६. खेत्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक० - भय - दु०-ओरालि० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्डिहाणि-अवड्डिदबंधगा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । अवत्त० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एसिं अणंतभागवड्डिहाणी अत्थि तेसिं लोगस्स

विशेषार्थ—जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्वके साथ मर कर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्य पद होता है और उपशमश्रेणिसे उतरते हुए उपशमसम्यग्दृष्टि मनुष्यो के देवगति चतुष्कका अवक्तव्यपद होता है । यतः ये संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ इनका परिमाण उक्तप्रमाण कहा है । इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी उपशमश्रेणिमें होती है, इसलिए इनके बन्धक जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । इनमें आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात होते हैं यह स्पष्ट ही है । तथा उपशमसम्यग्दर्शनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मनुष्य ही करते हैं और ऐसे मनुष्य उपशमश्रेणिमें यदि मरते हैं तो देवोंमें भी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर संचित हुए तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि देव देखे जा सकते हैं । यतः ये सब जीव भी संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

३१५. सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—यद्यपि सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें परिमाणका निर्देश पहले आ चुका है । उस हिसाबसे यह पुनरुक्त हो जाता है पर हमने यहाँ मूलके अनुसार ही रहने दिया है । पहले सम्यग्मिथ्यादृष्टि पदका भी मूलमें निर्देश किया है पर उसे उसी स्थल पर टिप्पणीमें दिखला दिया है । एक तरहसे यह पूरा प्रकरण श्रुतित और पुनरुक्त है । किसी प्रकार उसे समझाला है ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

क्षेत्र

३१६. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराश्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्वलोक क्षेत्र है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवे

१. ता०प्रतौ 'एवं परिमाण समत्तं' इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रतौ 'असंखेज्जदिभागो' इति पाठः ।

असंखेज्ज० । तिण्णिआउ० वेउव्वियळ्ज०^१ आहारदुगं तित्थ० सव्वपदा केवडि खेत्ते ?
 लोगस्स असंखे० । सेसाणं सव्वाणं पगदीणं सव्वपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । एवं
 ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि० - ओरालियमि० - कम्मइ०-णवुंस०-
 कोधादि०-४-मदि-सुद०-असंजद०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०- मिच्छा०-
 असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि० - कम्मइ०-अणाहारगेषु
 देवगदिपंचगस्स एगपदं लोगस्स असंखेज्ज० ।

भागप्रमाण क्षेत्र है । तीन आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है । सर्वलोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके एक पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक कहा है । इनमेंसे कुछका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, स्थानगुद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंके उतरकर सासादन और मिथ्यात्वमें आनेपर होता है, मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानवालोंका मिथ्यात्वमें आनेपर होता है, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानवालोंके चौथे गुणस्थानमें आनेपर होता है, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद संयत जीवके संयतासंयत होनेपर होता है और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद यथासम्भव असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदि जीवोंके होता है । यतः इन सब जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता, अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंके इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंमेंसे छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है पर इनका स्वामित्व भी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंके होता है और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । नरकायु और देवायुका असंज्ञी आदि जीव बन्ध करते हैं, मनुष्यायुका बन्ध यद्यपि एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ये असंख्यातसे अधिक नहीं होते, क्योंकि मनुष्योंका परिमाण ही असंख्यात है, वैक्रियिकषट्कका बन्ध असंज्ञी आदि जीव, आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवाले जीव तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं । यतः इन सब जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । शेष सब प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, अतः उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । यहा गिनाई गई सामान्य तिर्यञ्च आदि मार्गणाओंसे अपनी-अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंके अनुसार ओघप्ररूपणा बन जाती है,

१. ता०प्रती 'वेउव्वियळ्ज०' इति पाठः ।

३१७. बादरेहंदिद्य-पञ्जत्तापञ्जत्ता० ध्रुविगाणं चत्तारिवृद्धि-हाणि-अवट्टि० सव्व-
लोगे । तसपगदीणं चत्तारिवृद्धि - हाणि-अवट्टि०-अवत्त० लोगस्स संखेज्जदिभागे^१ ।
मणुसाउ० ओघं । तिरिक्खाउ० सव्वपदा लोगस्स संखेज्ज० । सेसाणं सव्वपगदीणं
सव्वपदा सव्वलोगे । णवरि तिरिक्ख०३ अवत्त० लोगस्स असंखेज्ज० । मणुसगदितिगं
सव्वपदा लोगस्स असंखे^३ । एदेण बीजेण याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

एवं खेत्तं समत्तं^३ ।

अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण-
काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका एक ही पद होता है और वह भी सम्य-
गृष्टियोंके ही, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।

३१७. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी
चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । त्रसप्रकृतियोंकी
चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवे भाग-
प्रमाण है । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्चायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके
संख्यातवें भागप्रमाण है । शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण
है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा मनुष्यगतित्रिकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—बादर एकेन्द्रिय आदि तीनों प्रकारके जीव मारणान्तिक समुद्धातके समय
भी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पद करते हैं, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व
लोक कहा है । परन्तु एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय त्रसप्रकृतियोंका बन्ध
नहीं होता, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा
है । ओघसे मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
सिद्ध करके बतला आये है उसी प्रकार यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यहाँ ओघके समान
जाननेकी सूचना की है । इन बादर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकके संख्यातवें
भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है ।
इन जीवोंके शेष सब प्रकृतियोंके सब पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव
है, इसलिए इनके सब पदवालोंका क्षेत्र सर्वलोक कहा है । मात्र तिर्यञ्चगतित्रिकका अवक्तव्य-
पद बादर वायुकायिक जीव नहीं करते और इन जीवोंको छोड़कर अन्य बादर जीवोंका स्वस्थान
क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक
जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा अग्निकायिक और वायुकायिक
जीव मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र भी
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । अनाहारक मार्गणा तक इस बीज पदको समझकर क्षेत्र
प्राप्त करना सम्भव है, इसलिए उसे इस कथनको बीज मानकर जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

१. ता०आ०प्रत्योः 'लोगस्स असंखेज्जदिभागो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'तिगं सव्वलोग असंखे०'
इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'एवं खेत्तं समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

फोसण

३१८. फोसणाणुगमेण दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा०-तेजा०-
 क०-वण्ण०४-अगु०-उप-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि - अवड्ढिदबंधगेहि केवडि
 खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । अवत्त० लोगस्स असंखे० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४
 णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० अट्टचो० । मिच्छ० अवत्त० अट्ट-बारह० । छदंस-अट्टक०-
 भय-दु० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० अट्टचो० । सादासाद०-
 सत्तणोक०-तिरिक्खाउ-दोगदि-पंचजादि-छस्संठाण-ओरालि०अंगो० - छस्संध०-दोआणु०-
 पर०-उस्सा०-आदाउओ०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद'० सव्वपदा केवडि खेत्तं
 फोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग० अणंतभागवड्ढि-हाणि०
 अट्टचो० । अपच्चक्खाण०४ णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० केवडि खेत्तं
 फोसिदं ? अट्टचो० । अवत्त० केव० खेत्तं फोसिदं ? छच्चोद० । दोआउ०-आहारदुगं

स्पर्शन

३१८. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
 पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच
 अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन
 किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने
 लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्यानगृद्धिन्निक, मिथ्यात्व और
 अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य-
 पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
 है । मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम
 बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और
 जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और
 अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
 स्पर्शन किया है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच
 जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास,
 आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने
 कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है
 कि पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक
 जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रत्याख्याना-
 वरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि
 और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम
 आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने
 कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन

१. ता०प्रतौ 'तसादिदस [युगल०] दोगोद' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'केवडि खेत्ते फोसिदं ?
 सव्वलोगे' आ०प्रतौ 'केवडि खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगे' इति पाठः ।

सव्वपदा खेत्तभंगो । मणुसाउ० सव्वपदा लोगस्स असंखे० अट्टुचोद्द० सव्वलो० ।
दोगदि-दोआणु० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवट्टि० छुच्चो० । अवत्त० खेत्तभंगो । वेउव्वि०-
वेउव्वि०अंगो० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवट्टि० बारहचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । ओरालि०
णाणा०भंगो । अवत्त० बारहचो० । तित्थय० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवट्टि० अट्टुचो० ।
अवत्त० खेत्तभंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि०-क्रोधादि०४-अचक्खुदं०-
भवसि०-आहारग ति । एवं एदेण बीजेण भुजगारभंगो कादव्वो याव अणाहारग ति ।
णवरि अणंतभागवड्डि-हाणि० • सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख-मणुस-ओरालि०-णवुंस०-
मणपज्जव० - संजद-खइग० - उवसम० खेत्तभंगो । आभिणि-सुद-ओधि० खेत्तभंगो ।
तेऊए अपक्खखाण०४ अवत्त० दिवड्डुचोद्द० पम्माए पंचचो० सुक्काए छुच्चोद्दस० ।
अणोसिं तेसिं केसिं च ओघेण साधेदूण णेदव्वं ।

एवं फोसणं समत्तं^१ ।

किया है । दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो गति और दो आनुपूर्वीकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाङ्गकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । मात्र इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीर्थङ्करप्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काय-योगी, क्रोधादि चार कषायवाले, अचलुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार इस बीजके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानवाले, संयत, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें भी क्षेत्रके समान भङ्ग है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंने पीत लेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका, पद्मलेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और शुक्ललेश्यामें त्रस-नालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अन्य प्रकृत्रियोंका उनमें तथा किन्हींमें ओघके अनुसार साध लेना चाहिए ।

१. ता०प्रतौ 'एवं फोसणं समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

विशेषार्थः—पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका बन्ध सब जीव करते हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके अन्य पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, इसलिए उक्त स्पर्शन बन जाता है। पर स्त्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद तृतीयादि ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। ऐसे जीवोंमें देवोंकी मुख्यता है, क्योंकि इस पदकी अपेक्षा विहारवत्स्वस्थान आदिके समय त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन उन्हींके सम्भव है। इस पदवाले अन्य सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है जो पूर्वोक्त स्पर्शनमें गर्भित है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तथा मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और नीचे कुछ कम पाँच व ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है, अतः इसके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। छह दर्शनावरण आदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है और इनका अवक्तव्यपद यथायोग्य उपशमश्रेणिमें व प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका गिरते समय पाँचवेंके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उनके समान कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है जो देवोंके विहारवत्स्वस्थान आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवालोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन अलगसे कहा है। सातादेवनीय आदि प्रकृतियोंके सब पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है। मात्र इनमेंसे पुरुषवेद आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है, इसलिए इन पाँच प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन अलगसे कहा है। यह त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्यों कहा है इस बातका स्पष्टीकरण छह दर्शनावरण आदिका स्पर्शन कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन तो त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है वह भी स्पष्ट है। तथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नरकायु और देवायुका असंज्ञी आदि जीव बन्ध करते हैं। उसमें भी मारणान्तिक समुद्घातके समय इनका बन्ध नहीं होता। तथा आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण जीव बन्ध करते हैं। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अतीत स्पर्शन देवोंके विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा सर्वलोकप्रमाण है। अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। नारकियोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय नरकगतिद्विककी तथा देवोंमें मारणान्तिक समुद्घातके समय देवगतिद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह

कालो

३१६. कालानुगमेण दुवि०—ओघेण आदेसेण य। ओघेण पंचणा०तेजा०क०-

बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। नीचे कुछ कम छह राजु और ऊपर कुछ कम छह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्घात करते समय वैक्रियिकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। औदारिक-शरीरका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, इसलिए इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। मात्र इसके अवक्तव्यपदके स्पर्शनमें अन्तर है। बात यह है कि देव और नारकी उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इसका अवक्तव्यबन्ध करते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंके विहारवत्त्वस्थान आदिके समय भी तीर्थङ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद सम्भव हैं, इसलिए इसके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इसका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रेणिमें होता है, दूसरे इसकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें होता है और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके सम्यक्त्वपूर्वक पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें होता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इसका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र इतना ही है। यहाँ सामान्य तिर्यञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें अपने-अपने बन्धके अनुसार यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ इसी प्रकार अनाहारक पर्यन्त भुजगार प्रदेशबन्धके समान जाननेकी सूचना करके कुछ अपवादोंका अलगसे निर्देश किया है। यथा—मूलमें गिनाई गई सब नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। कारण स्पष्ट है, इसलिए इनमें उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। आभिनिबोधक-ज्ञानी आदि तीन मार्गणाओंमें भी इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन इसी प्रकार जानना चाहिए। पीतादि लेश्याओंके रहते हुए देवोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यबन्ध सम्भव है, क्योंकि जो पञ्चम आदि गुणस्थानवाले जीव इन लेश्याओंके साथ मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद ही होता है, इसलिए इन लेश्याओंमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम डेढ़, कुछ कम पाँच और कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इस प्रकार ओघके अनुसार साध कर सर्वत्र स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

काल

३१६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच

वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० केवचिरं कालादो होदि ? सच्चद्धा । अवत्त० केवचिरं कालादो ? जह० एग०, उक्क० संखेज्जसमयं । थोणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरालि० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० केवचिरं कालादो ? जह० एग०, उक्क० आवलियाए असंखे० । छदंस०-अट्ठक०-भय-दु० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । अपच्चक्खण०४ णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । पुरिस०-चदुणोक० अणंतभागवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । सेसपदा० केवचिरं ? सच्चद्धा । तिण्णिआउ० असंखेज्ज-गुणवड्ढि-हाणिबंधगा केवचिरं ? जह० एग०, उक्क० पालिदो० असंखे० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । वेउव्वियछ० असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० सच्चद्धा । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । आहारदु० असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० सच्चद्धा । तिण्णिवड्ढि-

ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्व काल है । इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । पुरुषवेद और चार नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष पदोंके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है । तीन आयुओंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बैक्रियिक-षट्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारकद्विककी असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा इनकी तीन वृद्धि और

हाणि० [जह० एग०, उक्क० आवलि असंखे० ।] अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसमयं । तित्थ० देवगदिभंगो । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसमयं । सेसाणं सादादीणं चत्तारिवड्डि - हाणि-अवट्टि०-अवत्त० सव्वट्ठा । एवं ओघभंगो कायजोगि - ओरालि०-णुंसं०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भवसि० - अब्भवसि०-आहारगत्ति । ओरालियमि० एवं चेव । णवरि देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवड्डि० जह० उक्क० अंतो० ।

तीन हानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, अचक्षुदर्शनवाले, भव्य, अभव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके नौ पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव भी करते हैं, इसलिए इनके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है । मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है या ऐसे जीवोंके होता है जो उपशमश्रेणिमें इनके अबन्धक होकर मरकर देव हो जाते हैं और उपशमश्रेणिपर प्रथम समयमें चढ़कर दूसरे समयमें अन्य जीव नहीं चढ़ते । तथा लगातार यदि जीव चढ़ते रहें तो संख्यात समय तक ही चढ़ते हैं । उसके बाद व्यवधान पड़ जाता है । इस हिसाबसे अवक्तव्यपद भी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । स्त्यानगृद्धि-त्रिक आदिके नौ पद एकेन्द्रियादि यथासम्भव सब जीवोंके सम्भव हैं, अतः इन पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्व और सासादनमें आनेपर प्रथम समयमें होता है और इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेका कमसे कम एक समय है और अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि अन्य जिन गुणस्थानोंसे इन गुणस्थानोंमें जीव आते हैं उनमेंसे कुछका परिमाण असंख्यात समय है इसलिए अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेके क्रममें कोई बाधा नहीं आती । यही कारण है कि यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद अन्य प्रकारसे प्राप्त कर यह काल घटित कर लेना चाहिए । छह दर्शनावरण आदिके नौ पदोंका बन्ध यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए तो इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा बन जानेसे वह ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा इनमेंसे प्रत्याख्यानावरण चारको छोड़कर शेषका अवक्तव्यपद ज्ञानावरणके समान ही घटित हो जाता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल भी ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । अब रहीं प्रत्याख्यानावरण

चतुष्क सो इनका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानवाले जीवोंके संयतासंयत होनेपर प्रथम समयमें होता है और ऐसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक ही अवक्तव्यपद कर सकते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल भी ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। अब वहीं इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सो इनके उक्त पदोंको असंख्यात जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके नौ पदोंका बन्ध भी यथायोग्य एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका काल ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद करनेवाले जीव युगपत् और लगातार असंख्यात होते हैं, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। पुरुषवेद और चार नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके इन पदोंकी अपेक्षा कहे गये कालके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियों हैं और यथायोग्य एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके शेष पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पहले बतला आये हैं। यहाँ जघन्य काल तो एक समय ही है, क्योंकि नाना जीव एक समयतक इन पदोंको करें और दूसरे समयमें अन्य पदोंको करें यह सम्भव है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव क्रमसे निरन्तर यदि इन पदोंको करें तो उस सब कालका जोड़ उक्तप्रमाण होता है। परन्तु इनके शेष पदोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव एक समय तक ही इन पदोंको करें और दूसरे समयमें विवक्षित पदके सिवा अन्य पदको करने लगे यह भी सम्भव है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि यदि अन्तरके बिना नाना जीव इन आयुओंके बन्धका प्रारम्भ कर इन पदोंको करें तो उस कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं होता। तात्पर्य यह है कि असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। मान लीजिए कुछ जीवोंने अन्तर्मुहूर्त कालतक ये दोनों पद किये। उसके बाद व्यवधान न पड़ते हुए अन्य कुछ जीवोंने ये दो पद किये। इस प्रकार निरन्तर क्रमसे इन पदोंके करनेपर वह काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए तो इन पदवालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा शेष पदोंमें एक जीवकी अपेक्षा अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल एक समय है, अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल सात समय है और शेष पदोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। यहाँ भी व्यवधानके बिना एकके बाद दूसरे इस क्रमसे यदि इन पदोंको करें तो इस प्रकार व्यवधानके बिना प्राप्त हुए उत्कृष्ट कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, क्योंकि असंख्यात समयोंका जोड़ भी आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा और असंख्यात आवलियोंके असंख्यातवें भागका जोड़ भी आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा, इसलिए यहाँ शेष पदवालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। नाना जीवोंके वैक्रियिकषट्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ

३२०. कम्मइग०-अणाहारगेसु देवगदिपंचग० असंखेज्जगुणवड्ढि० जह० एग०,
 उक्क० संखेज्जसमयं। मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०। धुविगाणं
 असंखेज्जगुणवड्ढि० सेसाणं परियत्त० असंखेज्जगु० अवत्त० सव्वद्वा। वेउव्वियमि०
 सव्वपगदीणं असंखेज्जगुणवड्ढि० जह० अंतो०, परियत्तीणं [जह०] एग०, उक्क० पलिदो०
 असंखे०। एसिं अवत्त० अत्थि तेसिं जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०। तित्थ०

इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है। तथा इनके शेष पदोंका क्रमसे असंख्यात जीव बन्ध कर सकते हैं, इसलिए उनके बन्धकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आहारकद्विकके बन्धक नाना जीव सर्वदा पाये जाते हैं और उनमेंसे किसी न किसीके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि भी होती रहती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। इनकी तीन वृद्धि और तीन हानिको क्रमसे संख्यात जीव भी करें तो भी उस सब कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवे भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल एक जीवकी अपेक्षा क्रमसे संख्यात समय और एक समय है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष सातावेदनीय आदि एक तो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। दूसरे एकेन्द्रियादि जीव इनका बन्ध करते हैं, इसलिए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यह ओघप्ररूपणा काययोगी आदि कुछ मार्गणाओंमें अविफल बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें यथासम्भव अन्य सब प्ररूपणा ओघके समान बन जाती है, इसलिए उनमें भी ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमें देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं और इनकी यहाँ एक असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

३२०. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा जिनका अवक्तव्यपद है उनके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। नरक आदि

१. ता०प्रतौ 'असंखेज्जगु०। अवत्त०' इति पाठः।

ओरालियमिस्सभंगो । णिरयादीणं एसिं अणंतभागवड्ढिहाणि० अत्थि तेसिं परियत्त-
माणेण ओघेणेव णेदव्वं । णवरि एसिं असंखेज्जरासीणं तेसिं ओवं देवगदिभंगो । एसिं
संखेज्जरासी तेसिं ओघं आहारसरीरभंगो । एसिं अणंतरासी तेसिं ओघं साद०भंगो ।
णवरि.....याउभंगो कादव्वो । एसिं अणंतभागवड्ढिहाणि० अत्थि तेसिं परिमाणेण
ओघेण च साधेदव्वं । एवं याव अणाहारग ति ।

एवं कालं समत्तं ।

गतियों में जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदों का भङ्ग ओघके अनुसार ही परावर्तमान प्रकृतियों के समान साध लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियों के बन्धकों की असंख्यात राशि है उनमें ओघसे देवगतिके समान भङ्ग है । जिन प्रकृतियों के बन्धकों की संख्यात राशि है उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है और जिन प्रकृतियों के बन्धकों की अनन्त राशि है उनमें ओघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि.....के समान भङ्ग करना चाहिए । तथा जिनकी अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदवाले जीवों का काल परिमाण या परिवर्तमान प्रकृतियों के समान ओघके अनुसार साध लेना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें अधिकसे अधिक संख्यात जीव देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले होते हैं और ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न होते रहें तो संख्यात समय तक ही यह सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव यहाँ असंख्यात सम्भव हैं और वे लगातार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उत्पन्न होते रहें यह सम्भव भी है, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका यहाँ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहाँ शेष ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्त होते हैं, अतः यहाँ इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है । वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि एक समयके लिए हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है । नरक आदि गतियों में जिन प्रकृतियों की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनका इन पदों के साथ बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण

१. ता०प्रतौ 'एवं कालं समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

अंतरं

३२१. अंतराणुगमेण वुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा० चत्तारि-
वड्डिहाणि-अवड्डि०बन्धगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । अवत्त० जह०
एग०, उक्क० वासपुधत्तं । एवं सव्वाणं धुविगाणं । णवरि थीणगि०३-मिच्छ०-
अणताणु०४ अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि । अपच्चक्खाण०४ जह०
एग०, उक्क० चोद्दस रादिंदियाणि । पच्चक्खाण०४ जह० एग०, उक्क० पणारस
रादिंदियाणि । एसिं पगदीणं अणंतभागवड्डिहाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए
असंखे० । सादादीणं तिरिक्खाउगस्स य चत्तारिवड्डिहाणि-अवड्डि०-अवत्त० णत्थि
अंतरं । एवं सव्वासिं परियत्तमाणियाणं । णिरय-मणुस-देवाऊणं तिण्णिवड्डिहाणि-
अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० । असंखेज्जगुणवड्डिहाणि-अवत्त० जह०
एग०, उक्क० चदुवीसं मुहुत्तं । वेउव्वियळ्ळ०-आहारदु० असंखेज्जगुणवड्डिहाणि० णत्थि
अंतरं । तिण्णिवड्डिहाणि-अवड्डि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे० । अवत्त०

ओघके अनुसार यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इस विषयमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

अन्तर

३२१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरणकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना अन्तर है ? अन्तर नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार सब ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है । तथा जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवस्थितपद है उनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सातावेदनीय आदि और तिर्यञ्चायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार परावर्तमान सब प्रकृतियोंका भङ्ग जानना चाहिए । नरकायु, मनुष्यायु और देवायुकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । वैक्रियिकषट्क और आहारक-द्विककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और

जह० एग०, उक० अंतो० । एवं चेव तित्थ० । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक०
 वासपुधत्तं० । णिरएसु तित्थय० अवत्त० जह० एग०, उक० पलिदो० असंखे० ।
 एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरमलि-ओरालियमि-लोभ-अचक्खु-भवसि-आहारग
 त्ति । णवरि ओरालियमि० देवगदिपंच० असंखेज्जगुणवड्ढि० जह० एग०, उक०
 मासपुधत्तं । णवरि तित्थय० वासपुधत्तं । एवं कम्मइ-अणाहार० ।

उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । नारकियोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, लोभकषायवाले, अचलुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासवृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैं और वे अनन्त होनेसे उनके इन प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद भी निरन्तर सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं कहा है । किन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें सम्भव है और उपशमश्रेणिसे इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरकर जो देव होते हैं उनके सम्भव है और उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । जितनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका यह भङ्ग बन जाता है, इसलिए उनके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणिमें होती है उनके लिए ही यह अन्तर कथन पूरी तरहसे लागू होता है । जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति उपशमश्रेणिसे पूर्व अन्य गुणस्थानोंमें होती है उनका अन्य भङ्ग तो पाँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है पर अवक्तव्यपदके अन्तरमें फरक है, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है । सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सासादनको अधिकसे अधिक सात दिन रात तक नहीं प्राप्त हों यह सम्भव है, इसलिए यहाँ स्थानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । देशविरत जीव अधिकसे अधिक चोदह दिन-रात तक अविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चोदह दिन-रात कहा है । तथा संयत जीव अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन-रात तक संयतासंयत आदि नहीं होते, इसलिए प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा है । इन सबका जघन्य अन्तर एक समय है यह स्पष्ट ही है । सातावेदनीय आदि और

१. ता०प्रतौ 'एवं तित्थ०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'तित्थय० जह०' इति पाठः ।

३२२. अवगद्वे० सव्वपगदीणं असंखेज्जगुणवड्ढिहाणि० जह० एग०, उक्क०

तिर्यञ्चायुका एकेन्द्रिय आदि यथासम्भव सब जीव बन्ध करते हैं और वहाँ उनके सब पद निरन्तर सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंके अन्तरकालका निषेध किया है। परावर्तमान सब प्रकृतियोंके विषयमें यही बात जाननी चाहिए। नरकायु आदि तीन आयुओंका अधिकसे अधिक असंख्यात जीव ही बन्ध करते हैं, इसलिए इनका निरन्तर बन्ध तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि एक तो आयुबन्धका कुल काल अन्तर्मुहूर्त है और वह भी त्रिभागमें बन्ध होता है, इसलिए इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। परन्तु इन तीनों आयुओंके बन्धमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त प्राप्त होता है, इसलिए इनके शेष पदवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यद्यपि वैक्रियिकषट्कका बन्ध करनेवाले असंख्यात और आहारकद्विकका बन्ध करनेवाले संख्यात जीव हैं फिर भी इनका किसी न किसीके नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि सर्वदा होती रहनेसे इनके अन्तरकालका निषेध किया है। पर तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके विषयमें यह बात नहीं है। ये कमसे कम एक समय तक न हों यह भी सम्भव है और अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इन पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण अन्तरकाल कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे होता है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका उक्त कालप्रमाण अन्तर कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदवाले जीवोंका यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इसे वैक्रियिकषट्कके समान जाननेकी सूचना की है। पर इसके अवक्तव्यपदके अन्तर कालमें फरक है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है। मात्र दूसरे और तीसरे नरकमें तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य कमसे कम एक समयके अन्तरसे उत्पन्न हों यह भी सम्भव है और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हों यह भी सम्भव है, इसलिए नारकियोंमें इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ मूलमे काययोगी आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगमें देवगति-पञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है। तथा कोई भी सम्यग्दृष्टि इस योगवाला न हो तो कमसे कम एक समय तक नहीं होता और अधिकसे अधिक मासपृथक्त्व काल तक नहीं होता, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्वप्रमाण कहा है। इस योगमें तीर्थङ्करप्रकृतिकी भी एक असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है। साथ ही यह नियम है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला यदि मनुष्योंमें जन्म न ले तो कमसे कम एक समय तक नहीं लेता और अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व काल तक नहीं लेता, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके उक्त पदवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष-पृथक्त्वप्रमाण कहा है। कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगमें कही कई अन्तरप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए इनमें औदारिकमिश्रकाययोगके समान जाननेकी सूचना की है।

३२२.अप्रगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। तीन वृद्धि, तीन

छम्मासं० । तिण्णिवद्धि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेदीए असंखे० । अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं० । एवं सुहुमसं० । णवरि अवत्त० णत्थि । .

३२३. वेउव्वियमि० मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । एवं ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० । वेउव्वियमि० सव्वपगदीणं एगवद्धि-अवत्त० जह० एग०, उक्क० बारसमुहुत्तं० । णवरि एइंदियतिगस्स चउव्वीसं मुहुत्तं । एवं सेसाणं णिरयादीणं ओघेण आदेसेण य साधेद्व्वं । एसिं संखेज्जरासी असंखेज्जरासी तेसिं अंतरं ओघं देवगदिभंगो । एवं याव अणाहारगत्ति षोद्व्वं ।

एवं अंतरं समत्तं ।

हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसमें अवक्तव्यपद नहीं है ।

विशेषार्थ—छह और सात कर्मोंका बन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । पर क्षपकश्रेणिके इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । यहाँ इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सूक्ष्मसाम्परायिक जीवोंकी स्थिति अपगतवेदी जीवोंके समान ही है, इसलिए उनमें इनके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र सूक्ष्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें किसी भी प्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए उसका निषेध किया है ।

३२३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी एक वृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति-त्रिकका उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है । इसी प्रकार शेष नरकादि गतियोंमें ओघ और आदेशके अनुसार अन्तरकाल साध लेना चाहिए । जिनकी संख्यात और असंख्यात राशि है उनका अन्तर ओघसे देवगतिके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी जिनकी केवल वृद्धि सम्भव है उनकी वृद्धिकी अपेक्षा और जिनकी वृद्धि और अवक्तव्यपद दोनों सम्भव हैं उनके दोनों पदोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त कहा है । मात्र यहाँ एकेन्द्रियजातित्रिकका

१. ता०प्रतौ 'अणाहार० वेउव्वियमि०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'एवं अतर समत्तं ।' इति पाठो नास्ति ।

भावो

३२४. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति षोदव्वं ।

अप्पाबहुअं .

३२५. अप्पाबहुअं दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टिदव्वं० अणंतगु० । संखेज्जभागवड्डि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवड्डि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । असंखेज्जभागवड्डि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणाहाणि० असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणवड्डि० विसे० । एवं थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० । एस भंगो छदंस०-बारसक०-भय-दु० । णवरि सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागवड्डि-

बन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्तके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है । तथा सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है, इसलिए इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तर बन जाता है, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तरकाल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

भाव

३२४. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदायिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

अल्पबहुत्व

३२५. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । इसी प्रकार स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी अपेक्षा जानना चाहिए । तथा ब्रह्म दर्शनावरण, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे

१. ता०आ०प्रतौ 'सव्वत्थोवा । अवत्त० अवट्टिदव्वं०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि०' इति पाठः

हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । अवट्टि० अणंतगुणा । उवरि णाणा० भंगो । सादादीणं सव्वत्थोवा अवट्टि० । असंखेजभागवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । संखेज-भागवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । संखेजगुणवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । [अवत्त० असंखेजगुणा ।] असंखेजगुणहाणि० असंखेजगु० असंखेजगुणवट्टि० विसे० । इत्थि-णवुंस०-चदुआउ०-चदुगदि-पंचजादि-वेउवि०-छस्संठा०-दोअंगो०-छस्संध०-चदुआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-दोविहा०-तसथावरादिदसयुग०-दोगोद० साद०भंगो कादव्वो । पुरिस०-चदुगोक्क० सव्वत्थोवा अणंतभागवट्टि०-हाणि० । अवट्टि० अणंतगु० । उवरि साद०भंगो । आहारदुगं सव्वत्थोवा अवट्टि० । असंखेजभागवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला संखेजगु०^२ । संखेजभागवट्टि-हाणि० दो वि संखेजगुणा । संखेजगुणवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला संखेजगुणा । अवत्त० संखेजगुणा । असंखेजगुणहाणि० संखेजगुणा । असंखेजगुणवट्टि विसे० । तित्थि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० असंखेजगुणा । असंखेजभागवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । संखेजभागवट्टि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । संखेजगुणवट्टि-हाणि० दो वि

हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इससे आगेका अल्पबहुत्व ज्ञानावरणके समान है । सातावेदनीय आदिके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात-भागवट्टि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवट्टि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवट्टि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवट्टिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । स्त्रीवेद, नपुंसक-वेद, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और दो गोत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान करना चाहिए । पुरुषवेद और चार नोकषायोंकी अनन्तभागवट्टि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थित-पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे सातावेदनीयके समान भङ्ग है । आहारकट्टिकके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवट्टि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवट्टि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवट्टिके बन्धक जीव विशेष अधिक है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातभागवट्टि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात-

१. ता०प्रतौ 'असंखेजभाग (गुण) वट्टिहाणि०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'तुल्ला असंखेजगु०' इति पाठः ।

तुल्ला असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणाहाणि० असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुणावड्डि० विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

३२६. णेरइएसु पंचणाणावरणादिधुविगाणं सव्वत्थोवा अवड्डि० । संखेज्जभागवड्डि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । उवरि ओघं । एसिं धुविगाणं अणंत-भागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं ताओ थोवाओ । अवड्डि० असं०गु० । उवरि णाणा०-भंगो । सेसं ओघं । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख०-मणुस०अपज्ज०-[सव्वदेव-]सव्वएइदि०-विगलिंदि०-पंचकायाणं च । तिरिक्खेसु ओघभंगो । णवरि धुविगाणं एसिं अणंतभागवड्डि-[हाणि०]अत्थि तेसिं ताओ थोवाओ । अवड्डि० अणंतगु० । उवरि ओघो । मणुसेसु ओघो । णवरि दोआउ० वेउव्वियळ्ळं आहारदुगं आहारसरीर-भंगो । सेसाणं ओघं । णवरि किंचि विसेसो । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु तं चेव । णवरि संखेज्जं कादव्वं ।

३२७. पंचिदि०-त्स०२ ओघं । णवरि यम्हि अवड्डि० अणंतगु० तम्हि असंखेज्जगुणं कादव्वं । पंचमण०-तिण्णवचि० पंचणा०-थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-देवगदि-ओरालिय०-वेउव्विय०-तेजा०-क० - वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-

गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अचलुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

३२६. नारकियोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनके इन पदोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ज्ञानावरणके समान भङ्ग है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इस प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयु, वैक्रियिकषट्क और आहारकद्विकका भङ्ग आहारक-शरीरके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । मात्र कुछ विशेषता है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए ।

३२७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे कहे हैं वहाँ असंख्यातगुणे करने चाहिए । पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक-शरीरआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण

बादर-पञ्चत्त-पत्ते-णिमि-पंचंत-सव्वत्थोवा अवत्त-अवट्ठि-असंखेज्जगुणा । सेसाणं पदाणं ओघं तित्थयरभंगो । सेसपगदीणं ओघभंगो । वचिजो-असच्चमोसवचि-चक्खुदं पंचिदियभंगो । ओरालियमिस्स-तिरिक्खोघं । णवरि अणंतभागवट्ठि-हाणि-णत्थि ।

३२८. वेउव्वियका-देवोघं । वेउव्वियमिस्सका-सव्वत्थोवा अवत्त-असंखेज्ज-गुणवट्ठिबं-असंखेज्जगुण-एवं कम्मइ-अणाहार-णवरि मिच्छ-सव्वत्थोवा अवत्त-असंखेज्जगुणवट्ठिबं-अणंतगु-आहारकायजोगी-सव्वट्ठुभंगो-आहार-मिस्स-वेउव्वियमिस्स-भंगो ।

३२९. इत्थिवेद-पंचणा-पंचंत-सव्वत्थोवा-अवट्ठि-उवरि ओघं । थीणगि-मिच्छ-अणंताणु-ओरालि-तेजा-क-वण्ण-अगु-उप-णिमि-सव्वत्थोवा अवत्त-अवट्ठि-असंखेज्जगुणा । उवरि ओघं । णिहा-पयला-अट्ठक-भय-दु-सव्वत्थोवा अवत्त-अणंतभागवट्ठि-हाणि-दो वि तुल्ला असंखेज्जगुणा । अवट्ठिद-असंखेज्जगु-उवरि ओघं । णवरि चदुसंज-सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि-

और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग ओघसे तीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । वचनयोगी, असत्यमृषावचनयोगी और चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है । औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवट्ठि और अनन्तभागहानि नहीं है ।

३२८. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणवट्ठिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात-गुणवट्ठिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आहारककाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भङ्ग है । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

३२९. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । स्त्यानगुट्टिन्निक, मिथ्यात्व, अनन्तानुन्धीचतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुप्साके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवट्ठि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी अनन्तभागवट्ठि और अनन्त-

१. ता०प्रतौ 'इत्थिवेदभंगो पंचणा० पंचंत० । सव्वत्थोवा' आ०प्रतौ इत्थिवेदभंगो पंचणा० पंचंत सव्वत्थोवा' इति वाठः ।

हाणि० । अवट्टि० असंखेज्जगु० । उवरि ओघं । पुरिस० इत्थि०भंगो । णवुंसग० धुविगाणं^१ इत्थि०भंगो । णवरि अवट्टि० अणंतगु० ।

३३०. क्रोधकसा० णवुंसगभंगो । माणे० पंचणा०-चदुदंसणा०-तिण्णिसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । लोभकसाए ओघं ।

३३१. मदि-सुद० धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । सेसाणं वि ओघो । विभगे धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्टि० । उवरि ओघं । असंखेज्जगुणं कादव्वं । देवगदि-ओरालि०-वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा० - बादर-पञ्जत्त-पत्ते० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० असं०गु० । एवं [अ] संखेज्जगुणं कादव्वं । सेसाणं ओघं ।

३३२. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०- [छदंस०-] अपच्चक्खाण०४- पुरिस०- भय-दु०-दोगदि-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु० - दोअंगो०-वज्जि०- वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०- तित्थि०-उच्चा०-

भागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं ।

३३०. क्रोधकषायवाले जीवोंमें नपुंसकवेदवाले जीवोंके समान भङ्ग है । मानकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । मायाकषायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । लोभकषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

३३१. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भी ओघके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । आगे ओघके समान भङ्ग है । मात्र असंख्यातगुणा करना चाहिए । देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे असंख्यातगुणा करना चाहिए । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

३३२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क,

१. ता०प्रतौ 'णपुंसक धुवि (?) धुविगाण' इति पाठः ।

पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेज्जगु० । उवरि ओघं । णवरि चदुदंस०
 सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि-हाणि० । अवत्त० संखेज्जगु० । अवट्ठि० असंखेज्जगु० ।
 उवरि ओघं । पच्चक्खाणाव०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागवट्ठि-हाणि० दो वि
 तुल्ला असंखेज्जगु० । अवट्ठि० असंखेज्जगु० । उवरि ओघं । [एवं चदुसंज०] । दोवेदणी०-
 थिरादितिण्णियुग०-आहारदुगं ओघं । चदुणोक० साद० भंगो । एवमाउगं । णवरि
 मणुसाउ० मणुसि०भंगो । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० । मणपज्ज०-
 संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार० ओधि०भंगो । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । सुहुमसंप०
 अवगद०भंगो । संजदासंजद० परिहार०भंगो ।

३३३. असंजदेसुं धुविगाणं मदि०भंगो । एसिं धुविगाणं अणंतभागवट्ठि-हाणि०
 अत्थि तेसिं ताओ थोवाओ । अवट्ठि० अणंतगुणा । उवरि ओघं । सेसाणं पगदीणं
 ओघं । एवं किण्ण-णील-काऊणं । तेऊए धुविगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । उवरि ओघं ।
 देवगदिपंचग-ओरालि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेज्जगुं० । उवरि ओघं ।

सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक
 जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान
 भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके
 बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे
 अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । प्रत्याख्यानावरण-
 चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग-
 हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव
 असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार चार संज्वलनके विषयमें जानना
 चाहिए । दो वेदनीय, स्थिर आदि तीन युगल और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है ।
 चार नोकषायोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है । इसी प्रकार आयुके विषयमें जानना चाहिए ।
 इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी,
 सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । मनःपर्ययज्ञानी,
 संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी
 जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । सूक्ष्मसाम्पराय
 संयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत
 जीवोंके समान भङ्ग है ।

३३३. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ।
 जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक
 जीव स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है ।
 शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्यामें
 जानना चाहिए । पीतलेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे
 स्तोक हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । देवगतिपञ्चक और औद्धारिकशरीरके अवक्तव्यपदके

१. ता०प्रतौ 'ओधिदं' । सम्मादि० खइग० वेदग० मणपज्ज' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'असंखेज्ज
 (असंज) देसु' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'अवत्त० । असंखेज्जगुं' इति पाठः ।

एवं पम्माए वि । णवरि देवगदिपंचग० - ओरा०-ओरा०अंगो०-समचदु०-उच्चा०
थीणांगिद्विभंगो । सुक्काए तेउ०भंगो ।

३३४. उवसम० धुविगाणं सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखेज्जगु० । उवरि
ओघं । चदुदंस० सव्वत्थोवा अणंतभागवट्ठि-हाणि० । अवत्त० संखेज्जगु० । अवट्ठि०
असंखेज्जगु० । सेसाणं ओघं । सासण०-सम्माभि० मदि०भंगो । एवं मिच्छदिट्ठि०-
असणि० । सणि० पंचिदियभंगो । आहारा० ओघं ।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं

एवं वट्ठिबन्धे त्ति समत्तमणियोगहारं ।

अज्भवसाणसमुदाहारपरूवणा परिमाणानुगमो

३३५. अज्भवसाणसमुदाहारे त्ति तत्थं इमाणि दुवे अणियोगहाराणि णादव्वाणि
भवन्ति । तं जहा—परिमाणानुगमो^१ अप्पाबहुगे त्ति । परिमाणानुगमेण दुवि०—
ओघेण आदेसेण य । आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेज्जाणि पदेसबंधट्ठाणाणि^३ ।
जोगट्ठाणेहितो संखेज्ज०भागुत्तराणि^४ । कधं संखेज्जदिभागुत्तराणि ? अट्ठविधबंधगेण

बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके
समान भङ्ग है । इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि देवगति-
पञ्चक, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, समचतुरस्रसंस्थान और उच्चगोत्रका भङ्ग
स्त्यानगृद्धिके समान है । शुक्ललेश्यामें पीतलेश्याके समान भङ्ग है ।

३३४. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव
सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान
भङ्ग है । चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक
हैं । उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । शेषका भङ्ग ओघके समान है । सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें
मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए ।
संज्ञी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय जीवोंके समान भङ्ग है । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार वृद्धिबन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

अध्यवसानसमुदाहारपरूवणा परिमाणानुगम

३३५. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । यथा—
परिमाणानुगम और अल्पबहुत्व । परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश । ओघसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं । ये योगस्थानोंसे
संख्यातवें भाग अधिक हैं । संख्यातवें भाग अधिक कैसे हैं ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाले

१. ता०प्रतौ 'परिमा [णा] गुगमो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'परिमाणानुगमं दुवि०' इति पाठः ।

३. ता०प्रतौ 'पदेसबंध [हा] णाणि' इति पाठः । ४. ता.आ.प्रत्योः 'असंखेज्जभागुत्तराणि' इति पाठः

ताव सव्वाणि जोगट्टाणाणि लद्धाणि । तदो सत्तविधबंधगस्स उक्कस्सगादो अट्टविध-
बंधगस्स उक्कस्सगं सुद्धं । सुद्धिसेसो यावदियो भागो अधिद्धित्तो जोगट्टाणं तदो
सत्तविधबंधगेण विसेसो लद्धो । एवं सत्तविधबंधगादो छव्विधबंधगं उवणीदा । एदेणं
कारणेण आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहिंतो
संखेज्जभागुत्तराणि । एवं सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-केवलणा०-पंचंतराइयाणं च एसेव
भंगो । थीणगि०३ असंखेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहिंतो विसेसाधियाणि ।
विसेसो पुण संखेज्जदिभागो । णिद्दा-पयलाणं असंखेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि ।
जोगट्टाणेहिंतो दुगुणाणि संखेज्जदिभागुत्तराणि । चदुदंस० असंखेज्जाणि पदेस-
बंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहिंतो तिगुणाणि संखेज्जदिभागुत्तराणि । कथं तिगुणाणि संखेज्जदि-
भागुत्तराणि ? असण्णिघोलमाणं जहण्णयं जोगट्टाणं आदिं कादूण सव्वाणि जोगट्टाणाणि
अट्टविधबंधगेण लद्धाणि । तदो सत्तविधबंधगेण विसेसो लद्धो । एत्तियाणिं चैव
पदेसबंधट्टाणाणि सम्मादिद्धिणा वि लद्धाणि । पुणो वि णिद्दा-पयलाणं बंधगदो च्छेदो
एत्तियाणिं चैव पदेसबंधट्टाणाणि लद्धाणि । एदेण कारणेण चदुदंसणावरणीयरस्स
असंखेज्जाणि पदेसबंधट्टाणाणि जोगट्टाणेहिंतो तिगुणाणि संखेज्जदिभागुत्तराणि ।
सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस० चदुण्णं आउ० सव्वासिं णामपगदीणं

जीवने सब योगस्थान प्राप्त किये हैं । उनसे सात प्रकारके बन्धक जीवके उत्कृष्टमेंसे आठ प्रकारके
बन्धक जीवका उत्कृष्ट घटा दे । घटानेपर योगस्थानका जितना भाग शेष रहे उसकी अपेक्षा
सात प्रकारके बन्धक जीवने विशेष प्राप्त किया है । इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धक जीवसे छह
प्रकारके बन्धक जीवने विशेष अधिक प्राप्त किया है । इस कारणसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणके
असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवें भाग अधिक हैं । इसी प्रकार श्रुतज्ञाना-
वरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण और पाँच अन्तरायोंके विषयमें
यही भङ्ग जानना चाहिए । स्थानगृद्धित्रिकके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे विशेष
अधिक हैं । विशेषका प्रमाण संख्यातवें भागप्रमाण है । निद्रा और प्रचलाके असंख्यात प्रदेश-
बन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग अधिक दूने हैं । चार दर्शनावरणोंके असंख्यात
प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे हैं । संख्यातवां भाग अधिक
तिगुणे कैसे हैं ? असंखीके घोलमान जघन्य योगस्थानसे लेकर सब योगस्थान आठ प्रकारके
कर्मोंका बन्ध करनेवाले जीवने प्राप्त किये हैं । उनसे सात प्रकारके कर्मोंके बन्धक जीवने विशेष
प्राप्त किये हैं । तथा इतने ही प्रदेशबन्धस्थान सम्यग्दृष्टि जीवने प्राप्त किये हैं । तथा फिर भी
निद्रा और प्रचलाका बन्धसे छेद होनेके बाद इतने ही प्रदेशबन्धस्थान प्राप्त किये हैं । इस
कारणसे चार दर्शनावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग
अधिक तिगुणे हैं । सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद,
नपुंसकवेद, चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियों, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका स्थानगृद्धि-

१. आ०प्रतौ 'अवद्धिदबंधगस्स' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'उवणिण्ण० एदेण' इति पाठः ।
३. ता०प्रतौ 'कथं (धं) तिगुणाणि' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'यत्तियाणि' इति पाठः । ५. ता०प्रतौ
'बंधदोच्छेदो यत्तियाणि' इति पाठः ।

णीचुच्चागोदस्स य यथा थीणगिद्धितियस्स भंगो कादव्वो । अपच्चक्खाण०चदुक्कस्स दुवे परिवग्डीओ । पच्चक्खाण०४ तिण्णि परिवग्डीओ । क्रोधसंजलणाए चत्तारि परिवग्डीओ । अण्णा च अट्ट परिवग्डीओ । माणसंजलणाए चत्तारि परिवग्डीओ अण्णा च तिभागूणियां परिवग्डी । मायसंजलणाए चत्तारि परिवग्डीओ अण्णा च चदुभागूणिया परिवग्डी । लोभसंजलणाए चत्तारि परिवग्डीओ अण्णा च अट्टम-भागूणिया परिवग्डी । पुरिसवेदस्स दुवे परिवग्डीओ अण्णा च तदिया पंचभागूणिया परिवग्डीओ । छण्णोकसायाणं दुवे परिवग्डीओ । परिवग्डी गाम सण्णा का ? याणि^३ मिच्छादिट्ठिस्स पदेसबंधट्ठाणाणि एसा परिवग्डी सण्णा गाम ।

एवं परिमाणाणुगमो समत्तो ।

अप्पाबहुगं

३३६. अप्पाबहुगं दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणाणावरणीयाणं सव्व-त्थोवाणि जोगट्ठाणाणि । पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसाधियाणि । सव्वत्थोवाणि णवण्हं^४ दंसणावरणीयाणं जोगट्ठाणाणि । थीणगिद्धितियस्स पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसा० । णिहा-पयलाणं पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसा० । चदुण्हं दंसणावर० पदेसबंधट्ठाणाणि विसेसाधि० । सव्वत्थोवाणि सादासादाणं दोण्हं पगदीणं जोगट्ठाणाणि । असादस्स

त्रिकके समान भङ्ग करना चाहिए । अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके विषयमें दो परिपाटियाँ हैं, प्रत्याख्यानवरणचतुष्कके विषयमें तीन परिपाटियाँ हैं, क्रोधसंज्वलनके विषयमें चार परिपाटियाँ हैं और आठ अन्य परिपाटियाँ हैं, मान संज्वलनकी चार परिपाटियाँ हैं और त्रिभाग कम एक अन्य परिपाटी है । मायासंज्वलनकी चार परिपाटियाँ हैं और चतुर्थ भाग कम एक अन्य परिपाटी है, लोभसंज्वलनकी चार परिपाटियाँ हैं और अष्टम भाग कम एक अन्य परिपाटी है, पुरुषवेदकी दो परिपाटियाँ हैं और तृतीय भाग कम एक तीसरी परिपाटी है तथा छह नोकषायोंकी दो परिपाटियाँ हैं ।

शंका—परिपाटी इस संज्ञाका क्या अर्थ है ?

समाधान—मिथ्यादृष्टिके जो प्रदेशबन्धस्थान होते हैं उतनेकी परिपाटी संज्ञा है ।

अल्पबहुत्व

३३६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । नौ दर्शनावरणोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे स्थानगृद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे निद्रा और प्रचलाके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे चार दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । सातावेदनीय और असातावेदनीय इन दोनों प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे

१. ता०प्रतौ 'अण्णा व (च) अट्टपरिवग्डीए' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'तिभागू (ऊ) णिया' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'सण्णा कायाणि' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'एवं परिमाणाणुगमो समत्तो' इति पाठो नास्ति । ५. ता०प्रतौ 'सव्वत्थोवाणं (णि) णवण्हं' इति पाठः ।

पदेसबंधट्टाणाणि विसेसाधियाणि । सादस्स पदेसबंध० विसे० । सव्वत्थोवाणि मिच्छ०-
सोलसक० जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । अपच्चक्खाणं०४
पदेसबंध० विसे० । पच्चक्खाणं०४ पदेसबंध० विसे० । कोधसंज० पदेसबंध० विसे० ।
माणसंज० पदेसबंध० विसे० । मायसंज० पदेसबंध० विसेसा० । लोभसंज० पदेस-
बंध० विसेसा० । सव्वत्थोवाणि णवणोकसायाणं जोगट्टाणाणि । इत्थि०-णवुंस०
पदेसबंध० विसेसा० । छण्णोक० पदेसबंध० विसेसा० । पुरिस० पदेसबंध० विसेसा० ।
चट्टुहमाउगाणं सव्वासिं णामपगदीणं पच्चहमंतराइगाणं च णाणावरणभंगो ।
णीचुच्चागोदाणं सादासाद०भंगो । एवं ओधभंगो मणुस०३-पंचिंदि०-तस२-पंचमणं०-
पंचवचिजो०-कायजोगि-ओरालिय०-इत्थि०- पुरिस०-णवुंस० - अवगद० - क्रोधादि०४-
आभिणि०- सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद-सामा० - छेदो०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-
सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति ।

३३७. णिरयगदीए पंचणा० सव्वत्थोवाणि जोगट्टाणाणि । पदेसबंध० विसे०^१ ।
एवं दोवेदणी०-दोआउ० सव्वाणं णामपगदीणं दोगोदं० पंचंतराइगाणं च । सव्वत्थोवाणि

स्तोक हैं । उनसे असातावेदनीयके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे सातावेदनीयके
प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । मिथ्यात्व और सोलह कषायोके योगस्थान सबसे स्तोक हैं ।
उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे
अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे प्रत्याख्यानवरणचतुष्कके
प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे क्रोधसंज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं ।
उनसे मान संज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे माया संज्वलनके प्रदेशबन्ध-
स्थान विशेष अधिक हैं । उनसे लोभसंज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । नौ
नोकषायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । उनसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान विशेष
अधिक हैं । उनसे ब्रह्म नोकषायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे पुरुषवेदके प्रदेश-
बन्धस्थान विशेष अधिक हैं । चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ और पाँच अन्तरायका भङ्ग
ज्ञानावरणके समान है । नीचगोत्र और उच्चगोत्रका भङ्ग सातावेदनीय और असातावेदनीयके
समान है । इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी,
पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, नपुंसकवेदवाले,
अपगतवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः-
पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, चक्षुदर्शनवाले, अचक्षुदर्शनवाले,
अवधिदर्शनवाले, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी
और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए ।

३३७. नरकगतियें पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं । तथा योगस्थानोंसे
प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार दो वेदनीय, दो आयु, नामकर्मकी सब
प्रकृतियाँ, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए । नौ दर्शनावरणके योगस्थान

१. आ०प्रतौ 'तस० पंचमण०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सव्वत्थो०' । जोगट्टाणादो० पदे० विसे०
साधियाणि ।' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'दोगदि०' इति पाठः ।

णवण्हं दंसणा० जोगट्टाणाणि । थीणगिद्धि०३ पदेसबंध० विसे० । छदंस० पदेसबंध० विसे० । सन्वत्थोवाणि मिच्छ०-सोलकसायाणं जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । बारसक० पदेसबंध० विसे० । सन्वत्थोवाणि णवण्हं णोकसा० जोगट्टाणाणि । इत्थि०-णवुंस० पदेसबंध० विसे० । सत्तणोक० पदेसबंध० विसे० । एवं सन्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख०३ देवा याव उवरिमगेवज्जा त्ति वेउत्वि०-असंजद०-पंचले०-वेदग० । णवरि एदेसु किंचि विसेसो । तिरिक्खेसु सन्वत्थोवाणि मिच्छ०-सोलसक० जोगट्टाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । अपच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । अट्टक० पदेसबंध० विसे० । एवं तेउ-पम्माणं । णवरि अपच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । पच्चक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । चदुसंज० पदेसबंध० विसे० । एवं वेदग० ।

३३८. सन्वअपज्जत्ताणं तसाणं थावरणं च सन्वएइंदिय-विगलिं०-पंचकायाणं च सन्वपगदीणं च सन्वत्थोवाणि जोगट्टाणाणि । पदेसबंध० विसे० । एवं ओरालियमि०-मदि-सुद-विभंगे० अब्भव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि ओरालियमिस्स० देवगदि-

सबसे स्तोक हैं। उनसे स्त्यानगृद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। उनसे छह दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। मिथ्यात्व और सोलह कषायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे बारह कषायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। नौ नोकषायोंके योगस्थान सबसे स्तोक है। उनसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। उनसे सात नोकषायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव, उपरिम प्रवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत, पाँच लेश्यावाले और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें सामान्य नारकियोंसे कुछ विशेष है। यथा—सामान्य तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व और सोलह कषायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे आठ कषायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार पीत और पद्मलेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे चार संज्वलनोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

३३८. त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकका अल्पबहुत्व नहीं है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना

१. ता०प्रतौ 'एवं वेदग० सन्वअपज्जत्ताण' इति पाठः ।

पंचग० णत्थि अप्पाबहुगं । एवं वेडव्वियमि० । कम्मइ०-अणाहार० सव्वपगदीणं णत्थि अप्पाबहुगं । अणुदिस याव सव्वट्टु त्ति अपज्जत्तभंगो । एवं आहार०-आहारमि०-परिहार०-संजदासंजद०-सासण०-सम्मामिच्छादिट्ठि त्ति । णवरि सम्मामिच्छादिट्ठिणं णत्थि अप्पाबहुगं ।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं अज्झवसाणसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगद्वारं ।

जीवसमुदाहारपरूवणा

३३६. जीवसमुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि । तं जहा—पमाणाणुगमो अप्पाबहुगे त्ति ।

पमाणाणुगमो जोगट्टाणपरूवणा

३४०. पमाणाणुगमो त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्वाराणि—जोगट्टाणपरूवणा पदेसबंधट्टाणपरूवणा चेदि^३ । जोगट्टाणपरूवणादाए सव्वत्थोवो^४ सुहुमअपज्जत्तयस्स जहण्णगो जोगो^५ । बादरअपज्जत्तयस्स जहण्णगो जोगो असंखेज्जगुणो^६ । एवं बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-अपज्ज० जहं० जोगो असंखेज्जगुणो ।

चाहिए । कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व नहीं है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवांमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है । इसी प्रकार आहारक-काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

जीवसमुदाहार प्ररूपणा

३३६. जीवसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं । यथा—परिमाणानुगम और अल्पबहुत्व ।

परिमाणानुगम योगस्थानप्ररूपणा

३४०. परिमाणानुगममें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—योगस्थानप्ररूपणा और प्रदेशबन्ध-स्थानप्ररूपणा । योगस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्त जीवका जघन्य योग सबसे स्तोक है । उससे बादर अपर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर

१. ता०प्रतौ 'वेडव्वियमि० कम्मइ०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'सम्मदिट्ठि णत्थि' आ०प्रतौ 'सम्मदिट्ठिणं णत्थि' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'चेदि' इति पाठो नास्ति । ४. ता०प्रतौ 'सव्वत्थोवा (वो)' आ०प्रतौ 'सव्वत्थोवा' इति पाठः । ५. ता०प्रतौ 'जहण्णयं जोगो' इति पाठः । ६. ता०प्रतौ 'असंखेज्जगुण' इति पाठः । ७. ता०प्रतौ 'अपज्ज० । जहं०' इति पाठः ।

सुहुमस्स पञ्जत्तयस्स जह० जोगो असंखेज्जगुणो' । बादरेइंदियपञ्जत्तयस्स जह० जोगो असंखेज्जगुणो' । सुहुम० अपञ्जत्तयस्स उक्कस्सगो जोगो असंखेज्जगुणो । बादर० अपञ्ज० उक्क० जोगो असंखेज्जगु० । सुहुम० पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखेज्जगु० । बादर० पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखेज्जगु० । बेइंदि०पञ्जत्त० जह० जोगो असंखेज्जगु० । एवं तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०पञ्जत्त० जह० जोगो असंखेज्जगुणो । बीइंदि०अपञ्ज० उक्क० जोगो असंखेज्जगुणो । एवं तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०अपञ्ज० उक्क० जोगो असं०गुणो । बीइंदि०पञ्जत्त० उक्क० जोगो असं०गुणो । एवं तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिं०-सण्णिपंचिंदि०पञ्जत्त० उक्क० जोगो असंखे०गुणो । एवमेक्केक्कस्स जीवस्स जोगगुणगारो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

एवं जोगद्वानपरूवणा समत्ता ।

पदेसबंधद्वानपरूवणा

३४१. पदेसबंधद्वानपरूवणादाए सन्वत्थोवा सुहुमस्स अपञ्जत्तयस्स जहण्णयं पदेसगं । बादर०अपञ्ज० जह० पदेसगं असंखेज्जगुणं । एवं बेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०अपञ्जत्त० जह० पदेसगं असंखेज्जगुणं । सुहुमस्स

असंख्यातगुणा है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके जघन्य योगस्थानसे सूक्ष्म पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म अपर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे बादर अपर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म पर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवका उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट योगसे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार एक एक जीवका उत्तरोत्तर योग गुणकार पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है ।

इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई ।

प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा

३४१. प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । उससे बादर अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय

१. ता०प्रतौ 'जोग० असंखेज्जगुणं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'पञ्जत्त० जोगो० जह० असंखेज्जगु०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'असण्णिपंचिंदि० । सण्णिपंचिंदि०' इति पाठः ।

पञ्जत्त० जह० पदेसम्मा असंखेज्जगुणं । एवं बादर०पञ्जत्त० । सुहुम०अपञ्जत्त० उक्क० पदेसग्गं असंखे०गुणं । बादर०अपञ्ज० उक्क० पदे० असं०गुणं । सुहुम०प्रज्जत्त० उक्क० पदे० असं०गुणं । बादर०पञ्जत्त० उक्क० पदे० असं०गुणं । वेइंदि०पञ्जत्त० जह० पदे० असं०गुणं । एवं तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०पञ्जत्त० जह० पदे० असं०गुणं । बीइंदि०अपज्जत्त० उक्क० पदे० असं०गुणं । एवं तेइंदि०-चदुरिंदि० - असण्णिपंचिंदि० - सण्णिपंचिंदि०अपज्जत्त० उक्क० पदे० असंखे०गुणं । बीइंदि०पञ्जत्त० उक्क० पदे० असं०गुणं । एवं तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०पञ्जत्त० उक्क० पदे० असं०गु० । एवमेक्केक्कस्स जीवस्स पदेसगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

एवं पदेसबंधट्टाणपरूवणा समत्ता ।

अप्पाबहुगं

३४२. अप्पाबहुगं तिविधं—जहण्यं उक्कस्सयं जहण्णुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघेण तिण्णिआउगाणं वेउव्वियज्जक्क० तित्थयरस्स य सन्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असं०गुणा । आहारदुगस्स सन्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा

अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । आगे सूक्ष्म पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे बादर पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे बादर अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे सूक्ष्म पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य प्रदेशात्त उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । आगे द्वीन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । आगे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार आगे क्रमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट प्रदेशात्त असंख्यातगुणा है । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एकका प्रदेश गुणकार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

इस प्रकार प्रदेशबन्धस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

अल्पबहुत्व

३४२. अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकषट्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे

१. ता०प्रतौ 'बीइं उ (अ) प०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'एवमेक्केक्कस्स पदेसगुणगारो' इति पाठः ।

संखेज्जगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । [अणुक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा] अणंतगुणा । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०-मदि-सुद०-असंजद-अचक्खुदं० - तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु देवगदिपंचंग० सव्वत्थोवा उक्क०पदेस०बं० जीवा । अणुक्क०-पदेसबंध० जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं णिरयादि याव सण्णि ति एसिं असंखेज्जरासीणं तेसिं एइंदिय-वणप्फदि-णियोदाणं च ओघं देवगदिभंगो । णवरि णिरएसु मणुसाउगमादीणं याव सासण ति एसिं परियत्त-अपरियत्तरासीणं याओ पगदीओ परिमाणे संखेज्जाओ तासिं पगदीणं ओघं आहारसरीरभंगो ।

एवं उक्कस्सगं अप्पावहुगं समत्तं ।

३४३. जहण्णए पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० आहारदुगं सव्वत्थोवा जह०पदे०बंधगा जीवा । अजह०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । एवं याव अणाहारग ति संखेज्जपगदीणं सव्वाणं । सेसाणं पगदीणं णाणावरणादीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०-

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुसकवेदवाले, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष नारिकोसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक जो असंख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनमें तथा एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें ओघसे देवगतिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि नारिकियोंमें मनुष्यायु आदिका सासादन-सम्यग्दृष्टि तक तथा परिवर्तमान और अपरिवर्तमान जिन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं उन प्रकृतियोंका ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

३४३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । अनाहारक मार्गणा तक जिन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जो संख्यात जीव हैं उन सबका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए । अर्थात् जिन प्रकृतियोंका किन्हीं भी मार्गणाओंमें संख्यात जीव बन्ध करते हैं उनमें तथा जिन मार्गणाओंका परिमाण ही संख्यात है, उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग जानना चाहिए । शेष ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंका

बंधगा जीवा । अजहण्णपदे०बं० जीवा असं०गुणा । एवं याव अणाहारग ति असंखेज्जरासीणं अणंतरासीणं च सव्वेसिं च षोदव्वं ।

३४४. जहण्णुक्कस्सए पग्गं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्क०-तिरिक्खाउ०-दोगदि - पंचजादि-तिण्णि-सरीर-छस्संड्ढाण-ओरा०अंगो० - छस्संव०-वण्ण०४ - दोआणु०-अगु०४-आदाउज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगोद०-पंचंतरा० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदेसबं० जीवा अणंतगु० । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबं० जीवा असंखेज्जगुणा । गिरय-मणुस-देवाउ-गिरयगदि-गिरयाणुं० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असं०गुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदे०बं० जीवा असं०गुणा । देवगदि०४ सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गुणा । आहारदु० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । अज०मणु०पदे०बं० जीवा सं०गुणा । तित्थ० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखे०गुणा ।

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक असंख्यात राशिवाली और अनन्त राशिवाली जितनी मार्गणएँ हैं उन सबमें जानना चाहिए ।

इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

३४४. जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्वका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावरादि दस शुगल, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । नरकायु, मनुष्यायु, देवायु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य

१. ता०प्रतौ 'आ० । पंचणा०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'पंचणा० तिण्णिसरीर छसठाण अंगो०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'असंखेज्जगुणं (णा)' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'देवाउगिरयाणु०' इति पाठः । ५. ता०प्रतौ 'अजह० अ (अ) णुक्क० पदे०बं०' इति पाठः ।

एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइका०-णवुंस०-
कोधादि०४-मदि-सुद०-असंजद-अचक्खुदं०-तिणिले०-भवसि०-अभवसि० - मिच्छादि०-
असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०- अणाहार० देवगदि-
पंचग० ओघं । णवरि संखेज्जं कादव्वं ।

३४५. णिरएसु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०
बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । अज०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० ।
मणुसाउ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जी० संखेज्जगु० ।
अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । सेसाणं पगदीणं तित्थय० सव्वत्थोवा
जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा
असं०गु० । एवं सत्तसु पुढवीसु । सव्वत्थोवा.....संखेज्जं कादव्वं ।

४४६. तिरिक्खेसु ओघं । पंचिदियतिरिक्खि० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०-
पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा
असं०गु० । देवगदि०४ ओघभंगो । पंचिदियतिरिक्खपञ्च-जोणिणीसु पंचणा०-
थीणगि०३-दोवेदणी० - मिच्छ० - अणंताणु०४ - इत्थि० - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि०४-

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च,
काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले,
क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले,
भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कर्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगति-
पञ्चकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे करना चाहिए ।

३४५. नारकियोंमें छह दर्शनावरण, बारह कषाय, सात नोकषाय, और तिर्यञ्चायुके
उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यात-
गुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुके उत्कृष्ट
प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।
उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके तथा तीर्थङ्कर
प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव
असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार
सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।.....संख्यात करना चाहिए ।

३४६. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।
उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके
समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तक और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें पाँच ज्ञानावरण,
स्त्याननगुद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद, मनुष्यायु, देवायु,

१. ता०आ०प्रत्योः 'असं०गु०' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'असंखेज्जगु०' इति पाठः ।
३. ता०प्रतौ 'सव्वत्थोवा.....रे संखेज्जं' इति पाठः ।

समचद्रु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० - पंचंतरा० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगुणा । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असं० गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्त० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । अज०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । एवं एइंदिय-बादरेइंदिय-विगल्लिंदियाणं तिण्णिपदा । पंचिंदिय-तसअपज्ज० पंचकायाणं च ओघं पदा । तेसिं बादराणं ओघं पदा । बादरेइंदियपज्जत्ता सव्वसुहुमपंचकायाणं बादरपज्जत्तापज्जत्ताणं तेसिं सव्वसुहुमाणं सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । किं कारणं जह०पदे० जीवा थोवा ? सगरासिस्स असंखेज्जदिभागो जहण्णयं करेदि ति । मणुसाउ० ओघो ।

३४७. मणुसेसु दोआउ-वेउव्वियल्लकं आहारदुगं तित्थ० ओघं आहारसरीरभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जी० असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा

देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके बत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीवोंमें तीन पदोंका अल्प-बहुत्व जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त और पाँच स्थावरकायिकोंमें ओघके अनुसार पदोंका अल्पबहुत्व है । उनके बादरोंमें ओघके अनुसार पदोंका अल्पबहुत्व है । बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, सब सूक्ष्म पाँच स्थावरकायिक, बादर पर्याप्त और बादर अपर्याप्त तथा उनके सब सूक्ष्म जीवोंमें जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं इसका क्या कारण है ? क्योंकि अपनी राशिके असंख्यातवे भागप्रमाण जीव जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करते हैं । मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है ।

३४७. मनुष्योंमें दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्यातोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक

१. आ०प्रतौ 'जह०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । एवं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'पद (दा) बादर-एइंदियपज्जत्ता' इति पाठः ।

जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । णवारि पंचणा०-छदंस०सादा०-वारसक०-सत्तणोक०-जस०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । अजह०मणु०-पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । मणुसअपज्ज० णिरयभंगो ।

३४८. पंचिंदिय-तसाणं देवगदि०४ सादाणं ओघं । सेसाणं पंचिंदिय-तिरिक्खभंगो । पंचिंदियपज्जत्तगेषु थीणगिद्धि०३-असाद०-मिच्छ-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-देवगदि०४-पंचसंठा०-पंचसंघ०-पर०उस्सा०-आदाउज्जो० - पसत्थ०-पज्जत्त-थिर-सुभ-सुस्सर-आदे०-णीचा० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजहणमणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । पंचणा०-छदंस०-सादा०-वारसक०-सत्तणोक०-चदुआउ०-तिण्णिगदि-पंचजादि-ओरालि० - तेजा०-क० - हुड० - ओरालि०-अंगो०-असंप०-वण्ण०४-तिण्णिआउ०-अगु०-उप० - अप्पसत्थ०-तस-थावर-बादर-सुहुम-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-अथिरादिक्क-जसगि०-णिमि०-उच्चागो०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०सदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । आहारदुगं तित्थय० ओघं । एवं तसपज्जत्त० ।

जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, छह-दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।

३४८. पञ्चेन्द्रिय और त्रस जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें स्त्यानगृद्धिन्निक, असाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, देवगतिचतुष्क, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुस्वर, आदेय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय, चार आयु, तीन गति, पाँच जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आज्ञोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तीन आयु, अगुरुलघु, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि छह, यशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार त्रसपर्याप्तक जीवोंमें जानना चाहिए ।

३४६. पंचमणु०-तिष्णिवचि० मणुसग०-देवग०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०-अंगो०-दोआणु० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा.असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । आहारदुगं तित्थयरं ओघं । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । वचिजोगिं०-असच्चमोसवचि० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । आहारदुगं तित्थ० ओघं ।

३५०. कायजो०-ओरालियका०-ओरालियमि० ओघमंगो । वेउव्वियका० देवोघं । वेउव्वियमि० छदंसणा०-बारसक०-सत्तणोक० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । एवं सव्वपगदीणं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । तित्थ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० । अजह०मणुक०-पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । आहारकायजोगीसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० संखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगु० ।

३४६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें मनुष्यगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उससे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारकद्विक और तीर्थङ्कर-प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है।

३५०. काययोगी, औदारिककाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। आहारककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य

आहारमिस्स० वेउव्वियमिस्स० भंगो । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । कम्महग० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क० पदे० बं० जीवा । जह० पदे० बं० जीवा अणंतगु० । अजह० मणु० पदे० बं० जीवा असं० गु० । देवगदि० ४ ओघं । णवरि संखेज्जगुणं कादव्वं । तित्थयरं वेउव्वियमिस्स० भंगो ।

३५१. इत्थिवेदगे पंचणाणावरणीय-थीणगि० ३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थि०-णवुंस०-चदुसंठा०-पंचसंध०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-पसत्थ०-पज्ज० - थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-दोगोद०-पंचंत० सव्वत्थोवा जह० पदे० बं० जीवा । उक्क० पदे० बं० जीवा असं० गु० । अजह० मणु० पदे० बं० जी० असं० गु० । सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क० पदे० बं० जीवा । जह० पदे० बं० जीवा असं० गु० । अजह० मणु० पदे० बं० असं० गु० । आहारदुगं ओघं । तित्थ० सव्वत्थोवा जह० पदे० बं० जीवा । उक्क० पदे० बं० जीवा संखेज्जगु० । अजह० मणु० पदे० बं० जीवा संखेज्जगु० । एवं पुरिसवेदगेषु । णवरि आहारदुगं तित्थ० ओघभंगो । णवुंस० ओघं । णवरि देवगदि० वेउव्वि०-वेउव्वि० अंगो०-देवाणु० सव्वत्थोवा उक्क० पदे० बं० जीवा । जह० पदे० बं० जीवा असं० गु० । अजह० मणु० पदे० बं० जीवा असंखे० गु० । तित्थय० सव्वत्थोवा जह०-

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है ।

३५१. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, स्थानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पुरुषवेदवाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । नपुंसकवेदवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञो-पाङ्ग और देवगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे

पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा ।

३५२. कोध-माण-माय-लोभकसाईसु ओघभंगो । मदि-सुद० ओघभंगो । णवरि देवगदि०४ णिरयगदिभंगो । विभंग० देवगदि०४ सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगुणा ।

३५३. आभिणि-सुद-ओधिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चदुदंस०-सादा०चदुसंजल०-पुरिस०-देवाउ०-जसगि०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । मणुसाउगं णिरयभंगो । आहारदुगं तित्थ० ओघभंगो । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज्जगुणा । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० । णवरि उवसम० तित्थय० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा ।

उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं ।

३५२. क्रोधकषायवाले, मानकषायवाले, मायाकषायवाले और लोभकषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कका भङ्ग नरकगतिके समान है । विभङ्गज्ञानी जीवोंमें देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३५३. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, देवायु, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुका भङ्ग नारकियोंके समान है । आहारकट्टिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव

१. ता०प्रतौ 'सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा णं (?) उक्क०पदे०' आ०प्रतौ सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवाण उक्क०पदे०बं०' इति पाठः । २. आ० प्रतौ 'पंचणाणावरणीय सव्वत्थोवा' इति पाठः ।

३५४. मणपञ्जव० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-चदुसंजल०-पुरिस०-जसगि०-
उच्चा०पंचंतस० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा ।
अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०
पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा
संखेज्जगुणा । एवं संजदा० । सामाइ०-छेदो०-परिहार० सव्वपगदीणं मणपञ्जव०असादभंगो ।
णवरि सामाइ०-छेदो० चदुदंस०-पुरिस०-जसगित्ति० मणपञ्जवभंगो ।

३५५. सुहुमसंप० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०-
पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा संखेज्जगुणा । एवं
अवगदवेदाणं पि । संजदासंजदेसु असाद०-अरदि-सोग-देवाउ० सव्वत्थोवा उक्कस्स-
पदेसबं धगा जीवा । जहण्णपदेसबं धगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्स-
पदेसबं धगा जीवा असंखेज्जगुणा । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबं धगा
जीवा । उक्कस्सपदेसबं धगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबं धगा जीवा
असंखेज्जगुणा । असंजदेसु तिरिक्खोघं । णवरि तित्थयरं ओघं । एवं किण्णलेस्सिय-

सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे ।

३५४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए । सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानियोंमें कहे गये असातावेदनीयके समान है । इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें चार दर्शनावरण, पुरुषवेद, और यशःकीर्तिका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है ।

३५५. सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोंमें जानना चाहिए । संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरति, शोक और देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । असंयत जीवोंमें सामान्य

१. ता०आ०प्रत्योः 'पुरिस० उवसम० जसगि०' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'चदुदंस० पुरिस०' इति पाठः । ३. ता०प्रतौ 'पवेसबंघोवा (धगा) जीवा' इति पाठः । ४. ता०प्रतौ 'उक्कस्स उक्कस्स (?) पदेस-
बंधगा' इति पाठः ।

णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणं । णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं इत्थि०भंगो । चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदंसणी० ओघं ।

३५६. तेउ-पम्मासु छदंसणावरणीयाणं बारहकसायं सत्तणोकसायं सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा । जहण्णपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । मणुसाउगं देवभंगो । देवाउगं ओधि०भंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबन्धगा जीवा । उक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा ।

३५७. सुक्काए पंचणाणावरणीयाणं चदुदंस० सादा० चदुसंजल० पुरिस० जसगित्ति उच्चागोद पंचणं अंतराङ्गाणं च सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा । जहण्णपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । दोआउ० देवभंगो । सेसाणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबन्धगा जीवा । उक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबन्धगा जीवा असंखेज्जगुणा ।

३५८. भवसिद्धिया० ओघं । अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि० मदि०भंगो । वेदगसम्मादिट्ठी० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबन्धगा जीवा । उक्कस्सपदेस-

तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अर्थात् असंयत जीवोंके समान कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग खीवेदी जीवोंके समान है । चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है । अचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है ।

३५६. पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय और सात नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है । देवायुका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३५७. शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संख्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । दो आयुओंका भङ्ग देवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

३५८. भव्य जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है । वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके

बंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । एवं सासण०-सम्मामि० । सण्णीसु पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जसगित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइगाणं च सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । जहण्ण-पदेसबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । एवं चदुण्णमाउगाणं णाणावरणभंगो । आहारदुगं तित्थयरं च ओधं । सेस-पगेदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेज्जगुणा । एवं एदेण बीजेण चित्तेदूणं गोदव्वं भवंति । आहार० ओधो । अणाहार० कम्मइगकायजोगिभंगो ।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं ।

एवं जीवसमुदाहारे त्ति समत्तमणियोगहारं ।

एवं पदेसबंधो समत्तो ।

एवं बंधविधाणे त्ति समत्तमणियोगहारं ।

एवं चदुविधो बंधो समत्तो ।

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।

णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए । संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संखलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार चार आयुओंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार विचार कर ले जाना चाहिए । आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है । अनाहारक जीवोंमें कर्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रदेशबन्ध समाप्त हुआ ।

इस प्रकार बन्धन अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

इस प्रकार चार प्रकारका बन्ध समाप्त हुआ ।

अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें सब साधुओंको नमस्कार हो ।

ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन

[प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थ]

१. महाबन्ध—[भाग १-७]	७८)
२. करलम्बण [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेखा विज्ञानका प्राचीन ग्रन्थ	१११)
३. मदनपराजय [भाषानुवाद तथा विस्तृत प्रस्तावना]	८)
४. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची	१३)
५. न्यायविनिश्चयविवरण [प्रथम भाग]	१५)
६. न्यायविनिश्चयविवरण [द्वितीय भाग]	१५)
७. तत्त्वार्थवृत्ति [श्रुतसागर सूरिरचित टीका] हिन्दी सार सहित	१६)
८. आदिपुराण [भाग १] भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र	१०)
९. आदिपुराण [भाग २] भगवान् ऋषभदेवका पुण्य चरित्र	१०)
१०. नाममाला सभाष्य [कोष]	३११)
११. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि [ज्योतिष ग्रन्थ]	४)
१२. सभाष्यरत्नमंजूषा [छन्दशास्त्र]	२)
१३. समयसार—[अंग्रेज़ी]	८)
१४. थिरुकुरल—तामिल भाषाका पञ्चमवेद [तामिल लिपि]	४)
१५. वसुनन्दि-श्रावकाचार	५)
१६. तत्त्वार्थवार्तिक [राजवार्तिक] भाग १ [हिन्दी सार सहित]	१२)
१७. तत्त्वार्थवार्तिक [राजवार्तिक] भाग २ [हिन्दी सार सहित]	१२)
१८. जातकट्टकथा [प्रथम भाग] पाली भाषा	६)
१९. जिनसहस्रनाम	४)
२०. सर्वार्थसिद्धि	१२)
२१. पुराणसारसंग्रह [भाग १]	२)
२२. पुराणसारसंग्रह [भाग २]	२)
२३. जैनेद्रमहावृत्ति	१५)
२४. व्रततिथिनिर्णय	३)

[हिन्दी ग्रन्थ]

२५. धर्मशर्माभ्युदय [धर्मनाथ चरित]	३)
२६. मंगलमंत्र णमोकार : एक अनुचितन	२)
२७. ज्ञानपीठ पूजाञ्जलि	४)
२८. आधुनिक जैन कवि [परिचय एवं कविताएँ]	३१११)
२९. जैन शास्त्र [जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना]	३)
३०. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न [अध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ]	२)
३१. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास	३१११=)

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी ५